

इसे वेबसाईट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 नवम्बर 2014—अग्रहायण 7, शक 1936

## भाग २

### स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2014

क्र. 3864-स्था.निर्वा.-2014.—मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-1-2014-22-पं.-2, दिनांक 20 अगस्त 2014 एवं राज्य निर्वाचन आयोग के परिपत्र क्रमांक एफ-70-121-2014-तीन-1401, दिनांक 4 सितम्बर 2014 में दिए गए निर्देशों के परिपालन में एवं मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-11-95-बाइस-प-1, दिनांक 23 फरवरी 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 126 (1) के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गयी सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा जायेगा) के स्तम्भ 4 में वर्णित ग्राम पंचायतों के स्तम्भ 6 के ग्राम सम्मिलित हैं, को मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 109-एफ-1-30-2012-ठाठरह-3, दिनांक 20 नवम्बर 2014 के अनुसार नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायतों को विघटित कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस संबंध में आपत्ति/सुझाव दिनांक 29 नवम्बर 2014 तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील हुजूर को प्रस्तुत किए जा सकेंगे :—

### सारणी

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत	नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आने वाले ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	भोपाल	फन्दा	रापड़िया	रापड़िया	1. रापड़िया 2. कटारा 3. बराई 4. बगली

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	भोपाल	फन्दा	कोलूखेड़ी	कोलूखेड़ी	5. कोलूखेड़ी
3	भोपाल	फन्दा	छान	छान	6. छान 7. मक्सी 8. पिपलियाकुंजनगढ़ 9. थैरौपुर
4	भोपाल	फन्दा	भौरी	भौरी	10. भौरी 11. जमोनिया छीर 12. मीरपुर वीरान
5	भोपाल	फन्दा	दीपड़ी	दीपड़ी	13. दीपड़ी 14. समरधा कलियासोत
6	भोपाल	फन्दा	रतनपुर सड़क	रतनपुर सड़क	15. रतनपुर सड़क 16. नेरला हनुमंत 17. बिलखिरिया खुर्द 18. गुराड़ीघाट
7	भोपाल	फन्दा	नीलबड़	नीलबड़	19. नीलबड़
8	भोपाल	फन्दा	लांबाखेड़ा	लांबाखेड़ा	20. लांबाखेड़ा

निशांत बरवडे, कलेक्टर.

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश

जनपद पंचायत  
परिषिष्ठ-5 ( ब )

सतना, दिनांक 8 मई 2014

क्र. पंचा-प्रकोष्ठ-परिसीमन-2014-15-806.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 एवं धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश, द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित खण्ड/जिला को स्तम्भ (3) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिसकी सीमा उनके सामने अंकित स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :—

### सारणी

अनु- क्र.	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
	सोहावल	1	टीकर चोरबरी खनगढ़ भंवर	अ. जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा.	7 3 6 4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2		करसरा खडौरा सेमरिया तैकौरी	महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	2 3 4
	3		मसनहा बांधी हड्डखार पड़ौरैत इटमा ईगांव		
	4		कलहारी धौरहरा नारायणपुर शिवपुर		
	5		मुड़हाकला बचवई डिलौरा डिलौरी		
	6		करहीकोठार मझगवां भुमकहर अहिरगांव		
	7		सोहावल सोहौला बाबूपर		
	8		कुड़िया नकटी बराकला मदनी		
	9		पुरवा बम्हरौला नदना नचनौरा रनेही		
	10		भैंसवार नयागांव कंचनपुर		
	11		दिदौंध मौहार		
	12		झाली बरहना गोरईया		
	13		रायपुर सेमरीकला उजरौंधा पवैया		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	14		गुलुबा मनकहरी पोँडी नैना (कोठी) उदयसागर		
	15		कैमा उन्मूलन बठियाकला		
	16		नैना सगमनिहा बेला मांद सकरिया बिरहुली		
	17		भरजुनाकला भरजुनाखुर्द लालपुर सगंमा		
	18		कोठरा पासी पोँईधाकला डगडीहा		
	19		सोहास रांगली पतौड़ा		
	20		खम्हरिया हटिया मेदनीपुर डांडीटोला		
	21		हाटी रामपुर चौरासी कुसियरा		
	22		फुटौंधा पुटौंधी बारीखुर्द		
	23		रामस्थान जमोड़ी खम्हरिया तिवरियान		
	24		मटेहना माधवगढ बेलहटा सिजहटा		
	25		नीमीवृत्त बारीकला कुंआ		

## जनपद पंचायत नागौद

परिशिष्ट-5 (ब)

सतना, दिनांक 8 मई 2014

क्र. पंचा-प्रकोष्ठ-परिसीमन-2014-15-806.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 एवं धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोहनलाल, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश, द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित खण्ड को स्तम्भ (3) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :—

## सारणी

अनु- क्र.	खण्ड/जिला का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नागौद, जिला सतना	1	(1) मड़ई, (2) कल्पा, (3) शिवराजपुर	अ. जा.	6
2		2	(1) उसरार, (2) महतैन, (3) दुर्गापुर, (4) भाजीखेरा	अ.ज.जा.	2
3		3	(1) देवरी, (2) आमा, (3) नोनगरा, (4) कोटा-1	अन्य पिछड़ा वर्ग	6
4		4	(1) द्वारीखुर्द, (2) बिलौंधा, (3) पिपरी, (4) बण्डी	महिला अ.जा.	3
5		5	(1) पनगरा, (2) रौड़	महिला अ.ज.जा.	1
6		6	(1) भैहाई, (2) सिंहपुर	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	(1) बेलगहना, (2) मझियारी, (3) बेला, (4) खम्हरियाखुर्द	महिला सामान्य	6
8		8	(1) कचनार, (2) बसुधा, (3) उमरहट, (4) हिलौंधा		
9		9	(1) खैरा, (2) गिंजारा, (3) अकौनासाठिया, (4) कतकोनकला		
10		10	(1) सितपुरा, (2) बचवई, (3) इटमां, (4) छींदा		
11		11	(1) डाम्हा, (2) मौहारा, (3) लालपुर, (4) नवस्ता, (5) रजरवारा.		
12		12	(1) पतवारा, (2) कचलोहा, (3) रेल्लआकला, (4) रेल्लआखुर्द		
13		13	(1) गंगवरिया, (2) सेमरवारा, (3) हड्हा, (4) बाबूपुर		
14		14	(1) अमिलिया, (2) धौरहरा, (3) खखरौंधा, (4) मझगवाँ, (5) बारापत्थर.		
15		15	(1) हरदुआकला, (2) खमरेही, (3) नौनिया, (4) उजनेही, (5) इटौराकला.		
16		16	(1) सेमरी, (2) पवईया, (3) इटमाउबारी, (4) अतरौरा, (5) उमरी बृज.		
17		17	(1) शहपुर, (2) माड़ीटोला, (3) रमपुरा, (4) मढ़ीकला		
18		18	(1) पासी, (2) कलावल, (3) हुड्हा, (4) कपुरी, (5) रुनेही.		
19		19	(1) दुरेहा, (2) गीलुल, (3) दतुनहा		
20		20	(1) झिंगोंदर, (2) उमरिहा, (3) कोटा-2, (4) कोनी		
21		21	(1) जसो, (2) सिजहटी, (3) अमकुई		
22		22	(1) सुरदहाकला, (2) जादवपुर कोठार, (3) सुरदहाखुर्द		
23		23	(1) कोडर, (2) चुनहा, (3) बमुरहिया		
24		24	(1) रहिकवारा		
25		25	(1) मुगहर, (2) मझगवाँखुर्द, (3) उरदान, (4) चन्दकईया		

मोहनलाल, कलेक्टर,

**जनपद पंचायत  
परिशिष्ट-5 ( ब )**

सतना, दिनांक 8 मई 2014

क्र. पंचा-प्रकोष्ठ-परिसीमन-2014-15-806.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 एवं धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मोहनलाल, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश, द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित खण्ड/जिला पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :—

**सारणी**

अनु-	जनपद पंचायत	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	सीमा ग्राम पंचायत का नाम	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	उचेहरा	1	1. रामपुरपाठा 2. गढ़ौता 3. पटिहट 4. तुषगवां	अ. जा. अ.ज.जा. पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा.	4 5 6 2
		2	1. आलमपुर 2. पिपरिया 3. परसमनिया 4. सखोहाखुर्द	महिला अ.ज.जा. महिला पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	3 3 4
		3	1. पहाड़ी 2. पुरैना 3. देवगुना		
		4	1. गुढा 2. विचवा 3. कुलहरियाखुर्द 4. महराजपुर 5. तिघरापाठा		
		5	1. पथरौंधा 2. श्यामनगर		
		6	1. सेमरी 2. खेरी 3. जॉखी 4. अमदरी		
		7	1. मानिकपुर 2. कुलगढ़ी 3. लालपुर		
		8	1. अटरा 2. नंदहा 3. पिपरोखर		
		9	1. पतौरा 2. बीरपुर		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10		1. पिथौराबाद 2. पोडी		
	11		1. लोहरौग 2. जिगनहट 3. भर्णी		
	12		1. तिघरा 2. बडखेरा 3. भटनवारा		
	13		1. बैंधीमोहार 2. सेमरीदुबे		
	14		1. बाबूपुर 2. बडखुरा 3. सहिजनाउबारी		
	15		1. लगरगवां 2. भरहुत 3. मतरीपतौरा		
	16		1. देवार 2. कुदहरीकलां 3. अकहा 4. भरहटा		
	17		1. गुद्धवा 2. गोबरावखुर्द 3. धनेह		
	18		1. बिहटा 2. गोबरावकलां		
	19		1. पिपरीकलां 2. पोडीगरादा		
	20		1. करहीकलां 2. करहीखुर्द 3. गडौली		
	21		1. रगला 2. नरहठी 3. उरदना		
	22		1. कोरवारा 2. रमपुरवा		
	23		1. खूझा 2. बदरहा 3. इटहाखोखर्ण		
	24		1. इचौल 2. पथरहटा		

जिला / जनपद पंचायत

परिशिष्ट-5 (ब)

सतना, दिनांक 8 मई 2014

क्र. पंचा.-प्रकोष्ठ-परिसीमन-2014-15-806.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 एवं धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोहनलाल, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश, द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित खण्ड/जिला को स्तम्भ (3) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :—

## सारणी

अनु- क्र.	जनपद/ जिला पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	सीमा ग्राम पंचायत के नाम (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	अमरपाटन	1	त्यौंधरी, उमरी शिवराजी, सरबका	अ. जा.	3
		2	दिनापुर, सिलपरी, त्यौंधरा नं. 2	अ.ज.जा.	4
		3	करही लामी, कोरिगवों, ऐरा	अन्य पिछड़ा वर्ग	6
		4	सेमरिया, रुहिया, खुटहा	महिला अ.जा.	2
		5	बेला, केमार, पैपखरा	महिला अ.ज.जा.	2
		6	पगरा, झिरिया कोपरिहार, महुडर	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	डिटौरा, भदवा, ककलापुर	महिला सामान्य	6
		8	झिन्ना, खजुरी सुखनंदन, मढा		
		9	मुकुंदपुर, परसिया		
		10	ललितपुर-2, कोंतर, मढी (अजमाइन) जमुना		
		11	घोबहट, आनंदगढ़, पपरा, आमिन		
		12	ताला		
		13	विधुईखुर्द, बिछियाखुर्द, भडरा		
		14	बिगौडी, पोंडीकला, सन्नेहीबडा		
		15	कठहा, रामगढ़, डोमा		
		16	मौहारी कटरा, अहिरगांव, देउ		
		17	मझगवाँ, मगराज, छुंईसा		
		18	पाल, बछरा, इटमा (खजुरी)		
		19	मौहट, धौरहरा, गोरा, ककरा		
		20	नौगवाँ, कुम्हारी, पठरा, अमझर		
		21	भीषमपुर, देवरी जगदीशपुर		
		22	ओबरा, मढी (बीरदत्त), सुआ		
		23	इटमा कोठार, चोरखडी		
		24	खरमसेडा		
		25	बरेहबडा, मौहरिया लालन, परसवाही, रैकवार, लालपुर		

## जिला / जनपद पंचायत

परिशिष्ट-5 (ब)

सतना, दिनांक 8 मई 2014

क्र. पंचा.-प्रकोष्ठ-परिसीमन-2014-15-806.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 एवं धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोहनलाल, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित खण्ड/जिला को स्तम्भ (3) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने अंकित स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :—

## सारणी

अनु- क्र.	जनपद/ जिला पंचायत का नाम	(1)	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक (2)	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम) (3)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	सतना	1	खारा		अ. जा.	2
	रामनगर		बडाइटमा		अ.ज.जा.	5
			टेगना		अन्य पिछड़ा वर्ग	4
					महिला अ.जा.	1
					महिला अ.ज.जा.	3
					महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
					महिला सामान्य	3
2	—”—	2	नादो			
			सुलखमा			
			कुदरीकला			
3	—”—	3	हर्रई			
			बडवार			
			दधीचटोला			
4	—”—	4	न्यूमिरगौती			
			बाबूपुर			
5	—”—	5	मनकहरी			
			हरदुआ			
			चंदवार			
6	—”—	6	देवरी			
			गोरसरी			
			गैलहरी			
7	—”—	7	देवरीकला			
			पुरैना			
			मसमासी			
			गंजास			
8	—”—	8	सोनाड़ी			
			सोहैला			
			देवरामोलहाई			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	सतना रामनगर	9	गिधैला देवराजनगर गंगासागर गोविन्दपुर करा		
10	— "—	10	गुलबारगुजारा नौगाँव नं. 4 पदमी		
11	— "—	11	सगौनी जोवा नारायणपुर		
12	— "—	12	अरगट छिरहाई जिगना		
13	— "—	13	हिनौती खोढ़री जुड़मानी		
14	— "—	14	झिना जटाहाटोला मर्यादपुर देवदहा		
15	— "—	15	पैपखरा मझटोलवा बूद्धाबाऊर		
16	— "—	16	भमरहा मनकीसर बेलहाई		
17	— "—	17	सरिया कैथहा मूर्तिहाई		

**जनपद पंचायत  
परिशिष्ट-5 (ब)**

सतना, दिनांक 8 मई 2014

क्र. पंचा-प्रकोष्ठ-परिसीमन-2014-15-806.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 एवं धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं मोहनलाल, कलेक्टर, ज़िला सतना, मध्यप्रदेश, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित खण्ड को स्तम्भ (3) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने अंकित स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों को जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :—

**सारणी**

अनु-	जनपद/ ज़िला	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	सीमा ग्राम पंचायत के नाम	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	रामपुर बाघेलान	1	लखनवाह, घोरकाट, पटनाखुर्द, करहीकलां	अ. जा.	4
2	ज़िला सतना, म.प्र.	2	चितगढ़, देवरा नं. 1, थथौरा, गोलहटा	अ.ज.जा.	3
3		3	बिहरा क्र. 1, लौलाछ, खाम्हा	अन्य पिछड़ा वर्ग	6
4		4	चूंदंखुर्द, मोहनिया, तिहाई, अंधरवार	महिला अ.जा.	2
5		5	अबेर, अकौना, इटौर, रजरवार	महिला अ.ज.जा.	2
6		6	गढ़वाखुर्द, गजिगवां, बरदाडीह, खम्हरिया	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	गोरझ्या, मलगांव, घुघचिहाई	महिला सामान्य	6
8		8	बकिया तिवरियान, बकिया बैलो, महिदलकलां, कंदवा		
9		9	मझियार, गांजन, बेला, मढ़ी		
10		10	रामनगर, रघुनाथपुर, बरती, छिबौरा		
11		11	देवमऊदलदल		
12		12	चोरमारी, सगौनी, डेगरहट		
13		13	जमुना, देवरा क्र. 2, कूंद, तुर्की, झण्ड		
14		14	जनार्दनपुर, करमऊ, बैरिहा		
15		15	हिनौती, मनकहरी, सिजहटा		
16		16	बगहाई, बठिया, तपा, खारी		
17		17	अतरहरा, बढ़ौरा, महुरछकदैला, नरसिंहपुर		
18		18	रिछहरी, मतहा, सतरी, सज्जनपुर		
19		19	गाडा, सिधौली, मरौहा, खगौरा		
20		20	बीरनई, सरांय, चकदही, गौहारी		
21		21	कृष्णगढ़, बांधा, खटखरी, खुखडा कोठार, खोखम		
22		22	सेलहना, बिहरा क्र. 2, गुडुहुर, पड़खुरी, नेमुआ		
23		23	बीदा, इटमा कोठार, असरार, शिवपुरवां, कोनिया कोठार		
24		24	चकेरा, डुडहा, सोनौरा, खेरिया कोठार, कर्पवाह कोठार		
25		25	इटमानदीतीर, खरवाही, चोरहटा, लखहा		

जनपद पंचायत

अंतिम प्रकाशन

परिशिष्ट-5 ( ब )

सतना, दिनांक 8 मई 2014

क्र. पंचा-प्रकोष्ठ-परिसीमन-2014-15-806.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 एवं धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, मोहनलाल, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश, द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित खण्ड/जिला को स्तम्भ (3) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :—

## सारणी

अनु- क्र.	खण्ड का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रक्रम (5)	संख्या (6)
1	मझगाँव	1	(1) पालदेव, (2) पडमनिया जागीर, (3) टेढी पतवनिया, (4) सेजवार, (5) खरहा	अ. जा. अ.ज.जा.	5 5
2		2	(1) चुवा, (2) खोही, (3) कन्दर, (4) नरदहा, (5) पाथरकछार, (6) रानीपुर, (7) भियामऊ	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा.	6 3
3		3	(1) बरौंधा, (2) शाहपुर, (3) अर्जुनपुर	महिला अ.ज.जा.	3
4		4	(1) नकैला, (2) सिंहपुर, (3) सांडा, (4) मलगौसा	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
5		5	(1) झरी (नकैला), (2) पडरी, (3) लालपुर (पडरी) (4) ब्रह्मीपुर	महिला सामान्य	4
6		6	(1) पिण्डरा		
7		7	(1) कौंहरी, (2) जवारिन, (3) गोपालपुर		
8		8	(1) भठवा, (2) महतैन, (3) पुतरीचुवा, (4) पटनाखुर्द		
9		9	(1) केल्हौरा, (2) देवलहा, (3) हिरौंदी		
10		10	(1) मझगाँव		
11		11	(1) कैलाशपुर, (2) तुरा, (3) लालपुर पटिहर, (4) पछीत		
12		12	(1) भरगाँव, (2) चितहरा, (3) खोढरी, (4) बरहा		
13		13	(1) गुज्जवा, (2) अमिरती, (3) बीरपुर, (4) सलौरा		
14		14	(1) बडखेर, (2) मच्छडा, (3) बांधी, (4) बेरहना (बांधी)		
15		15	(1) कारीगाही, (2) देवरा, (3) बांका		
16		16	(1) झखौरा, (2) प्रतापपुर, (3) बदकन, (4) जमुआनी		
17		17	(1) बरौं, (2) शुकवाह, (3) बिटमा, (4) करौंदीकला, (5) हरदी		
18		18	(1) हलावन, (2) गोडगाँव, (3) झोंटा, (4) बैरहना		
19		19	(1) रिमारी, (2) कलवलिया, (3) पटनाकला, (4) हरिहरपुर, (5) पडुहर, (6) पचलीकला		
20		20	(1) खांच, (2) डोमहाई, (3) खडौरा, (4) तिघरा, (5) बरा		
21		21	(1) पिपरीटोला, (2) पगारखुर्द, (3) पगारकला, (4) हरदुआ, (5) बडेराकला		
22		22	(1) मेहुती, (2) मझगाँव (झरी), (3) (झरी) जैतवारा		
23		23	(1) चंदई, (2) किटहा, (3) अमिलिया		
24		24	(1) खुटहा, (2) मरवा, (3) तेलनी, (4) बम्हौली, (5) गलबल		
25		25	(1) नयागांव, (2) सुजावलखुर्द		

मोहनलाल, कलेक्टर.

## जनपद पंचायत — मैहर

## परिशिष्ट-5 ( ब )

सतना, दिनांक 8 मई 2014

क्र. पंचा-प्रकोष्ठ-परिसीमन-2014-15-806.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 एवं धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, मौहनलाल, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश, द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ (2) में अंकित खण्ड को स्तम्भ (3) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने अंकित स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :—

## सारणी

अनु- क्र.	खण्ड / जिला का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक (1)	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत का नाम) (2)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	मैहर	1	1. झुकेही 2. पलौंहा 3. करौंदिया	अ. जा. अ.ज.जा.	4 5
	जिला सतना, म.प्र.	2	1. सभागंज 2. पथरहटा 3. अमुवा 4. विनैका 5. गुगड़ी	महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा.	2 3
		3	1. पकरिया 2. धनेड़ीखुर्द 3. रोहनियाखुर्द 4. पाला 5. तिघराखुर्द	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	3 5
		4	1. अमदरा 2. कुठिलगवां 3. नौगवां 4. खेरवासानी 5. सुहौला		
		5	1. घुनवारा 2. सेमरा 3. रैगवां		
		6	1. मतवारा 2. महेदर 3. गोरइयाकला 4. भमरहा 5. कुसेड़ी 6. इटहरा		
		7	1. बेरमा 2. भरौली 3. खेरवाकला 4. कन्हवारा		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	8	1. धतूरा 2. खैरा 3. हिनौताकला 4. कुटाई 5. लुढ़ौती			
	9	1. इटमा 2. भैसासुर 3. पोड़ी 4. हरदुआकला			
	10	1. उदयपुर 2. डांड़ी 3. अरकण्डी 4. तिघराकला 5. नकतरा			
	11	1. बरही 2. पिपराकला 3. परसोखा 4. कल्याणपुर 5. पहाड़ी 6. जीतनगर			
	12	1. बेल्दरा 2. हरनामपुर 3. गिरगिटा 4. मनटोलवा 5. हरदासपुर 6. धनबाहीकला			
	13	1. सोनवारी 2. डेल्हा			
	14	1. तिन्दुहटा 2. मड़ई 3. हिनौता गजगौना 4. जूरा 5. उमरीफिफरी			
	15	1. जरियारी 2. करैयादेवरी 3. करौंदीकाप नादन 4. बुढ़ेरुआ			
	16	1. नादन शि.प्र. 2. रिगरा 3. दुबेही 4. कंचनपुर 5. जमताल 6. बरहिया			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	17	1. गोबरी 2. नादन शा. प. 3. करौंदी उपा. 4. चपना 5. कांसा 6. करतहा			
	18	1. बरेठी 2. भटिगवां 3. करुआ 4. मगरौरा 5. देवरा 6. अमिलियाकला			
	19	1. भेंडा 2. तिलौरा 3. बंशीपुर 4. नरौरा 5. बठिया			
	20	1. चौपड़ा 2. भदनपुर द.प. 3. भदनपुर उ.प. 4. पिपराबरबंड 5. पटेहरा			
	21	1. बराखुर्द 2. जोवा 3. झाँझबरी 4. गोरइया 5. रिवारा			
	22	1. लटागांव 2. जुड़वानी 3. मौदहा 4. सांग 5. धरमपुरा			
	23	1. धनवाही 2. मझगवां 3. कोयलारी 4. आमातारा 5. अमिलिया			
	24	1. कुड़वा 2. बदेरा 3. ककरा 4. सलैया 5. देवरी 5. सढ़ेरा			
	25	1. अजवाइन 2. घोरबई 3. भटूरा 4. बिहराकला			

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 21 मई 2014

क्र. पं.प्र. 2-2014-4774.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 125 के प्रावधान के अधीन राजस्व जिला विदिशा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तम्भ (4)में वर्णित ग्राम/ ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणामस्वरूप स्तम्भ क्रमांक (3) “ग्राम पंचायत” की सीमा स्तम्भ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तम्भ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
विदिशा	विदिशा	खरबई	खरबई देवराजपुर कटसारा	खरबई देवराजपुर कटसारा	745 524 372	87 87 87

विदिशा, दिनांक 13 अक्टूबर 2014

क्र. पं.प्र. 2-2014-1583.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 370, भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2014 में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा कलेक्टर जिले की 4 ग्राम पंचायतों के टीलाखेड़ी, तमोरिया, मिर्जापुर एवं बैस के क्षेत्रों को नगरी क्षेत्र में शामिल किये जाने की अधिसूचना जारी की गई। की 30 दिवस के भीतर प्रकाशित अधिसूचना एवं दिनांक 4 जून 2014 को प्रकाशित जाहिर सूचना के क्रम में प्राप्त दावे/ आपत्तियों का निराकरण पश्चात् मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956/ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5क के तहत राज्यपाल द्वारा नगरी क्षेत्रों में सम्मिलित किये जाने संबंधी अधिसूचना जारी गई है। उक्त अधिसूचना के क्रम में मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 126 के तहत मैं एम. बी. ओझा, कलेक्टर, जिला विदिशा निम्न ग्राम पंचायतों एवं उनमें सम्मिलित ग्रामों को विदिशा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से विस्थापित किये जाने की अधिसूचना अनुसूची में प्रकाशित करता हूँ :—

अनुक्रमांक	विस्थापित की जाने वाली ग्राम पंचायत	विस्थापित किये जाने वाले ग्राम	तहसील	विस्थापित किये जाने वाले क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	टीलाखेड़ी	टीलाखेड़ी	विदिशा	टीलाखेड़ी
2	तमोरिया	तमोरिया	विदिशा	तमोरिया
3	मिर्जापुर	मिर्जापुर	विदिशा	मिर्जापुर
4	बैस	बैस	विदिशा	बैस

विदिशा, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्र. 1635.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है.) की धारा 129-ख (1) एवं मध्यप्रदेश पंचायत (सीमाओं का परिवर्तन, मुख्यालय का विस्थापन या बदला जाना) नियम 125(1) के प्रावधानों की अधीन राजस्व जिला विदिशा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है.) के स्तम्भ (3) में दर्शाये गये गांव या गांव का भाग या गांव के समूह के लिये जिसकी जनसंख्या सारणी के स्तम्भ (4) में दर्शायी गयी है। सारणी

स्तम्भ (2) में उल्लेखित नाम से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नगरीय निकाय में सम्मिलित होने के कारण ग्राम टीलाखेड़ी एवं तमोरिया को अपवर्जित करते हुए विनिर्दिष्ट करने का आशय सार्वजनिक जानकारी के लिये प्रकाशित करता हूँ:—

क्रमांक	ग्राम का नाम	ग्राम के अन्तर्गत आने वाले गांव या उसके भाग/ गांवों के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
93	सौराई	सौराई बराखेड़ा	575 331	68 68
			योग . .	906

विदिशा, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्र. 1635.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है.) की धारा 129-ख (1) एवं मध्यप्रदेश पंचायत (सीमाओं का परिवर्तन, मुख्यालय का विस्थापन या बदला जाना) नियम 125(1) के प्रावधानों के कलेक्टर, जिला विदिशा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है.) के स्तम्भ (3) में दर्शाये गये गांव या गांव का भाग या गांव के समूह के लिये जिसकी जनसंख्या सारणी के स्तम्भ (4) में दर्शायी गयी है. सारणी स्तम्भ (2) में उल्लेखित नाम से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नगरीय निकाय में सम्मिलित होने के कारण ग्राम बैस को अपवर्जित करने हेतु व नवीन ग्राम पंचायत सुनपुरा गठित करने सर्वसंबंधितों को जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ:—

क्रमांक	ग्राम का नाम	ग्राम के अन्तर्गत आने वाले गांव या उसके भाग/ गांवों के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सुनपुरा	सुनपुरा विधन उदयगिरी	1379 144 422	58 58 68
			योग . .	1945

विदिशा, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्र. 1635.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है.) की धारा 129-ख (1) एवं मध्यप्रदेश पंचायत (सीमाओं का परिवर्तन, मुख्यालय का विस्थापन या बदला जाना) नियम 125(1) के प्रावधानों के कलेक्टर, जिला विदिशा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है.) के स्तम्भ (3) में दर्शाये गये गांव या गांव का भाग या गांव के समूह के लिये जिसकी जनसंख्या सारणी के स्तम्भ (4) में दर्शायी गयी है. सारणी स्तम्भ (2) में उल्लेखित नाम से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नगरीय निकाय में सम्मिलित होने के कारण ग्राम बैस को अपवर्जित करने हेतु व नवीन ग्राम पंचायत जीवाजीपुर गठित करने सर्वसंबंधितों को जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ:—

क्रमांक	ग्राम का नाम	ग्राम के अन्तर्गत आने वाले गांव या उसके भाग/ गांवों के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
57	जीवाजीपुर	जीवाजीपुर पलोह अमाछार	927 567 365	55 55 57
			योग . .	1859

एम. बी. औझा, कलेक्टर,

## कार्यालय आयुक्त जबलपुर संभाग

केंप सागर दिनांक .27 नवम्बर 2014

क्रमांक 347/शाखा 6 /स्था. निवा. /2014 – मध्यप्रदेश शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3-518 अठारह-3-2004 दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं आरक्षे.माथुर आयुक्त, जबलपुर संभाग, एतद द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम 1956 (क्र० 23 सन् 1956) की धारा 10 (1) के अधीन नगर पालिक निगम छिन्दवाड़ा के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ :–

**नगर पालिक निगम छिन्दवाड़ा की जनसंख्या की जानकारी का पत्रक**

निकाय का नाम	जनगणना 2011 की जनसंख्या	अवधारित वार्डों की संख्या	कुल जनसंख्या के मान से एक वार्ड की औसत जनसंख्या	जनसंख्या			रिमार्क
				कुल जनसंख्या	अनु०जाति संख्या	अनु० जनजाति संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8
नगर पालिक निगम छिन्दवाड़ा	215843	48	4497	215843	28917	28627	जिला योजना एवं आर्थिक कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार

### अनुसूची

वार्ड क्र०	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति संख्या	अनुसूचित जनजाति संख्या
1	2	3	4	5
1	डॉ० राधाकृष्णन वार्ड	4487	651	1395
2	गायत्री वार्ड	4386	765	671
3	वीर सावरकर वार्ड	4657	549	1882
4	पृथ्वीराज चौहान वार्ड	4385	318	571
5	बादल भोई वार्ड	4522	564	676
6	लोकमान्य बालगंगाधर तिलक वार्ड	4081	559	757
7	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड	4684	796	323
8	शहीद भगतसिंह वार्ड	4066	236	188
9	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड	3908	736	1973
10	सिद्धी विनायक वार्ड	3858	696	1582
11	स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड	3948	1022	375
12	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड	3827	235	825
13	जगन्नाथ वार्ड	4240	814	420

14	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड	4773	772	483
15	नेताजी सुभाषचंद्र वार्ड	4545	177	460
16	महात्मा गांधी वार्ड	4774	1045	1812
17	संतोषी माता मंदिर वार्ड	4706	270	176
18	राजेन्द्र नगर वार्ड	4401	1288	511
19	पातालेश्वर वार्ड	4421	638	535
20	पं० दीनदयाल उपाध्याय वार्ड	4609	738	576
21	डॉ० बी०आ०आ०अ०बैडकर वार्ड	4163	654	298
22	रानी दुर्गावती वार्ड	5129	1201	1429
23	संत रविदास वार्ड	4107	1823	107
24	महाराणा प्रताप वार्ड	4852	246	698
25	छत्रपति शिवाजी वार्ड	4510	324	237
26	संत कबीरदास वार्ड	4087	208	188
27	श्रीराम मंदिर बड़ी माता वार्ड	4633	31	46
28	डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड	4370	51	57
29	पं० मदनमोहन मालवीय वार्ड	5135	428	78
30	रफी अहमद किदवई वार्ड	3962	45	114
31	छोटी माता वार्ड	4705	86	39
32	संत तुकड़ोजी महाराज वार्ड	4240	205	116
33	ज्योतिबा फुले वार्ड	4505	267	707
34	दुर्गा माता मंदिर वार्ड	4104	646	447
35	कुलबहरा वार्ड	4832	347	884
36	भरतादेव वार्ड	4341	661	443
37	चंदन नगर वार्ड	4177	657	649
38	समर्थ रामदास वार्ड	4274	694	377
39	स्वामी विवेकानन्द वार्ड	5131	423	574
40	तात्या टोपे वार्ड	4838	755	279
41	शहीद मेजर अमित ठेंगे वार्ड	4736	508	275
42	महावीर वार्ड	4622	583	204
43	षष्ठी माता मंदिर वार्ड	4898	541	233
44	पं० जवाहरलाल नेहरू वार्ड	4870	591	319
45	महर्षि वाल्मीकी वार्ड	5076	1136	539
46	श्री झूलेलाल वार्ड	4753	870	688
47	पं० माखनलाल चतुर्वेदी वार्ड	5075	1256	819
48	पंचवटी वार्ड	4440	811	1592
कुल योग		215843	28917	28627

### नगर पालिक निगम, छिन्दवाड़ा के अवधारित वार्डों की चारों दिशाओं की सीमा

#### वार्ड क्र. 01 डॉ.राधाकृष्णन वार्ड

उत्तर :- ग्राम काराबोह की उत्तरी पश्चिमी सीमा से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर ग्राम खजरी की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित नाला तक।

पूर्व :- ग्राम खजरी की उत्तरी पश्चिमी सीमा स्थित नाला से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर गाडरीढाना एवं मटरु टोला को सम्मिलित करते हुए ग्राम खजरी एवं लोनिया की उत्तरी पश्चिमी दक्षिणी सीमा तक।

दक्षिण :- ग्राम खजरी एवं लोनिया की उत्तरी पश्चिम दक्षिणी अंतिम सीमा से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर रेल्वे लाईन होते हुए श्री महेश पालीवाल के मकान को सम्मिलित करते हुए पुनः दक्षिण की ओर मुख्य मार्ग पुनः पश्चिम की ओर मुख्य मार्ग पुनः उत्तर की ओर नाला होते हुए रेल्वे लाईन होते हुए पोआमा काराबोह एवं कुण्डाली की अन्तिम दक्षिणी पश्चिमी सीमा तक।

पश्चिम :- ग्राम पोआमा काराबोह एवं कुण्डाली की अंतिम दक्षिणी-पश्चिमी सीमा से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर ग्राम काराबोह की अंतिम पश्चिमी उत्तरी सीमा तक।

#### वार्ड क्र. 02 गायत्री वार्ड

उत्तर :- ग्राम खजरी स्थित फेन्डस कालोनी की संपूर्ण आबादी क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए पूर्व की ओर फेन्डस कालोनी और शिक्षक कालोनी का सम्पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित करते हुए शिवपुरी मार्ग तक।

पूर्व :- शिवपुरी मार्ग से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर छिन्दवाड़ा रोड खजरी चौक होते हुए क्रॉसिंग तक।

दक्षिण :- टी वी सेनेटोरियम रेल्वे क्रॉसिंग से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर रेल्वे लाईन होते हुए एस.ए.एफ रेल्वे क्रॉसिंग तक एवं वहां से उत्तर की ओर सर्किट हाउस पुनः पश्चिम की ओर परासिया रोड पर इरीगेशन विभाग के निरीक्षण बंगले तक।

पश्चिम :- परासिया रोड स्थित इरीगेशन निरीक्षण बंगले से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर रेल्वे लाईन होते हुए एस.ए.एफ रेल्वे क्रॉसिंग तक पुनः पश्चिम की ओर प्रियदर्शिन कालोनी की उत्तरी सीमा तक पुनः उत्तर की ओर खजरी नाला पुनः पश्चिम की ओर खजरी की अंतिम सीमा पुनः उत्तरी की फेन्डस कालोनी खजरी की अंतिम सीमा तक।

#### वार्ड क्र. 03 वीर सावरकर वार्ड

उत्तर :- ग्राम खजरी की पश्चिमी उत्तरी सीमा स्थित नाला से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर ग्राम खजरी की अंतिम सीमा होते हुए ग्राम खजरी की अन्तिम पूर्वी उत्तरी सीमा तक।

पूर्व :- ग्राम खजरी की अंतिम उत्तरी पूर्वी सीमा से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर ग्राम खजरी की अंतिम दक्षिणी पूर्वी सीमा स्थित शिवपुरी रोड तक।

दक्षिण :- ग्राम खजरी की अंतिम दक्षिणी पूर्वी सीमा स्थित शिवपुरी रोड से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर से फेन्डस कालोनी एवं शिक्षक कालोनी को छोड़ते हुए ग्राम खजरी की अंतिम दक्षिणी पश्चिमी सीमा तक।

पश्चिम :- ग्राम खजरी की अंतिम दक्षिणी पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर उत्तर की ग्राम खजरी की अंतिम पश्चिमी उत्तरी सीमा स्थित नाला तक।

#### वार्ड क्र. 04 पृथ्वीराज चौहान वार्ड

उत्तर :- ग्राम कुकड़ा की पश्चिमी उत्तरी सीमा से प्रारंभ होकर करोड़ी पटेल के मकान से ग्राम मोहरली की संपूर्ण आबादी को छोड़कर पूर्व की ओर राधिका चरण पाण्डे द्वारा स्थापित कॉलोनी के मार्ग तक।

पूर्व :- राधिकाचरण पाण्डे द्वारा स्थापित की गई कालोनी के मार्ग से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर स्थित दर्शन डेहरिया के मकान तक पुनः गोविंद के मकान से ग्राम खापाभाट की उत्तरी दक्षिणी सीमा तक।

दक्षिण :- खापाभाट की दक्षिण पश्चिम सीमा से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर ग्राम कुकड़ा की अंतिम सीमा होते हुए शिवपूरी रोड होते हुए ग्राम कुकड़ा की दक्षिणी पश्चिमी सीमा तक।

पश्चिम :- शिवपुरी रोड पर ग्राम कुकड़ा की दक्षिणी पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर ओर कुकड़ा की अंतिम सीमा होते हुए पश्चिमी उत्तरी सीमा तक।

#### वार्ड क्र. 05 बादल भोई वार्ड

उत्तर :- खजरी चौक से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर चक्कर रोड होते हुए कुवंर लाल ताण्डेकर के मकान तक पुनः दक्षिण की ओर खान कॉलोनी कुकड़ा रेल्वे की सीमा होते हुए रेल्वे लाइन से पुनः पूर्व की ओर बैल बाजार स्थित रेल्वे क्रॉसिंग तक।

पूर्व :- बैल बाजार रेल्वे क्रॉसिंग से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर कब्रस्तान मार्ग होते हुए ऊँटखाना पानी टंकी चौक तक।

दक्षिण :- ऊँटखाना पानी टंकी चौक से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर लो.नि.वि. सब डिवीजन के बाजू की सड़क से उत्तर की ओर ट्रांसफार्मर के पास रफीक टेलर के मकान से पुनः पश्चिम की ओर नाला होते हुए खजरी रोड तक।

पश्चिम :- खजरी रोड स्थित नाले से प्रारंभ होकर खजरी रोड होते हुए रेल्वे क्रॉसिंग पार कर खजरी चौक तक।

### वार्ड क्र. 06 लोकमान्य बालगंगाधर तिलक वार्ड

उत्तर :— खजरी रोड स्थित नाला से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर नाला नाला होते हुए शिवनगर पुलिया से दक्षिण की ओर ट्रांसफार्मर के सामने नसीम खां के मकान से होते हुये पूर्व की ओर पी.डब्ल्यू.डी. सब डिवी. आफिस के सामने तिराहे से पुनः पूर्व की ओर पानी टंकी चौक ऊँटखाना तक वहां से सागर पेशा चौक से पुनः पूर्व की ओर रफीक भाई ठेकेदार के मकान को शामिल करते हुए बड़ा तालाब की उत्तरी दीवार होते हुए कड़ेरे के मकान को शामिल करते हुए लालबाग रोड स्थित हनुमान मंदिर तक।

पूर्व :— लालबाग हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर लालबाग चौक होते हुए यातायात थाना पुराना बैल बाजार चौक तक।

दक्षिण :— यातायात थाना पुराना बैल बाजार चौक से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर मुख्य मार्ग होते हुए पुलिस लाइन गेट तक।

पश्चिम :— पुलिस लाईन गेट सेप्रारंभ होकर उत्तर की ओर रोड होते हुए खजरी रोड अम्मा अस्पताल के बाजू पुलिया तक।

### वार्ड क्र. 07 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

उत्तर :— चक्कर रोड स्थित गीता आईस फैक्ट्री से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर चक्कर रोड होते हुए धरम टेकड़ी पी.जी.कालेज पहुंच मार्ग वार्ड की उत्तरी पश्चिमी सीमा तक।

पूर्व :— पी.जी.कालेज के पीछे टेकड़ी के किनारे से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर कालेज जाने वाले दूसरे डामर रोड पार करते हुए गया प्र.दुबे के मकान तक।

दक्षिण :— गया प्रसाद दुबे के मकान से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर श्रीवास्तव कालोनी के मध्य मार्ग से होते हुए कॉलेज रोड पर यादव किराना के पास रेल्वे क्रॉसिंग तक एवं वहां से रेल्वे लाइन होते हुए कुकड़ा रेल्वे क्रॉसिंग तक।

पश्चिम :— कुकड़ा रेल्वे क्रॉसिंग से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर रेल्वे बाउंड्री होते हुए बेदी कालोनी रोड होते हुये गीता आईस फैक्ट्री तक।

### वार्ड क्र. 08 शहीद भगत सिंह वार्ड

उत्तर :— नया बैल बाजार रेल्वे क्रॉसिंग से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर कॉलेज रोड रेल्वे क्रॉसिंग तक।

पूर्व :— कॉलेज रोड रेल्वे क्रॉसिंग से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर कॉलेज रोड लालबाग हनुमान मंदिर के पास नरेश चोहान के मकान तक।

**दक्षिण :-** नरेश चौहान के मकान से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर रमेश यादव के मकान से होते हुए ऊंटखाना सागर पेशा चौक तक।

**पश्चिम :-** ऊंटखाना सागर पेशा चौक से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर नया बेल बाजार रेल्वे क्रॉसिंग तक।

### वार्ड क्र. 09 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड

**उत्तर :-** ग्राम झण्डा की पश्चिमी उत्तरी सीमा से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर ग्राम झण्डा ग्राम खैरी भोपाल ग्राम लहगडुआ की सीमा होते हुय ग्राम लहगडुआ की अंतिम उत्तरी पूर्वी सीमा तक।

**पूर्व :-** ग्राम लहगडुआ की अंतिम सीमा से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर ग्राम कुसमेली की अंतिम पश्चिमी दक्षिणी सीमा तक।

**दक्षिण :-** ग्राम कुसमेली अन्तिम दक्षिणी पश्चिमी सीमा से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर खापाभाट की अन्तिम सीमा होते हुए ग्राम कुकड़ाजगत के मटर्स टोला को सामिल करते हुए ग्राम खजरी पूर्वी दक्षिणी सीमा तक।

**पश्चिम :-** ग्राम खजरी की अन्तिम पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी सीमा से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर ग्राम खजरी की अन्तिम सीमा होते हुए झण्डा की पश्चिम उत्तरी अन्तिम सीमा तक।

### वार्ड क्र. 10 सिद्धी विनायक वार्ड

**उत्तर :-** ग्राम कुकड़ा स्थित राधिकाचरण पाण्डे द्वारा विकसित कालोनी के मार्ग से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर ग्राम खापाभाट की उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम लहगडुआ और कुसमेली के पास अंतिम उत्तरी पूर्वी सीमा तक।

**पूर्व :-** ग्राम खापाभाट की अंतिम उत्तरी पूर्वी सीमा से प्रारंभ होकर पूर्व दिशा से होकर पुनः दक्षिण की ओर ग्राम कुसमेली और खापाभाट की अंतिम सीमा होते हुए दक्षिण में ग्राम खापाभाट की अंतिम पूर्वी दक्षिणी सीमा तक।

**दक्षिण :-** ग्राम खापाभाट की अंतिम पूर्वी दक्षिणी सीमा से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर ग्राम खापाभाट की दक्षिणी अंतिम सीमा होते हुए ग्राम कुकड़ा और छिन्दवाड़ा नगर की सीमा के छोर तक।

**पश्चिम :-** ग्राम कुकड़ा ओर छिन्दवाड़ा की सीमा के छोर से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर गोविंद के मकान से होते हुए दर्शन डेहरिया के मकान से राधिकाचरण पांडे द्वारा विकसित कालोनी के मार्ग तक।

#### वार्ड क्र. 11 स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड

**उत्तर :-** इंदिरा नगर स्थित वसीम खान के मकान से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर जीजी बाई स्कूल के पास स्थित रोड तक।

**पूर्व :-** जीजी बाई स्कूल के पास स्थित रोड से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर मोरेश्वर हजारे के मकान के पास स्थित रोड से पुनः पश्चिम की ओर शंकर मंदिर के सामने रोड तक पुनः दक्षिण की ओर सुरेश मोखलगाय के मकान के सामने रोड से होते हुए सेंगर बाडे को शामिल करते हुए रामबाग स्थित गुरुद्वारा तिराहे तक।

**दक्षिण :-** रामबाग स्थित गुरुद्वारा तिराहे से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर रामबाग मार्ग होते हुए रामकिशन पहाड़े के मकान तक।

**पश्चिम :-** रामबाग रामकिशन पहाड़े के मकान से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर शशिकांत परतेती के मकान तक पुनः पूर्व की ओर स्कन्द माता मंदिर के पास स्थित रोड पुनः उत्तर की ओर इंदिरानगर मार्ग होते हुए वर्णवाल का मकान होकर इंदिरा नगर की अंतिम छोर पर स्थित वसीम खान के मकान तक।

#### वार्ड क्र. 12 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड

**उत्तर :-** वार्ड क्र. 12 एवं खापाभाट ग्राम की अंतिम दक्षिण सीमा से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर धरम टेकड़ी के नीचे खापा भाट की दक्षिणी सीमा होते हुए कन्या परिसर तक।

**पूर्व :-** कन्या परिसर से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर गणेश कालोनी को प्रथक करते हुए जे.पी. सारा भाई के मकान से पुनः पूर्व की ओर गणेश कालोनी मार्ग होते हुए नरसिंहपुर रोड पुलिस चौकी के सामने से पुनः दक्षिण की ओर नरसिंहपुर मुख्य मार्ग होते हुए पुराना नरसिंहपुर नाका चौक तक।

**दक्षिण :-** पुराना नरसिंहपुर नाका चौक से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर कालेज रोड से बैंक कालोनी मार्ग होते हुए अरुण चौहान के मकान तक।

**पश्चिम :-** अरुण चौहान के मकान से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर मंदिर के सामने मार्ग तक पुनः पूर्व की ओर मोरेश्वर हजारे के मकान के पास रोड तक पुनः उत्तर की ओर जीजा बाई स्कूल मार्ग तक पुनः पश्चिम की ओर वार्ड क्र. 12 की सीमा तक पुनः उत्तर की ओर खापाभाट ग्राम की अंतिम दक्षिणी सीमा तक।

**वार्ड क्र. 13 जगन्नाथ वार्ड**

- उत्तर :— कालेज रोड पर कृष्ण मंदिर के पास स्थित चौराहे से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर नरसिंहपुर रोड स्थित प्रकाश गुप्ता की होटल तक
- पूर्व :— नरसिंहपुर रोड स्थित प्रकाश गुप्ता के होटल से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर नरसिंहपुर रोड स्थित मनीष राजपूत के मकान तक
- दक्षिण :— नरसिंहपुर रोड स्थित मनीष राजपूत के मकान से प्रारम्भ होकर डी नेमा गली से पश्चिम की ओर अनिल गुप्ता के मकान तक सत्संग भवन के सामने तक।
- पश्चिम :— सत्संग भवन के सामने स्थित अनिल गुप्ता के मकान के कोने से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर क्षत्रिय भवन के सामने से विल्लू आरामशीन तक पुनः पूर्व की ओर रामबाग मार्ग होते हुए गुरुद्वारा तिराहे से पुनः उत्तर की ओर कालेज रोड कृष्ण मंदिर तक।

**वार्ड क्र. 14 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड**

- उत्तर :— कालेज रोड रेल्वे कासिंग के पास स्थित यादव किराना से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर श्रीवास्तव कालोनी जाने वाले मार्ग से होते हुए राजेश चौरासिया के मकान तक
- पूर्व :— राजेश चौरासिया के मकान से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर लालबाग रोड स्थित कुदन मण्डराह के मकान तक वहाँ से लालबाग मार्ग होते हुए पुनः पश्चिम की ओर लालबाग रेल्वे लाइन होते हुए ओवर ब्रिज रेल्वे कासिंग तक
- दक्षिण :— ओवर ब्रिज रेल्वे क्रासिंग से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर सिवनी मार्ग होते हुए राजपूत पेट्रोल पम्प चौक तक
- पश्चिम :— सिवनी रोड स्थित राजपूत पेट्रोल पम्प चौक से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर कालेज रोड होते हुए लालबाग चौक से कालेज रोड रेल्वे कासिंग तक।

**वार्ड क्र. 15 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस वार्ड**

- उत्तर :— खापा भाट स्थित धरम टेकडी के नीचे पश्चिमी उत्तरी सीमा से प्रारम्भ होकर सम्पूर्ण गणेश कालोनी को सम्मिलित करते हुए पूर्व की ओर खापाभाट कुसमैली की सीमा के पूर्वी उत्तरी संगम सीमा तक
- पूर्व :— खापाभाट कुसमैली की सीमा के पूर्वी उत्तर की संगम सीमा से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर कुसमैली की पश्चिमी सीमा होते हुए प्राण मोती कुसमैली की सीमा संगम स्थित दक्षिणी पश्चिमी मिलन स्थल तक

**दक्षिण:-** नगर छिन्दवाडा की अंतिम सीमा सिवनी प्राण मोती की पुलिया से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर सुरेन्द्र जैन के घर के पास स्थित नाका पुलिया से पुनः दक्षिण की ओर नाका होते हुए गांधी गंज के पीछे विशाल कम्पाउण्ड के पास नाली पुलिया से पुनः पश्चिम की ओर गांधी गंज के पीछे के मार्ग से होते हुए नरसिंहपुर रोड स्थित चिटनवीस गंज पोस्ट आफिस के पास नीलकंठ साहू के मकान तक

**पश्चिम:-** नरसिंहपुर रोड स्थित चिटनवीस गंज फारेस्ट आफिस के पास नीलकंठ साहू के मकान से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर नरसिंहपुर मार्ग होते हुए धरमटेकडी पुलिस चौकी से पुनः पश्चिम की ओर गणेश कालोनी रोड होते हुए गणेश कालोनी को समिलित कर पुनः उत्तर की ओर खापाभाट स्थित धरमटेकडी के नीचे पश्चिमी उत्तरी सीमा तक।

### वार्ड क्र. 16 महात्मा गांधी वार्ड

**उत्तर :-** ग्राम अजनिया की अंतिम पश्चिमी उत्तरी सीमा से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर ग्राम अजनिया की अंतिम उत्तरी पूर्वी सीमा तक।

**पूर्व :-** ग्राम अजनिया की अंतिम उत्तरी पूर्वी सीमा से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर ग्राम अजनिया एवं कबाडिया की अंतिम सीमा होते हुए ग्राम कबाडिया की दक्षिणी पूर्वी सीमा सिवनी रोड तक।

**दक्षिण :-** ग्राम कबाडिया की अंतिम दक्षिण पूर्वी सीमा से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर सिवनी रोड होते हुए शक्कर फैक्ट्री पुनः उत्तर की ओर पहाड़ी पर स्थित संपूर्ण आबादी को पृथक करते हुए पुनः दक्षिण की ओर फटाका गोदाम सिवनी रोड तक पुनः उत्तर की ओर नाला एवं नाला होते हुए समस्त आबादी क्षेत्र को पृथक रखते हुए चौहरी नाला सिवनी रोड तक।

**पश्चिम :-** सिवनी रोड स्थित चौहारी नाला से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर ग्राम सिवनी प्राणमोती ग्राम खापाभाट ग्राम कुसमैली की अंतिम सीमा होते हुए ग्राम अजनिया की अंतिम पश्चिमी उत्तरी सीमा तक।

### वार्ड क्र. 17 संतोषी माता मंदिर वार्ड

**उत्तर :-** लालबाग क्रासिंग के पास स्थित बिल्लू आरामशीन के सामने से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर सीमेन्ट रोड होते हुए डी.नेमा की गली से नरसिंहपुर मार्ग तक पुनः दक्षिण की ओर चिटनवीस गंज पोस्ट आफिस की गली से पुनः पूर्व की ओर गांधीगंज के पीछे से नाला—नाला होते हुए समस्त आबादी क्षेत्र को शामिल करते हुए सिवनी रोड स्थित पाटनी धर्मशाला तक।

- पूर्व :—** सिवनी रोड स्थित पाटनी धरम कांटा से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर सिवनी मार्ग तक।
- दक्षिण :—** सिवनी मार्ग से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर सिवनी मार्ग होते हुए चारफाटक रेल्वे क्रॉसिंग तक।
- पश्चिम :—** सिवनी रोड चार फाटक रेल्वे क्रॉसिंग से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर रेल्वे लाइन होते हुए लालबाग रेल्वे क्रॉसिंग से पुनः पूर्व की ओर सोमेश किराना स्टोर तक।

### वार्ड नं. 18 राजेन्द्र नगर वार्ड

- उत्तर :—** हिन्दुस्तान टेन्ट हाउस के सामने स्थित रेल्वे लाइन से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर रेल्वे लाइन होते हुए पिपरमेंट फैक्ट्री के समीप रेल्वे फाटक से पुनः उत्तर की ओर वेयर हाउस के पीछे पुनः पूर्व की ओर वेयर हाउस के पीछे की झोपड़ पट्टी को सम्मिलित करते हुए पुनः NIIT टेकड़ी के समीप स्थित न.पा. की बोरिंग के समीप स्थित नगरपालिका की अंतिम उत्तरी पूर्वी सिमांत तक।
- पूर्व :—** NIIT टेकड़ी के समीप स्थित न.पा. बोरिंग के समीप स्थित नगर की अंतिम उत्तरी पूर्वी सीमा से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर नगर की अंतिम सीमा होते हुए समस्त आबादी क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए चॉद रोड स्थित पुलिया तक।
- दक्षिण :—** चॉद स्थित पुलिया से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर शक्कर भील के पीछे की सम्पूर्ण आबादी क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए पापड़ फैक्ट्री के सामने कृषक कोल्ड स्टोर तक।
- पश्चिम :—** कृषक कोल्ड स्टोर के सामने जूस फैक्ट्री से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर सुकतूँडाना के भीतरी मार्ग होते हुए महेश यादव के मकान से पुनः पूर्व की ओर अम्बेडकर पार्क के सामने होते हुए मदन यादव के मकान तक वहा से पुनः उत्तर की ओर बसोड़ी मोहल्ला क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए नए माल धक्का मार्ग से छगन के सामने से हिन्दुस्तान टेन्ट हाउस तक।

### वार्ड क्र. 19 पातालेश्वर वार्ड

- उत्तर :—** सिवनी रोड पर रेल्वे चार फाटक के पास रेल्वे को जाने वाले मार्ग से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर छिंदवाड़ा सिवनी रोड होते हुए पुराने लोकोशेड वाली रोड तक।
- पूर्व :—** पुराने माल धक्का वाली रोड से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर रेल्वे लाइन होते हुए लक्ष्मी बाई आठनेकर के मकान तक।

**दक्षिण :-** लक्ष्मी बाई आठनेकर के मकान से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर पातालेश्वर मार्ग शमशान घाट पुलिया नाले तक तथा दिलीप यादव के मकान से पुनः पूर्व की ओर दुर्गा मंदिर के पीछे विट्ठलराव चरपे के मकान से पुनः पश्चिम की ओर सम्पूर्ण आबादी क्षेत्र को शामिल करते हुए शमशान घाट पुलिया तक।

**पश्चिम :-** शमशान घाट पुलिया नाला से प्रारम्भ होकर उत्तार की ओर मोक्ष धाम मार्ग से गुप्ता स्टील फर्नीचर से होते हुए पाण्डे के मकान के सामने से पुनः पूर्व की ओर त्रिलाकी नगर भीतरी मार्ग से होते हुए सातपुते सर के मकान से पुनः उत्तर की ओर रेल्वे स्टेशन मार्ग से चार फाटक रेल्वे क्रांसिंग तक।

### वार्ड क्र. 20 पं.दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

**उत्तर :-** शंकर गढ़ेवाल के मकान से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर माल धक्का तक।

**पूर्व :-** माल धक्का से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर रेल्वे लाइन होते हुए सोनपुर रोड पर कायरस्थ समाज की भूमि के मिलन स्थल पर।

**दक्षिण :-** सोनपुर रोड पर कायरस्थ भूमि के मिलन स्थल से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर गोदाम होते हुए दुर्गा मंदिर के पास विट्ठलराव चरपे के मकान तक।

**पश्चिम :-** दुर्गा मंदिर के पास विट्ठलराव चरपे के मकान से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर शंकर गढ़ेवाल के मकान तक।

### वार्ड क्र. 21 डॉ.बी.आर.अम्बेडकर वार्ड

**उत्तर :-** हनुमान मंदिर के सामने किराना दुकान से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर पापड़ फैकट्री को शामिल करते हुए शक्कर मिल के पीछे की टेकड़ी और समस्त आबादी क्षेत्र शामिल करते हुए नगर की अंतिम सीमा तक।

**पूर्व :-** नगर की अंतिम उत्तरी पूर्वी सीमा से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर बोहता मार्ग पर नगर की अंतिम दक्षिणी पूर्वी सीमा तक।

**दक्षिण :-** बोहता मार्ग स्थित नगर की अंतिम दक्षिणी पूर्वी सीमा से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर समस्त आबादी क्षेत्र को शामिल करते हुए सोनपुर रोड पर नया माल धक्का क्रासिंग तक।

**पश्चिम :-** सोनपुर रोड नया माल धक्का क्रासिंग से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर नया माल धक्का रोड होते हुए पुनः पूर्व की ओर मदन यादव के मकान से पुनः उत्तर की ओर अम्बेडकर पार्क के समीप से होते हुए हनुमान मंदिर के सामने किराना दुकान तक।

### वार्ड क्र. 22 रानी दुर्गावती वार्ड

- उत्तर :— सिवनी रोड स्थित आदिवासी आरामशीन के सामने से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर सिवनी रोड होते हुए शक्कर फैक्ट्री तक पुनः उत्तर की ओर कबाडिया की पहाड़ी के संपूर्ण आबादी क्षेत्र को शामिल करते हुए सिवनी रोड तक एवं पूर्व की ओर सिवनी रोड होते हुए ग्राम सोनाखार की उत्तरी पूर्वी अंतिम सीमा तक।
- पूर्व :— ग्राम सोनाखार की अंतिम उत्तरी पूर्वी सीमा से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर ग्राम सोनाखार की दक्षिणी पूर्वी अंतिम सीमा तक।
- दक्षिण :— ग्राम सोनाखार की अंतिम दक्षिणी पूर्वी सीमा से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर ग्राम सोनाखार और ग्राम इमलियाबोहता की अंतिम सीमा होते हुए ग्राम इमलियाबोहता की अंतिम दक्षिणी पश्चिमी सीमा तक।
- पश्चिम :— ग्राम इमलिया बोहता की अंतिम दक्षिणी पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर इमलियाबोहता की अंतिम सीमा होते हुए रेल्वे लाईन तक पुनः पश्चिमक की ओर रेल्वे लाईन होते हुए वेयर हाउस के पीछे की झोपड़ पट्टी को पृथक करते हुए पुनः रेल्वे लाईन होते हुए उत्तर की ओर सिवनी रोड स्थित आदिवासी आरामशीन तक।

### वार्ड क्र. 23 संत रविदास वार्ड

- उत्तर :— हाथी थान सत्ती चौक के पास हजारी लाल चौरसिया के मकान से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर मरघट रोड होते हुए मरघट के पास पुलिया तक।
- पूर्व :— मरघट के पास नाले की पुलिया से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर नाले के पास नया बैल बाजार होते हुए कम्पोस्ट भूमि से छिन्दवाड़ा सोनपुर रोड से विवेकानन्द स्कूल को शामिल करते हुए काली पाठा के पास आरामशीन तक।
- दक्षिण :— कालीपाठा के पास स्थित आरामशीन से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर भीतरी मार्ग से होते हुए ईट भट्टों के बाजू से अयोध्या विश्वकर्मा के मकान एवं आगे जैन मंगल भवन को शामिल करते हुए बिहारी साहू के पीछे से होते हुए ढीमरी मोहल्ला रोड पर बिहारी साहू के मकान के सामने तक।
- पश्चिम :— बिहारी साहू के मकान से प्रारंभ होकर मालवी पार्क एवं माझी समाज मंदिर को पृथक करते हुए उत्तर की ओर सेन समाज मंदिर के बाजू से होते हुए हाथी थान सती चौक के समीप हजारी लाल चौरसिया के मकान तक।

**वार्ड क्र. 24 महाराणा प्रताप वार्ड**

- उत्तर :- ग्राम बोरिया की अंतिम पश्चिमी उत्तरी सीमा से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर ग्राम बोरिया की अंतिम पूर्वी उत्तरी सीमा तक।
- पूर्व :- ग्राम बोरिया की अंतिम पूर्वी उत्तरी सीमा से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर ग्राम बोरिया ग्राम सारसवाड़ा ग्राम सोनपुर की अंतिम सीमा होते हुए ग्राम सोनपुर की अंतिम दक्षिण पूर्वी सीमा तक।
- दक्षिण :- ग्राम सोनपुर की अंतिम दक्षिण पूर्वी सीमा से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर ग्राम सोनपुर की अंतिम सीमा होते हुए ग्राम सोनपुर की अंतिम दक्षिण पश्चिमी सीमा तक।
- पश्चिम :- ग्राम सोनपुर की अंतिम दक्षिण पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर ग्राम सोनपुर ग्राम सारसवाड़ा ग्राम बोरिया की अंतिम सीमा होते हुए ग्राम बोरिया के अंतिम पश्चिमी उत्तरी सीमा तक।

**वार्ड क्र. 25 छत्रपति शिवाजी वार्ड**

- उत्तर :- बरारीपुरा कुककन चौक से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर राजपाल चौक होते हुए ढीमरी मोहल्ला मालवीय पार्क के पीछे स्थित हनुमान मंदिर तक।
- पूर्व :- ढीमरी मोहल्ला मालवीय पार्क के पीछे स्थित हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर बिहारी साहू के मकान के बाजू एवं पीछे से होते हुए जैन भवन एवं आयोध्या विश्वकर्मा के मकान को पृथक रखते हुए भीतरी मार्ग से ईट भट्टो के सामने से काली पाठा से सोनपुर रोड से सावले वाडी मार्ग होते हुए सावले वाडी का समस्त आबादी क्षेत्र शामिल करते हुए नगर की पूर्वी दक्षिणी सीमा तक।
- दक्षिण :- वार्ड क्र. 25 की पूर्वी दक्षिणी सीमा से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर ग्राम मटकुली की उत्तरी सीमा होते हुए वार्ड क्र. 25 अंतिम दक्षिण पश्चिम सीमा तक।
- पश्चिम :- वार्ड क्र. 25 की अंतिम दक्षिण पश्चिम सीमा (ग्राम मटकुली की उत्तर सीमा) से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर सरकारी कच्चे रास्ते से होते हुए जयदेव दास के मकान को पृथक करते हुए भुसान वाडी से मातेश्वरी कालोनी के मार्ग से होते हुए बरारीपुरा मार्ग स्थित लालसिंह पटेल के घर के सामने कृष्णा किराना तक।

### वार्ड क्र. 26 संत कबीरदास वार्ड

**उत्तर :-** करबला चौक बाजू स्थित मार्ग में राजेश कुशवाहा के मकान से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर सीमेंट रोड से छोटा तालाब के शांतिनाथ लॉन के कोने स्थित तालाब तक पुनः दक्षिण की ओर दुर्गा चौक तक पुनः उत्तर पूर्व की ओर तिलक मार्केट के समीप सिवनी रोड पुनः पूर्व की ओर सिवनी रोड होते हुए चार फाटक स्थित रेल्वे स्टेशन रोड तक।

**पूर्व :-** चारफाटक स्थित रेल्वे स्टेशन मार्ग से प्रांगी हुए मार्ग होते हुए त्रिलोकी नगर स्थित सातपुते के मकान के सामने मार्ग तक पुनः दक्षिण की ओर मोक्षधाम मार्ग पर काढ़ी की भूमि तक।

**दक्षिण :-** मोक्षधाम मार्गपर स्थित काढ़ी की भूमि से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर खिरकापुरा चौक होते हुए गौतम परटवारी के मकान से सुरेन्द्र विश्वकर्मा के मकान तक।

**पश्चिम :-** शक्ति चौक स्थित सुरेन्द्र विश्वकर्मा के मकान के सामने से उत्तर की प्रारंभ होकर नवाब साहक के बाड़े को शामिल करते हुए दुर्गा चौक पुनः पूर्व की ओर राकेश विडियो रॉयल चौक से पुनः उत्तर की ओर करबला चौक रोड पर राजेश कुशवाह के मकान तक।

### वार्ड क्र. 27 श्रीराम मंदिर, बड़ीमाता वार्ड

**उत्तर :-** पहाड़े मेडिकल के सामने स्थित खादी ग्राम उद्योग की दुकान से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर छोटी बाजार मेन रोड पर स्थित विमल पाटनी के मकान के पूर्वी छोर तक।

**पूर्व :-** छोटी बाजार मेन रोड पर स्थित विमल पाटनी के मकान से पूर्वी छोर से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर मेन रोड होते हुए श्रेयांस जैन के मकान से पुनः पूर्व की ओर अयोध्या सोनी के मकान से होकर चौरसिया गली होते हुए रायल चौक गढ़वाल कोंचिंग से होते हुए पुनः दक्षिण की ओर गणेश चौक से दुर्गा चौक तक।

**दक्षिण :-** दुर्गा चौक से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर पावर हाउस के सामने प्रकाश साहू के मकान होते हुए दत्तात्रय मंदिर से पुनः दक्षिण की ओर विश्वकर्मा के घर से पुनः पश्चिम की ओर सेन समाज के मंदिर तक।

**पश्चिम :-** सेन समाज के मंदिर से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर कांति श्रीवास के मकान से संतोष गोखले के मकान से पुनः पूर्व की ओर प्रकाश बागरे के मकान तक पुनः पश्चिम की ओर छापाखाना चौक से पुनः उत्तर की ओर पहाड़े मेडिकल के सामने स्थित खादी ग्रामाद्योग की दुकान तक।

**वार्ड क्र. 28 डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड**

- उत्तर :— पुराने बैल बाजार चौक पर स्थित ताहिर के पान ठेले से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर लालबाग चौक पर शिवचरण यादव की होटल तक।
- पूर्व :— लालबाग चौक पर शिवचरण यादव की होटल से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर राजपूत पेट्रोल पंप के बाजू स्थित सिवनी रोड, पुनः सिवनी रोड होते हुये तिलक मार्केट काम्पलेक्स के पूर्वी कोने तक।
- दक्षिण :— तिलक मार्केट काम्पलेक्स के पूर्वी कोने से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर छोटे तालाब रोड होते हुये दुर्गा चौक पुनः उत्तर की ओर अग्रवाल काम्पलेक्स के सामने पुलिया तक पुनः पश्चिम की ओर करबला चौक रोड स्थित राजेश कुशवाहा के घर के सामने तक पुनः दक्षिण की ओर रायल चौक रोड तक स्थित बंशी साहू के घर तक।
- पश्चिम :— उत्तर की ओर रायल चौक स्थित बंशी साहू के मकान से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर हनी मेडिकल होते हुए पुराना बैल बाजार चौक स्थित ताहिर के पान ठेले तक।

**वार्ड क्र. 29 पं. मदन मोहन मालवीय वार्ड**

- उत्तर :— राजपाल चौक से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर पाटनी कन्या शाला को शामिल करते हुए बुधवारी बाजार चौक तक पुनः दक्षिण की ओर टाटू गुप्ता के मकान से पुनः पूर्व की ओर पहाड़े मेडिकल तक।
- पूर्व :— पहाड़े मेडिकल से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर पुराना छापाखाना चौक तक।
- दक्षिण :— पुराना छापाखाना चौक से प्रारंभ होकर मनोज चौरसिया से मकान बल्लु कोष्टी के मकान को शामिल करते हुए दक्षिण की ओर श्याम विश्वकर्मा के मकान पुनः पश्चिम की ओर माझी समाज के मंदिर तक।
- पश्चिम :— माझी समाज के मंदिर से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर कुम्हारी मोहल्ला से होते हुए राजपाल चौक तक।

**वार्ड क्र. 30 रफी अहमद किदवई वार्ड**

- उत्तर :— जिला जेल के सामने से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर सिवनी रोड होते हुए पुराना बैल बाजार चौक पर आबकारी वेयर हाउस तक।
- पूर्व :— पुराना बैल बाजार आबकारी वेयर हाउस से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर अकबरी मस्जिद रोड होते हुए पुराना ताराचंद अखाड़ा से नाइस चौक स्थित शब्बीर बकशी टीचर के मकान तक।

**दक्षिण :-** नाइस चौक स्थित शब्दीर बकशी टीचर के मकान से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर राज टॉकीज के सामने से समस्त आबादी क्षेत्र को शामिल करते हुए भैयाजी की दरगाह से सी. एस.काम्पलेक्स के पास मुख्य मार्ग तक।

**पश्चिम :-** सी.एस. काम्पलेक्स के पास मुख्य मार्ग से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर सिवनी रोड होते हुए जिला जेल के सामने तक।

### वार्ड क्र. 31 छोटी माता वार्ड

**उत्तर :-** गल्स कालेज के पास स्थित रिसाला मस्जिद से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर राज टॉकीज के सामने से इकरा कॉनवेन्ट तक पुनः उत्तर की ओर बंशीलाल साहू के मकान से पुनः पूर्व की ओर बड़ी मस्जिद से रॉयल चौक तक।

**पूर्व :-** रॉयल चौक से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर चौरसिया गली से मुल्लू पटेल के घर जाने वाली रोड से पुनः उत्तर को बड़ा इमाम बाड़ा रोड संगम तक पुनः दक्षिण की ओर चूना गली स्थित लखन मास्टर के मकान तक।

**दक्षिण :-** चूना गली स्थित लखन मास्टर के मकान से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर मेन रोड स्थित शानू मोबाईल से पुनः उत्तर की ओर मेन रोड होते हुए राजकुमार शुक्ला की दुकान से पुनः पश्चिम की ओर मिशन टानीगंज स्कूल को शामिल करते हुए बुधवारी मार्ग पर सुरेश मेडिकल के सामने अमरु यादव की दुकान तक।

**पश्चिम :-** बुधवारी मार्ग पर सुरेश मेडिकल के सामने अमरु यादव की दुकान से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर मोहबे मार्केट मार्ग से होते हुए गुंजीकर का मकान होकर समस्त आबादी क्षेत्र को शामिल करते हुए पुनः पश्चिम की ओर पशु चिकित्सालय के बाजू से नागपुर मार्ग तक पुनः उत्तर की ओर बस स्टैंड सिवनी मार्ग होते हुए फव्वारा चौक से गल्स कॉलेज के पास स्थित रिसाला मस्जिद तक।

### वार्ड क्र. 32 संत तुकड़ोजी वार्ड

**उत्तर :-** पूर्व की ओर पुलिस कोतवाली से प्रारम्भ होकर पशु चिकित्सालय के पीछे के मार्ग से होते हुए शरण बंगला को शामिल करते हुए सुरेश मेडिकल मोहबे मार्केट से होते हुए बुधवारी बाजार चौक तक।

**पूर्व :-** बुधवारी बाजार चौक से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर पाटनी टॉकीज होते हुए शुक्ला वकील के मकान राजपाल चौक से बरारीपुरा मार्ग से होते हुए समस्त पटेल कालोनी को सम्मिलित करते हुए बरारीपुरा मार्ग पर चर्च कम्पाउड और पटेल कालोनी के मध्य के पास नाला पुलिया तक।

- दक्षिण :-** चर्च कम्पाउड ओर पटेल कॉलोनी के मध्य के पास नाला पुलिया से प्रारंभ होकर नाला होते हुए पोला ग्राउंड के समीप स्थित पेट्रोल पंप के पास नाला तक।
- पश्चिम :-** पेट्रोल पंप के पास नाला से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर पोला ग्राउंड मुख्य मार्ग होते हुए पुलिस कोतवाली तक।

### वार्ड क्र. 33 ज्योतिबा फुले वार्ड

- उत्तर :-** ई.एल.सी. चौक से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर पेट्रोल पंप के पीछे स्थित नाला होते हुए बरारीपुरा रोड तक पुनः उत्तर की आरे बरारीपुरा रोड लालसिंह पटेल के मकान के सामने स्थित कृष्णा किराना तक।
- पूर्व :-** बरारीपुरा मार्ग पर लालसिंग पटेल के मकान के सामने स्थित कृष्णा किराना से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर मातेश्वरी कालोनी के भीतरी मार्ग से होते हुए भुसान वाडी से जयदेव दास के मकान को शामिल करते हुए सरकारी कच्चे रास्ते से ग्राम मटकुली की उत्तरी सीमा तक।
- दक्षिण :-** नगर की अंतिम दक्षिणी पूर्वी सीमा से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर नाला नाला होते हुए नगर की अंतिम दक्षिणी पश्चिमी सीमा तक।
- पश्चिम :-** नगर की अंतिम दक्षिणी पश्चिमी से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर कोलाढाना माता मंदिर का समस्त आबादी क्षेत्र शामिल करते हुए कोलाढाना मार्ग से चर्च कंपाउण्ड की बाउन्ड्री के साथ—साथ चर्च के सामने नागपूर रोड मुख्य मार्ग से होते हुए ई.एल.सी. चौक तक।

### वार्ड क्र. 34 दुर्गा माता मंदिर वार्ड

- उत्तर :-** चंदनगांव स्थित बोदरी नदी पुल से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर, बोदरी नदी होते हुए ग्राम मटकुली की अंतिम उत्तरी पश्चिमी सीमा तक।
- पूर्व :-** ग्राम मटकुली की अंतिम उत्तरी पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर सर्व की ग्राम चन्दनगांव की अंतिम दक्षिणी पूर्व सीमा तक।
- दक्षिण :-** ग्रामचंदन गांव की अंतिम व दक्षिणी पूर्वी सीमा से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर कुलबहरा नदी होते हुए मुन्ना पवार के खेत स्थित अंतिम दक्षिणी पश्चिमी सीमा तक।
- पश्चिम :-** कुलबहरा नदी स्थित मुन्ना पवार के खेत स्थित अंतिम दक्षिणी पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर पचमढी ढाना रोड होते हुए यादव के मकान तक पुनः पूर्व की ओर नागपूर रोड तक पुनः उत्तर की ओर नागपूर रोड होते हुए बोदरी नदी पुल तक।

**वार्ड क्र. 35 कुलबेहरा वार्ड**

**उत्तर :-** ग्राम थुनिया भांड की अंतिम पश्चिमी उत्तरी सीमा से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर ग्राम थुनिया भांड तक सर्व एवं ग्राम मटकुली की उत्तरी पश्चिमी सीमा होते हुये ग्राम मटकुली की अंतिम पूर्वी उत्तरी सीमा तक।

**पूर्व :-** ग्राम मटकुली की अंतिम पूर्वी उत्तरी सीमा से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर ग्राम मटकुली की अंतिम पूर्वी दक्षिणी सीमा तक।

**दक्षिण :-** ग्राम मटकुली की अंतिम पूर्वी दक्षिणी सीमा से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर ग्राम मटकुली इमलीखेड़ा एवं ग्राम थुनिया भांड की अंतिम सीमा होते हुए ग्राम थुनिया भांड की अंतिम दक्षिण पश्चिमी सीमा तक।

**पश्चिमी :-** ग्राम थुनियाभाण्ड की अंतिम दक्षिणी पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर ग्राम थुनियाभांड की अंतिम पश्चिमी उत्तरी सीमा तक।

**वार्ड क्र. 36 भरतादेव वार्ड**

**उत्तर :-** गुरैया देव स्थित ग्राम चंदनगांव की अंतिम उत्तरी पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर ठाकरेढाना रोड होते हुए पुनः दक्षिण की ओर पचमढ़ी ढाना मार्ग पुनः पूर्व की ओर यादव के भवन तक।

**पूर्व :-** पचमढ़ी ढाना मार्ग स्थित यादव के मकान से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर पंचायत भवन के सामने के मार्ग से होते हुए चंदनगांव की दक्षिणी पूर्वी अंतिम सीमा तक।

**दक्षिण :-** चंदनगांव ग्राम की दक्षिणी पूर्वी अंतिम सीमा से प्रारंभ होकर कुलबहरा नदी होते हुए मुन्ना पवार के खेत स्थित अंतिम दक्षिणी पश्चिमी सीमा तक।

**पश्चिम :-** मुन्ना पवार के खेत स्थित अंतिम दक्षिणी पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर फिल्टर प्लांट चंदनगांव ढाना रोड होतु हुए गुरैया देव स्थित चंदनगांव की अंतिम उत्तरी पश्चिमी सीमा तक।

**वार्ड क्र.37 — चंदन नगर वार्ड**

**उत्तर :-** चंदनगांव स्थित अंतिम उत्तरी पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर भरता देव मार्ग होते हुए नागपुर रोड तक।

**पूर्व :-** नागपुर रोड से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर नागपुर रोड स्थित चंद्रकांत पाटनकर की दुकान तक।

**दक्षिण :-** चंद्रकांत पाटनकर की दुकान से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर बालक प्राथ.शाला होते हुए गजानन चौबितकर के खेत के पास भरतादेव रोड होते हुए चंदनगांव की अंतिम पश्चिमी सीमा तक।

**पश्चिम :-** चंदनगांव की अंतिम दखिणी पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर चंदनगांव की पश्चिमी सीमा होते हुए चंदन गांव की अंतिम उत्तरी पश्चिमी सीमा तक।

#### वार्ड क्र. 38 समर्थ रामदास वार्ड

**उत्तर :-** ग्राम लोनिया करबल एवं चंदनगांव की अंतिम पश्चिमी उत्तरी सीमा से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर छिन्दवाड़ा एवं चंदनगांव की पूर्वी सीमा स्थित बोदरी नदी (जज कालोनी के सामने से) नागपुर रोड स्थित पुलिया तक।

**पूर्व :-** नागपुर रोड स्थित पुलिया से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर नागपुर रोड होते हुए भरतादेव से फिल्टर प्लांट रोड होते हुए के.के.मिश्रा के मकान के सामने मार्ग स्थित के.के.मिश्रा के मकान तक।

**दक्षिण :-** भरतादेव फिल्टर प्लांट रोड स्थित के.के.मिश्रा के मकान से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर बारस्करी मोहल्ला रोड होते हुए गुरैयाढाना एवं चंदनगांव की अंतिम व दक्षिणी पश्चिमी सीमा तक।

**पश्चिम :-** चंदनगांव की अंतिम दक्षिणी पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर अंतिम पश्चिमी सीमा होते हुए लोनिया करबल ओर चंदनगांव की अंतिम उत्तरी पश्चिमी सीमा तक।

#### वार्ड क्र. 39 स्वामी विवेकानन्द वार्ड

**उत्तर :-** नगर की अंतिम पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर बारस्कर के मकान से पश्चिम उत्तर की ओर सिविल लाइन को शामिल करते हुए पुनः पूर्व की ओर बंगला ई/2 से होते हुए प्रियदर्शिनी पार्क, शुक्ला ग्राउंड जनपद ऑफिस तथा सब्जी मंडी को सम्मिलित करते हुए नागपुर रोड पोस्ट आफिस के सामने स्थित हनुमान मंदिर तक।

**पूर्व :-** नागपुर रोड पोस्ट आफिस के सामने स्थित हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर नागपुर मार्ग होते हुए पुनः पूर्व की ओर चर्च कंपाऊण्ड की बाउन्ड्री के साथ-साथ होते हुए बरारी पुरा मार्ग तक पुनः दक्षिण की ओर बरारीपुरा कोलाडाना मार्गसे डी.डी.सी कॉलेज की बाउन्ड्री तक।

**दक्षिण :-** डी.डी.सी कॉलेज की बाउन्ड्री के पास नगर की अंतिम सीमा बोदरी नाला से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर नाला नाला होते हुए बोदरी नाला पाठा तक।

**पश्चिम :—** बोदरी नाला पाठा नगर की अंतिम दक्षिण पश्चिम सीमा से प्रारंभ होकर नाला होते हुए नगर की अंतिम उत्तरी पश्चिमी सीमा तक।

#### वार्ड क्र. 40 तात्या टोपे वार्ड

**उत्तर :—** ग्राम लोनिया करबल की अंतिम उत्तरी सीमा से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर सोनी मोहल्ला होते हुए लोनिया करबल ग्राम के कामठी बिहार कालोनी के पीछे स्थित नाले के कोने वाली पुलिया तक।

**पूर्व :—** ग्राम नोनिया के कामठी बिहार कॉलोनी के पीछे स्थित नाले के कोने से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर नाला होते हुए ग्राम नोनिया करबल की अंतिम पूर्वी दक्षिणी सीमा तक।

**दक्षिण :—** ग्राम लोनिया करबल की अंतिम पूर्वी दक्षिणी सीमा से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर ग्राम लोनिया की सीमा तक।

**पश्चिमी :—** ग्राम लोनिया की दक्षिणी पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर ग्राम लोनिया की अंतिम उत्तरी पश्चिमी सीमा तक।

#### वार्ड क्र. 41 शहीद मेजर अमित ठेंगे वार्ड

**उत्तर :—** शक्ति नगर मंदिर के समीप स्थित नगर की अंतिम सीमा नाला से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर शक्ति नगर मेन रोड होते हुए बंशीधाम डी.पी. डेहरिया को सम्मिलित करते हुए जैन मंदिर के पास चौरसिया के मकान होते हुए कलेक्ट्रेट रोड स्थित निगम के मकान से जवाहर शाला जाने वाले मार्ग से विध्यासागर चौक को सम्मिलित करते हुए फवारा चौक हिंदी प्रचारिणी पार्क स्थित माखनलाल चतुर्वेदी प्रतिमा तक।

**पूर्व :—** फवारा चौक हिंदी प्रचारिणी पार्क स्थित माखनलाल चतुर्वेदी की प्रतिमा से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर मुख्य मार्ग होते हुए इरफान केला मंडी तक।

**दक्षिण :—** इरफान केला मंडी से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर पानी टंकी के पीछे वाले मार्ग से जनपद के सामने से होते हुए डी.आई.सी.चोराहा से पुनः दक्षिण की ओर सिविल लाईन स्थित बंगला ई/१ को सम्मिलित करते हुए पुनः पश्चिम की ओर देवरे कॉलोनी स्थित लांबा सर के मकान से चौकसे कॉलोनी स्थित नाला पुलिया तक।

**पश्चिम :—** नगर की अंतिम सीमा चौकसे कॉलोनी स्थित नाला पुलिया से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर नाला होते हुए शक्ति नगर मंदिर के समीप स्थित नगर की अंतिम पश्चिमी उत्तरी सीमा तक।

### वार्ड क्र. 42 महावीर वार्ड

- उत्तर :— छिंदवाड़ा परासिया मार्ग स्थित फौजी साइकल स्टोर्स से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर परासिया छिंदवाड़ा मार्ग स्थित अम्बेडकर तिराहा होते हुए जेल तिराहा इंदिरा प्रतिमा तक।
- पूर्व :— जेल तिराहा इंदिरा प्रतिमा से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर फव्वारा चौक स्थित निर्भय ज्वेलर्स की दुकान तक।
- दक्षिण :— फव्वारा चौक स्थित निर्भय ज्वेलर्स की दुकान से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर विद्यासागर चौक से जवाहर शाला मार्ग से कलेक्ट्रेट मार्ग तक पुनः पूर्व की ओर नेशनल इलेक्ट्रिक रेफीजरेशन केबाजू से पुनः पश्चिम की ओर जैन मंदिर के पीछे कपाले के मकान तक।
- पश्चिम :— जैन मंदिर के पीछे कपाले के मकान से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर मधुकर ठेंगे जी के मकान के सामने से होते हुए दरियापुरकर के मकान से पुनः पूर्व की ओर लोमेश जैन के मकान तक पुनः उत्तर की ओर संतोष साहू के मकान से होकर पुनः पूर्व की ओर भोयर के मकान से गुलाबरा मेन रोड होते हुए पुनः उत्तर की ओर परासिया मार्ग स्थित फौजी साइकल स्टोर्स तक।

### वार्ड क्र. 43 षष्ठी माता मंदिर वार्ड

- उत्तरी :— गुलाबरा मेन रोड स्थित मोती मस्जिद के सामने स्थित नूरी किराना से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर पाण्डे किराना से पुनः उत्तर की ओर पूजा लॉज के पीछे होकर पुनः पूर्व की ओर परासिया मार्ग स्थित मोया नाला पुलिया से नाला-नाला होते हुए मोहन नगर नई आबादी की पुलिया सोनी के मकान तक।
- पूर्व :— मोहन नगर नई आबादी पुलिया सोनी के मकान से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर सराठे के मकान से पुनः पश्चिम की ओर रमेश सारवान के मकान से होते हुए पुनः दक्षिण की ओर प्रकाश माधवानी के मकान के सामने मार्ग पर लॉ कालेज के सामने से होते हुए आदिवासी छात्रावास तक से पुनः पूर्व की खजरी मार्ग से पुनः दक्षिण की ओर अमित ठेंगे प्रतिमा तक। अमित ठेंगे प्रतिमा से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर मुख्य मार्ग होते हुए जेल तिराह इंदिरा प्रतिमा तक।
- दक्षिण :— जेल तिराह इंदिरा प्रतिमा से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर छिंदवाड़ा परासिया मार्ग होते हुए सत्कार लॉज कम्पाउंड एवं पंकज टॉकीज क्षेत्र को शामिल करते हुए बर्मन के खेत के सामने स्थित मनीष वैघमुथा के काम्पलेक्स तक पुनः पश्चिम की ओर डी सी देशमुख के मकान तक पुनः उत्तर की ओर गुलाबरा मेन रोड स्थित मोती मस्जिद के सामने स्थित नूर किराना स्टोर्स तक।
- पश्चिम :—

**वार्ड क्र. 44 पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड**

- उत्तर :— परासिया रोड स्थित मोया नाला से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर पूजा लॉज के पीछे वाले मार्ग से गुलाबरा मेन रोड स्थित जान मोहम्मद के मकान से होते हुए राय बिल्डिंग तक।
- पूर्व :— गुलाबरा मेन रोड स्थित राय बिल्डिंग से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर दिनेश मालवी के मकान से पुनः पूर्व की ओर अरुण जैन के मकान से पुनः दक्षिण की ओर जितेन्द्र डहरवाल के मकान तक।
- दक्षिण :— जितेन्द्र डहरवाल के मकान से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर पार्क जाने वाले मार्ग से होते हुए नाला—नाला होते हुए नगर छिंदवाड़ा और लोनिया की अंतिम सीमा तक।
- पश्चिम :— छिंदवाड़ा नगर और लोनिया की अंतिम सीमा से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर नाले के किनारे किनारे होते हुए छिंदवाड़ा परासिया रोड स्थित मोया नाला तक।

**वार्ड क्र 45— महर्षि वाल्मीकी वार्ड**

- उत्तर :— ग्राम लोनिया करबल की अंतिम पश्चिमी उत्तरी सीमा स्थित रेल्वे मार्ग से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर चककर रोड स्थित लोनिया करबल की अंतिम सीमा रेल्वे क्रॉसिंग तक।
- पूर्व :— लोनिया करबल की अंतिम उत्तरी सीमा चककर रोड रेल्वे क्रॉसिंग से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर परासिया रोड स्थित आई.बी.बगंले तक पुनः पूर्व की ओर पूजा लॉज के समीप स्थित नाले की पुलिया से पुनः दक्षिण की ओर कामठी बिहार कालोनी के पीछे स्थित नाले के कोने पर स्थित पुलिया तक।
- दक्षिण :— कामठी बिहार कालोनी के पीछे स्थित नाले के कोने की पुलिया से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर सोनी मोहल्ला के सामने से माली मोहल्ला होते हुए लोनिया करबल ग्राम की परतला ग्राम स्थित अंतिम सीमा तक।
- पश्चिम :— लोनिया करबल की परतला स्थित अंतिम सीमा से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर ग्राम लोनिया की अंतिम सीमा होते हुए लोनिया ग्राम की अंतिम पश्चिमी उत्तरी सीमा स्थित रेल्वे मार्ग तक।

**वार्ड क्र. 46 श्री झुलेलाल वार्ड**

- उत्तर :— परासिया रोड स्थित पोल फैक्ट्री से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर सर्किट हाउस रोड होते हुए टी बी सेनेटोरियम के पास स्थित रेल्वे क्रासिंग तक।

**पूर्व :-** एस.ए.एफ. रेल्वे क्रॉसिंग होते हुए टी.बी सेनेटोरियम रेल्वे क्रासिंग से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर खजरी मार्ग होते हुए मानसरोवर काम्पलेक्स के पीछे स्थित ट्रांसफार्मर के पास तक।

**दक्षिण :-** मानसरोवर कॉम्पलेक्स के पीछे स्थित ट्रांसफार्मर के पास से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर कर्मचारी संघ काम्पलेक्स स्थित घई की टाल तक।

**पश्चिम :-** कर्मचारी संघ काम्पलेक्स स्थित घई की टाल से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर भूमि विकास बैंक को शामिल करते हुए लॉ कॉलेज मार्ग से अशोक माधवानी के मकान तक पुनः पूर्व की ओर मुकेश सारवान के मकान से सुरेश लोट के मकान तक पुनः उत्तर की ओर सीमेंट रोड होते हुए मोहन नगर नई आबादी पुलिया से पुनः पश्चिम की ओर नाला—नाला होते हुए परासिया मार्ग स्थित मोया नाला पुलिया तक पुनः उत्तर की ओर परासिया मार्ग होते हुए पोल फैक्ट्री तक।

#### **वार्ड क्र. 47—पं.माखनलाल चतुर्वेदी वार्ड**

**उत्तर :-** ग्राम नोनिया करबल की पश्चिमी उत्तरी सीमा से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर ग्राम लोनिया करबल की अंतिम उत्तरी पूर्वी सीमा तक।

**पूर्व :-** ग्राम लोनिया करबल की अंतिम उत्तरी पूर्वी सीमा से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर चक्कर रोड स्थित रेल्वे क्रॉसिंग लोनिया करबल की अंतिम सीमा तक।

**दक्षिण :-** चक्कर रोड स्थित रेल्वे क्रॉसिंग लोनिया करबल की अंतिम सीमा से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर रेल्वे मार्ग होते हुए अनुसुर्ईया उईके के मकान स्थित लोनिया करबल की अंतिम पश्चिमी दक्षिणी सीमा तक।

**पश्चिम :-** अनुसुर्ईया उईके के मकान स्थित लोनिया करबल की अंतिम पश्चिमी दक्षिणी सीमा से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर ग्राम लोनिया करबल की पश्चिमी उत्तरी सीमा तक।

### वार्ड क्र. 48 पंचवटी वार्ड

- उत्तर :— ग्राम पोआमा की अंतिम पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर ग्राम पोआमा की उत्तरी सीमा से होते हुए ग्राम पोआमा की अंतिम उत्तरी पूर्वी सीमा तक।
- पूर्व :— ग्राम पोआमा की उत्तरी पूर्वी अंतिम सीमा से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर पोआमा ग्राम की पूर्वी सीमा होते हुए परासिया रोड तक पुनः पूर्व की ओर परासिया रोड होते हुए पुनः उत्तर की ओर रेल्वे लाइन तक पुनः पूर्व की ओर रेल्वे लाइन होते हुए लोनिया करबल ग्राम की सीमा तक पुनः दक्षिण की ओर पोआमा ग्राम की अंतिम पूर्वी सीमा होते हुए पोआमा ग्राम की अंतिम दक्षिण पूर्वी सीमा तक।
- दक्षिण :— ग्राम पोआमा की अंतिम पूर्वी दक्षिणी सीमा से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर पोआमा ग्राम की अंतिम सीमा होते हुए पोआमा ग्राम की अंतिम दक्षिण पश्चिमी सीमा तक।
- पश्चिम :— पोआमा ग्राम की अंतिम दक्षिण पश्चिमी से प्रारंभ होकर ग्राम पोआमा की पश्चिमी सीमा होते हुए पोआमा ग्राम की अंतिम उत्तरी पश्चिमी सीमा तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. माथुर, आयुक्त.

केंप सागर, दिनांक 27 नवंबर 2014

क्रमांक :— 347/शाखा 6 /स्था. निर्वा. /2014 — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 347/शाखा 6 /स्था. निर्वा. /2014 दिनांक 27 नवम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. माथुर, आयुक्त.

## OFFICE OF THE COMMISSIONER JABALPUR

Camp Sagar, 27<sup>th</sup> November 2014

No. 347/शाखा 6 /स्था. निवा. /2014 – In exercise to the powers vested under Notification No. 3-518-XVIII-3-2014 dated 24<sup>th</sup> February 2004 of the Urban Administration and Development Department of Govt. of Madhya Pradesh, I, R.K.Mathur, Commissioner, Jabalpur Division, hereby determine the extent of wards of Municipal Corporation Chhindwara under the provisions of Section 10 (1) of the M.P. Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956) as per Schedule given below—

Statement showing population information of Municipal Corporation Chhindwara

Name of urban local body	Population (As per census 2011)	No. of wards determined	Average Population of a ward	Population			Remark
				Total Population	Scheduled Cast	Scheduled Tribe	
1	2	3	4	5	6	7	8
Municipal Corporation Chhindwara	215843	48	4497	215843	28917	28627	As provided by District planning and statistics officer

### Schedule

Ward no.	Ward name	Total Population	Scheduled Cast	Scheduled Tribe
1	DR. RADHAKRISHNAN WARD	4487	651	1395
2	GAYATRI WARD	4386	765	671
3	VEER SAVARKAR WARD	4657	549	1882
4	PRITHVIRAJ CHAUHAN WARD	4385	318	571
5	BADAL BHOI WARD	4522	564	676
6	LOKMANYA BAL GANGADHAR TILAK WARD	4081	559	757
7	LAL BAHDUR SHASTRI WARD	4684	796	323
8	SHAHID BHAGAT SINGH WARD	4066	236	188
9	MAHARANI LAKSHMI BAI WARD	3908	736	1973
10	SIDDHIVINAYAK WARD	3858	696	1582
11	SWAMI DAYANAND SARASWATI WARD	3948	1022	375
12	SARDAR VALLABH BHAI PATEL WARD	3827	235	825
13	JAGANNATH WARD	4240	814	420
14	CHANDRASHEKHAR AZAD WARD	4773	772	483

15	NETAJI SUBHASHCHANDRA BOSE WARD	4545	177	460
16	MAHATAMA GANDHI WARD	4774	1045	1812
17	SANTOSHI MATA MANDIR WARD	4706	270	176
18	RAJENDRA NAGAR WARD	4401	1288	511
19	PATALESHWAR WARD	4421	638	535
20	PANDIT DINDAYAL UPADHYAYWARD	4609	738	576
21	DR. B.R. AMBEDKAR WARD	4163	654	298
22	RANI DURGAWATI WARD	5129	1201	1429
23	SANT RAVIDAS WARD	4107	1823	107
24	MAHARANA PRATAP WARD	4852	246	698
25	CHHATRAPATI SHIVAJI WARD	4510	324	237
26	SANT KABIRDAS WARD	4087	208	188
27	SHRIRAM MANDIR BADIMATA WARD	4633	31	46
28	DR. SHYAMA PRASAD MUKHARJEE WARD	4370	51	57
29	PT. MADAN MOHAN MALVIYA WARD	5135	428	78
30	RAFI AHAMAD KIDWAI WARD	3962	45	114
31	CHHOTI MATA WARD	4705	86	39
32	SANT TUKDOJI WARD	4240	205	116
33	JYOTIBA FULE WARD	4505	267	707
34	DURGA MATA MANDIR WARD	4104	646	447
35	KULBAHARA WARD	4832	347	884
36	BHARTADEV WARD	4341	661	443
37	CHANDANNAGAR WARD	4177	657	649
38	SAMARTH RAMDAS WARD	4274	694	377
39	SWAMI VIVEKANAND WARD	5131	423	574
40	TATYA TOPE WARD	4838	755	279
41	SHAHID MEJOR AMIT THENGE WARD	4736	508	275
42	MAHAVEER WARD	4622	583	204
43	SHASHTI MATA MANDIR WARD	4898	541	233
44	PANDIT JAWAHERLAL NEHRU WARD	4870	591	319
45	MAHARSHI VALMIKI WARD	5076	1136	539
46	SANT JHULELAL WARD	4753	870	688
47	PANDIT MAKHANLAL CHATURVEDI WARD	5075	1256	819
48	PANCHAVATI WARD	4440	811	1592
Total		215843	28917	28627

### **BOUNDARIES OF WARDS OF MUNICIPAL CORPORATION CHHINDWARA**

#### **WARD NO.1 – DR. RADHAKRISHNAN WARD**

##### **NORTH :-**

Starting from North west boundary of Karaboh towards east up to nalah situated on North – West boundary of village Khajri.

##### **EAST :-**

Starting from the nalah situated on north – West boundary of village Khajri towards South including Gadri Dhana and Matroo Tola up to North – West boundary of village Khajri and Lonia.

##### **SOUTH :-**

Starting from last North – West South boundary of village Khajri and Lonia towards West through the Railway line including the house of Mahesh Paliwal again toward South up to main road, again towards North up to main road again towards North through nalah, Railway line up to last South – West boundary of village Poama, Karaboh & Kundali.

##### **WEST :-**

Starting from last South – West boundary of village Poama, Karaboh & Kundali towards North up to last West – North boundary of village Karaboh.

#### **WARD NO.2 – GAYATRI WARD**

##### **NORTH :-**

Starting from and Including the whole populated area of friends colony situated at village Khajri towards East up to Shivpuri road covering whole area of friends colony & Shikshak colony.

##### **EAST :-**

Starting from Shivpuri road towards South up to T.B. Sanatorium Railway crossing through Chhindwara road Khajri chowk.

##### **SOUTH :-**

Starting from T.B. Sanatorium Railway crossing towards West along the railway line up to S.A.F. Railway crossing and towards North up to circuit house again towards West up to inspection bungalow of irrigation department on Parasia road.

##### **WEST :-**

Starting from inspection bungalow of irrigation department on Parasia road towards North through the railway line up to S.A.F. Railway crossing again towards West up to the North boundary of Priya Darshani colony again towards North Khajri Nalah again towards West last boundary of village Khajri again towards North the last boundary of friends colony Khajri village.

#### **WARD NO.3 – VEER SAVARKAR WARD**

##### **NORTH :-**

Starting from nalah situated on West – North boundary of village Khajri towards east through the last boundary of village Khajri up to last East – North boundary of village Khajri.

Starting from last East boundary of village Khajri towards South up to Shivpuri road situated on last South – East boundary of village Khajri.

#### SOUTH :-

Starting from Shivpuri road situated on last South – East boundary of village Khajri towards West excluding friends colony & Shikshak colony up to last South – West boundary of Khajri village.

#### WEST :-

Starting from last South – West boundary of village Khajri towards North up to nalah situated on last West – North boundary of village Khajri.

### **WARD NO.4 – PRITHVIRAJ CHAUHAN WARD**

#### NORTH :-

Starting from West – North boundary of village Kukda through the house of Karodi Patel excluding the whole populated area of village Moharli towards East up to the road of the colony developed by Radhika Charan Pandey.

#### EAST :-

Starting from the road of colony developed by Radhika Charan Pandey towards South up to the house of Darshan Deharia again from house of Govind up to North – South boundary of village Khapabhat.

#### SOUTH :-

Starting from South – West boundary of village Khapabhat towards West through the last boundary of village Kukda, Shivpuri road up to South – West boundary of Kukda.

#### WEST :-

Starting from South – West boundary of village Kukda situated on Shivpuri road up to West – North boundary through last boundary of Kukda.

### **WARD NO.5 – BADAL BHOI WARD**

#### NORTH :-

Starting from Khajri chowk towards East through the Chakkar road up to the house of Kunwarlal Tandekar again towards South through the Kukda Railway line the boundary of Khan colony up to Railway line again towards East up to Railway crossing of Bail Bazar.

#### EAST :-

Starting from Bail Bazar Railway crossing towards South through Kabrastan road up to Untkhana water tank chowk.

#### SOUTH :-

Starting from Untkhana water tank chowk towards West P.W.D. Sub Division road towards North through the house of Rafiq tailor near transformer again towards West up to the Khajri road through nalah.

**WEST :-**

Starting from Khajri road nalah through Khajri road up to Khajri chowk after crossing the Railway track.

**WARD NO.6 – LOKMANYA BAL GANGADHAR TILAK WARD****NORTH :-**

Starting from nalah situated on Khajri road towards East up to nalah through the nalah Shivnagar puliya towards South house of Naseem Khan in front of transformer towards East P.W.D. office tiraha again towards East Untkhana water tank chowk further from Sagarpesha including chowk to again towards East including the house of Rafeeq Bhai contractor through the North – West of Bada talab including the house of Kandere up to Hanuman Mandir situated on Lalbag road.

**EAST :-**

Starting from Lalbag Hanuman mandir towards South through the Lalbag chowk up to Yatayat thana at Old Bail bazar chowk.

**SOUTH :-**

Starting from Yatayat thana Old Bail bazar chowk towards West up to Police line gate through main road.

**WEST :-**

Starting from Police line gate towards North through the road up to Culvert beside Amma hospital on Khajri road.

**WARD NO.7 – LAL BAHADUR SHASTRI WARD****NORTH :-**

Starting from Geeta Ice factory situated on chakkar road towards East through the chakkar road up to North – West boundary of approach road of Dharam Tekadi P.G. college.

**EAST :-**

Starting from corner the tekadi gehind the P.G. college towards South up to the house of Gaya P. Dube after crossing the second dammar road going towards college.

**SOUTH :-**

Starting from the house of Gaya P. Dube towards West through the central road of the Shrivastav colony up to the Railway crossing near the house of Yadav on college road and up to the Kukda Railway crossing through Railway line.

**WEST :-**

Starting from Kukda Railway crossing towards North through the Railway boundary, Bedi colony road up to Geeta Ice factory.

**WARD NO.8 – SHAHID BHAGAT SINGH WARD****NORTH :-**

Starting from the New Bail Bazar crossing towards East up to the college road Railway crossing.

**EAST :-**

Starting from college road Railway crossing towards South up to the house of Naresh Chauhan near Hanuman mandir college road Lalbag.

**SOUTH :-**

Starting from the house of Naresh Chauhan through the house of Ramesh Yadav up to Untkhana Sagarpesha chowk.

**WEST:-**

Starting from Untkhana Sagarpesha chowk towards North up to New Bail Bazar Railway crossing.

**WARD NO.9 – MAHARANI LAKSHMI BAI WARD****NORTH :-**

Starting from West – North boundary of village Jhanda towards East through the boundary of village Jhanda, Khairy Bhopal, Lahagadua up to last North – East boundary of village Lahagadua.

**EAST :-**

Starting from last North – East boundary of village Lahagadua towards South up to last West – South boundary of village Kusmaily.

**SOUTH :-**

Starting from last West – South boundary of village Khajri towards West through the Last boundary of village Khapabhat including Matroo Tola of village Kukda Jagat up to East –South boundary of village Khajri.

**WEST :-**

Starting from last East –South boundary of village Khajri towards North through Last boundaryof Khajri up to last West – South boundary of village Jhanda.

**WARD NO.10 – SIDDHIVINAYAK WARD****NORTH :-**

Starting from road of colony of Radhika Charan Pandey of village Kukda towards East through the boundary of village Khapabhat up to last North – East boundary of village Lahagadua and Kusmaily.

**EAST :-**

Startinng from last North – East boundary of village Khapabhat towards East again towards South through last boundary of village Kusmaily and Khapabhat up to last East – South boundary of village Khapabhat.

**SOUTH :-**

Starting from last East – South boundary of village Khapabhat towards West through last South boundary of village Khapabhat up to the end of boundary of village Kukda and city Chhindwara.

**WEST :-**

Starting from the end of boundary of village Kukda and city Chhindwara towards North through the house of Govind Darshan Deharia up to the road of colony Radhika Charan Pandey.

**WARD NO.11 – SWAMI DAYANAND SARASWATI WARD****NORTH :-**

Starting from the house of Vaseem Khan situated at Indira Nagar towards East up to the road near Jeeji Bai School.

**EAST :-**

Starting from the road situated near Jeeji Bai School towards South up to the road near the house of Moreshwar Hajare again towards West up to the road in front of Shankar Mandir again towards South through the road in front of the house of Suresh Mokhalgay including Sengar Bada up to the Gurudwara tiraha situated at Rambag.

**SOUTH :-**

Starting from Gurudwara tiraha situated at Rambag towards West through the Rambag road up to the house of Ramkishan Pahade.

**WEST :-**

Starting from the house of Ramkishan Pahade situated at Rambag towards North up to the house of Shashikant Parteti again towards East road situated near the Skandh Mata Mandir again towards North through the Indira Nagar road house of Varnwal up to the house of Vaseem Khan situated at last point of Indira Nagar.

**WARD NO.12 – SARDAR VALLABH BHAI PATEL WARD****NORTH :-**

Starting from last South boundary of village Khapabhat and ward 12 towards East through the South boundary of Khapabhat below the Dharam tekadi up to Kanya parisar.

**EAST :-**

Starting from Kanya Parisar towards South Separating Ganesh colony from the house of J.P. Sarabhai again towards East through the Ganesh colony road from the Narsingpur road Police Chauki again towards South through the Narsingpur main road up to Old Narsingpur naka Chowk.

**SOUTH :-**

Starting from Old Narsingpur naka chowk towards West through the road college road to bank colony up to the house of Arun Chauhan.

**West :-**

Starting from the house of Arun Chauhan towards North up to the Road in front of mandir again towards East up to the road near the house of Moreshwar hajare again towards North up to Jeeja Bai school road again towards West the boundary of Ward no. 12 again towards North up to last South boundary of village Khapabhat.

**WARD NO.13 – JAGANNATH WARD****NORTH :-**

Starting from the Krishna Mandir Chauraha on college road towards East up to the hotel of Prakash gupta situated on Narsingpur road.

**EAST :-**

~~Starting from the hotel of Prakash gupta situated on Narsingpur road towards South up to the house of Manish Rajput situated on Narsingpur road.~~

**SOUTH :-**

Starting from the house of Manish Rajput situated on Narsingpur road through the D Nema gali towards West up to the house of Anil Gupta in front of Satsang Bhawan.

**WEST :-**

Starting from the corner of house of Anil Gupta situated in front of Satsang bhawan towards North through the Kshatriya Bhawan up to Billu Saw Mill again towards East through the Rambag road up to Gurudwara tiraha again towards North up to college road Krishna Mandir.

**WARD NO.14 – CHANDRASHEKHAR AZAD WARD****NORTH:-**

Starting from the boundary of yadav kirana situated near college road Railway crossing towards east through the shrivastava colony road up to the house of Rajesh chourasia.

**EAST:-**

Starting from house of rajesh chourasia towards south up to house of kundan mandrah, and though the lalbag road again toward west up to over bridge railway crossing through the lalbag Railway line.

**SOUTH:-**

Starting from over bridge railway crossing towards west through the seoni road up to Rajput petrol pump chowk.

**WEST:-**

Starting from Rajput petrol pump chowk towards North though the lalbag chowk college road, up to college road railway crossing.

**WARD NO.15 – NETAJI SUBHASHCHANDRA BOSE WARD****NORTH:-**

Starting from lower west North boundry of Dharam Tekri situated at village khapabhat including whole Ganesh colony towards east up to East north joint boundary of khapabhat and Kusmailly .

**EAST:-**

Starting from East-North joint boundary of khapabhat &Kusmailly towards south through the weast boundry of kushmailly up to south –west boundary junction of Seoni pran moti and Kusmailly .

**SOUTH:-**

Starting from the culvert at Seoni pran moti on the last boundary of city chhindwara towards west up to Naka puliya situated near the house of surendra jain agin towards south through the Naka up to Nali puliya near vishal compound behind Gandhi ganj agin toward west through the road behind Gandhi ganj up to the house of Neelkanth sahu near Chitnaveesganj post office on Narsingpur road.

**WEST:-**

Starting from the house of Neelkanth sahu near Chitnaveesh ganj post office on Narsingpur road towards north through the Narsingpur road up to Dharam-Tekdi Police chouki again towards west through the Ganesh Colony road including the Ganesh Colony again towards North up to the West - North boundary below Dharam -Tekdi Situated at Khapabhat.

**WARD NO.16 –MAHATAMA GANDHI WARD****NORTH:-**

Starting from last west north boundary of village Ajania towards east up to last north east boundary of village Ajania.

**EAST:-**

Starting from Last North east boundary of village Ajania towards south through the last boundary of village Ajania and Kabadia up to seoni road the south east boundary of Kabadia.

**SOUTH:-**

Starting from last south east boundary of village kabadia towards west up to shugar factory through seoni road again towards north excluding the whole populated area over Hill again towards south up to seoni road Phataka Godown again towards north up to Nalla and through the Nalla including the whole Populated area up to seoni road chauhari Nalla.

**WEST:-**

Starting from the seoni road chauhri Nalla towards north through the last boundary of village Seoni Pranmoti Khapabhat Kushmailly up to last west boundary of village Ajania.

**WARD NO.17 – SANTOSHI MATA MANDIR WARD****NORTH:-**

Starting from the front of Billusawmill situated where Lalbag Railway crossing towards east through c.c. road from the D.nema gali up to Narsingpur road again towards South up to Chitanavees ganj post office again towards east up to nalah behind Gandhi ganj through the nalah including the whole Populated area up to the Patni DHaram Kanta situated on Seoni road .

**EAST:-**

Starting from Patni Dharam Kanta seoni road towards south up to seoni road.

**SOUTH:-**

Starting from seoni road towards west through the seoni road up to charphatak railway crossing.

**WEST:-**

Starting from the charphatak railway crossing towards north through railway line from lalbag railway crossing again towards east up to Somesh Kirana Store.

**WARD NO.18 RAJENDRA NAGAR WARD****NORTH:-**

starting from the railway line situated in front of Hindustan tent house toward east through the railway line to railway phatak near Pipermint factory again towards North through behind the ware house again toward east including the slum behind ware house again near NIIT Tekri near tube well of Municipal Chhindwara near NIIT Tekadi up to last north east boundary of nagar palika .

**EAST:-**

Starting from the last north east boundary ofNagar Palika situated nearNagar Palika tubewell near NIIT Tekadi towards south through the last boundary of town including whole populated area up to culvert on Chand road .

**SOUTH:-**

Starting from the culvert on Chand road towards west including the whole populated area behind Sugar Mill up to krishk cold store in front of papad factory.

**WEST:-**

Starting of krishak cold store in front of papad factory toward north through inner road of Sukludhana to house of Mahesh yadav again towards east Ambedkar park up to house of Madan yadav again towards north including the area of Basodi mohhalla to new mall dhakka road up to Hindustan tent house.

**WARD NO.19 PATALESHWAR WARD****NORTH:-**

Starting from the road from charfatak on seoni road railway towards esat through the chhindwara seoni road up to the road for old loco- shed.

**EAST:-**

Starting from old mal dhakka road toward south along the railway line up to house laxmi bai Athnekar .

**SOUTH:-**

Starting from the house of laxmi bai Athnekar towards west up to culvert over nalah an Pataleshwar road and again from the house the dilip yadav towards east the house of Vithalrao charpe behind the durga temple again towards West including the whole populated area up to Shamshan ghat culvert .

**WEST:-**

Starting from the Shamshan ghat culvert towards north through the Mokshdham road Gupta steel factory to house of pande again towards east through the triloki nagar road house of Satpute sir again towards north through the railway station road up to the char fatak railway crossing .

**WARD NO.20 –PANDIT DINDAYAL UPADHYAYWARD****NORTH :-**

Starting from the house of Shankar Gadewal towards East up to Maal Dhakka.

**East :-**

Starting from the Maal Dhakka towards South through the Railway line up to the Junction place of land of Kayasth samaj on Sonpur road.

**SOUTH :-**

Starting from the Junction Place of land of kayasth Samaj towards West through the godown up to the house of Vithhalrao Charpe near Durga temple.

**WEST :-**

Starting from the house of Vithhalrao Charpe towards North up to house of Shankar Gadewal.

**WARD NO.21 – DR. B.R. AMBEDKAR WARD****NORTH :-**

Starting from the Kirana Shop infront of Hanuman Mandir towards East including Papad Factory and including whole populated areaand tekadi behind Sugar Mill up to last boundary of the city.

**EAST :-**

Starting from the last North boundary of the city towards South on Bohata road up to lastSouth – East boundary of the city.

**SOUTH :-**

Starting from the last South – East boundary situated on Bohata road towards West including the whole populated area up to New Maal Dhakka Crossing on Sonpur road.

**West :-**

Starting from New Maal Dhakka crossing on Sonpur road towards North through the New Mall Dhakka road again towards East the house of Madan Yadav again towards North through the near by Ambedkar Park up to the kirana shop in front of Hanuman Mandir.

**WARD NO.22 – RANI DURGAWATI WARD****NORTH :-**

Starting from the Aadiwasi Aara machine situated on seoni road towards East through Seoni road including the whole populated area of the hill of Kabadia village situated behind Sugar factory up to Seoni road and towards East through the Seoni road up to the last North - East boundary of Sonakhar village .

**EAST :-**

Starting from the last North – East boundary of village Sonakhar towards South up to the Last South – East boundary of Village Sonakhar.

**SOUTH :-**

Starting from last South – East boundary of village Sonakhar towards West through the last boundary of Village Sonakhar and Imalia Bohata village up to the last South – West boundary of village Imalia Bohata.

**West :-**

Starting from the last South – West boundary of village Imalia bohata towards North through the last boundary of village Imalia Bohata up to Railway line again towards West through the Railway line Separating the slum behind warehouse again through the Railway line towards North up to the Aadiwasi Aara Machine on Seoni Road.

**WARD NO.23 – SANT RAVIDAS WARD****NORTH :-**

Starting from the house of Hajarilal Chaurasia near Hathi ThanSatti Chowk towards East through Marghat road up to culvert near Marghat.

**EAST :-**

Starting from Culvert over nalah near Marghat towards South near nalah through the New Bail Bazar compost land to Chhindwara Sonpur road including vivekanand school up to Aara machine near Kalipatha.

**SOUTH :-**

Starting from Aara Machine near KaliPatha towards West through the Inner road beside bricks kilns including the house of Ayodhya vishwakarma and further Jain Mangal Bhavan through the back portion of the house of Bihari Sahu up to the front portion of house of Bihari sahu on Dhimari Mohalla road.

**WEST :-**

Starting from the house of Bihari sahu separating the Malvi Park and Maajhi Samaj Mandir towards North through the side of Sen Samaj Mandir up to the house of Hajarelal Chaurasia near Hathi Than Satti Chowk.

**WARD NO.24 – MAHARANA PRATAP WARD****NORTH :-**

Starting from the last West – North boundary of village Boria towards East up to the last East – North boundary of Boria.

**EAST :-**

Starting from the last East – North boundary of village Boria towards South through the last boundary of village Boria, Village Saraswada, Village Sonpur up to the last South – East boundary of Village Sonpur.

**SOUTH :-**

Starting from the last South – East boundary of Village Sonpur towards West through the last boundary of village Sonpur up to last South –West boundary of village Sonpur.

**West :-**

Starting from last South –West boundary of village Sonpur towards North through the last boundary of village Sonpur, village Saraswada, village Boria up to last West – North boundary of village Boria.

**WARD NO.25 – CHHATRAPATI SHIVAJI WARD****NORTH :-**

Starting from the Bararipur Kukkan chowk towards East through Rajpal chowk up to Hanuman Mandir behind Dhimari Mohalla Malviya Park.

**EAST :-**

Starting from Hanuman Mandir behind Dhimari Mohalla Malviya Park towards South through the side and behind the house of Bihari Sahu excluding the Jain bhavan and house of Ayodhya Vishwakarma through the inner road from front portion of bricks kilns to Kalipatha to village Sonpur road to Sawle Wadi road including whole populated area of Sawle Wadi up to East – South boundary of the city.

**SOUTH :-**

Starting from the East – South boundary of the ward no. 25 towards west via north boundary of village matkuli up to last south west boundary of ward no. 25.

**WEST :-**

Started from the Last south west boundary (of ward no. 25 north boundary of village matkuli) towards north excluding house of jaidev das vai govt. kachcha rasta via bhusan wadi through matershvari colony road up to krishna kirana store in front of house of Lalsing Patel situated at Bararipura road.

**WARD NO.26 – SANT KABIRDAS WARD****NORTH :-**

Starting from the house of Rajesh Kushwah situated on Karbala Chowk road towards East cement road to the corner of Shantinath Lawn situated near Chhota Talab again towards South up to Durga Chowk again towards North – East Seoni road near Tilak Market again towards East through the Seoni road up to Railway Station road situated at Char Fatak.

**EAST :-**

Starting from Railway Station road situated at Char Fatak towards South up to the road in front of house of Satpute at Triloki Nagar again toward South up to the land of Kachhi on Mokshadham road.

**SOUTH :-**

Starting from the land of Kachhi on Mokshadham road towards West through Khirkapura Chowk, the house of Gautam Patwari up to the house of Surendra Vishwakarma.

**WEST :-**

Starting from the house of Surendra Vishwakarma situated at Satti Chowk towards North including the Nawab Sahab Bada up to the Durga Chowk again towards East Rakesh Video, Royal chowk again towards North up to the house of Rakesh Kushwah situated on Karbala Chowk road.

**WARD NO.27 – SHRIRAM MANDIR BADIMATA WARD****NORTH :-**

Starting from the Shop of Khadigram Udyog in front of Pahade Medical towards East up to the East corner of house of Vimal Patni situated on Chhoti Bazar main road.

**EAST :-**

Starting from the East corner of house of Vimal Patni situated on Chhoti Bazar main road towards South through the Main road house of Shreyansh Jain again towards East through the house of Ayodhya Soni through Chaurasia Gali Royal Chowk Gadewal Coaching again towards South from Ganesh chowk up to Durga chowk.

**SOUTH :-**

Starting from Durga chowk towards West through the house of Prakash Sahu in front of Power House Dattatray Mandir again towards South house of Vishwakarma again towards West up to Sen Samaj Mandir.

**WEST :-**

Starting from Sen Samaj Mandir through the house of Kanti Shrivastava to the house of Santosh Gokhale again towards East up to house of Prakash Bagde again towards West Chhapakhana Chowk again towards North shop of Khadigram Udyog in front of Pahade Medical.

**WARD NO.28 – DR. SHYAMA PRASAD MUKHARJEE WARD****NORTH :-**

Starting from the Panthela of Tahir situated at Old Bail Bazar chowk towards East up to the Hotel of Shivcharan Yadav Situated at Lalbagh chowk.

**EAST :-**

Starting from Hotel of Shivcharan Yadav situated at Lalbagh chowk towards South Seoni road beside Rajput Petrol Pump again through Seoni road up to East corner of Tilak Market Complex.

**SOUTH :-**

Starting from East corner of Tilak Market Complex towards South through Chhota Talab road Durga chowk again towards North culvert in front of Agrawal Complex again towards West up to the front portion of house of Rajesh Kushwaha situated on Karbala chowk road again towards South up to the House of Banshi Sahu at Royal Chowk.

**WEST :**

Starting from the House of Banshi Sahu at Royal Chowk towards North through Honey medical up to the Panthela of Tahir situated at Old Bail Bazar chowk.

**WARD NO.29 – PT. MADAN MOHAN MALVIYA WARD****NORTH :-**

Starting from the Rajpal chowk towards East including Patni Kanya Shala up to Budhwari Bazar chowk again towards South house of Tatu Gupta again towards East up to Pahade Medical.

**EAST :-**

Starting from Pahade Medical towards South up to Purana Chhapakhana chowk.

**SOUTH :-**

Starting from Purana Chhapakhana chowk the house of Manoj Chaurasia including the house of Bablu Kosthi towards South house of the Shyam Vishwakarma again towards West up to Majhi Samaj Mandir.

**West :-**

Starting from Majhi Samaj Mandir towards North through Kumhari Mohalla up to Rajpal chowk.

**WARD NO.30 – RAFI AHAMAD KIDWAI WARD****NORTH :-**

Starting from the front of District Jail towards East Through the Seoni Road up to Excise warehouse situated on Purana Bail Bazar Chowk.

**EAST :-**

Starting from Excise warehouse situated on Purana Bail Bazar Chowk towards South through Akabari Masjid road Old Tarachand Akhada up to the House of Shabbir bakshi Teacher situated Nice chowk.

**SOUTH :-**

Starting from the House of Shabbir bakshi Teacher situated Nice chowk towards West through the front of Raj Talkies including the whole populated area from Bhaiya Ji ki Dargah up to Main road near C.S.Complex.

**WEST :-**

Starting from Main road near C.S. Complex towards North through Seoni road up to District Jail.

**WARD NO.31 – CHHOTI MATA WARD****NORTH :-**

Starting from the Risala Masjid near Girls College towards East in front of Raj Talkies to Iqara Convent again towards North the house of Banshilal Sahu again towards East from Badi Masjid up to Royal Chowk.

**EAST :-**

Starting from Royal Chowk towards South Chaurasia Gali to road for house of Mullu Patel again towards North Imambada road Juncion again towards South Up to the house of Lakhan master Situated at Chuna Gali.

**SOUTH :-**

Starting from the house of Lakhan master Situated at Chuna Gali towards West Shanu Mobiles Situated on Main road again towards North through the main road the shop of Rajkumar Shukla again towards West including the Mission Taniganj School up to the shop of Amru Yadav in front of Suresh Medical on Budhwari road.

**WEST :-**

Starting from the shop of Amru Yadav in front of Suresh Medical on Budhwari road towards North through Mohbe Market road the house of Gunjikar including the whole populated area again towards West beside Veterinary Hospital up to Nagpur road again towards North to Bus stand Seoni road Fawvara chowk up to Risala Masjid near Girls College.



**WARD NO.32 – SANT TUKDOJI WARD****NORTH :-**

Starting from Police Kotwali towards East through road behind the Veterinary Hospital including the Sharan Bungla through Suresh Medical Mohbe Market up to Budhwari bazar chowk.

**EAST :-**

Starting from Budhwari bazar chowk towards South through the Patni Talkies the House of Advocate Shukla Rajpal chowk through Bararipura road including Patel colony up to culvert over nalah near middle of Church Compound and Patel Colony.

**SOUTH :-**

Starting from culvert over nalah near middle of Church Compound and Patel Colony through the nalah up to the nalah near Petrol Pump situated at Pola Ground.

**WEST :-**

Starting from the nalah near Petrol Pump towards North through Pola ground Main road up to Police Kotwali.

**WARD NO.33 – JYOTIBA FULE WARD****NORTH :-**

Starting from E.L.C. chowk towards East Through the nalah situated behind Petrol Pump up to krishna kirana in front of house of lalsingh patel situated at bararipura road.

**EAST :-**

Started from krishna kirana store in front of house of lalsingh patel situated at bararipura road towards south via mateshveri colony road via bhusan wadi through to govt. kachcha rasta including house of jaidev das up to last boundary of city.

**SOUTH :-**

Starting from the last South – East boundary of the city towards West nalah, through nalah up to the last South – West boundary of the city.

**WEST :-**

Starting from the last South – West boundary of the city towards North including the whole populated area of Koladhana Mata mandir road to main nagapur road in front of church along the boundary wall of the Church Compound up to E.L.C. chowk.

**WARD NO.34 – DURGA MATA MANDIR WARD****NORTH :-**

Starting from Bodari River Bridge situated at village Chandangaon towards East through the Bodari river up to the last North – West boundary of village Matkuli.

**EAST :-**

Starting from the last North – West boundary of village Matkuli towards South up to last South – East boundary of village Chandangaon.

**SOUTH :-**

Starting from last South – East boundary of village Chandangaon towards West through the Kulbahara River up to the last South – West boundary of farm of Munna Pawar.

**WEST :-**

Starting from the last South – West boundary of farm of Munna Pawar situated at Kulbahara River towards North through the Panchmadi Dhana road house of Yadav again towards East through the Nagpur road again towards North through the Nagpur road up to the Bodari river Bridge.

**WARD NO.35 – KULBAHARA WARD****NORTH :-**

Starting from the last West – North boundary of village Thunia Bhand towards East through the North – West boundary of village Sarra and Village Matkuli up to the last East – North boundary of village Matkuli.

**EAST :-**

Starting from the last East – North boundary of village Matkuli towards South up to the last East – South boundary of village Matkuli.

**SOUTH :-**

Starting from the last East – South boundary of village Matkuli towards West through the last boundary of village Matkuli, Imlikheda and village Thunia Bhand up to last South – West boundary of Thunia Bhand.

**WEST :-**

Starting from the last South – West boundary of Thunia Bhand towards North up to last West – North boundary of village Thunia Bhand.

**WARD NO.36 – BHARTADEV WARD****NORTH :-**

Starting from last North – West boundary of village Chandangaon situated at Guraiya Dev towards East through Thakredhana Road again towards South Panchmadi Dhana road again towards East up to the house of Yadav.

**EAST :-**

Starting from the house of Yadav situated on Panchmadi dhana road towards South through the road of Panchayat Bhavan up to last South – East boundary of village Chandangaon.

**SOUTH :-**

Starting from last South – East boundary of village Chandangaon through the Kulbahara river up to the last South – West boundary situated at the farm of Munna Pawar.

**WEST :-**

Starting from the last South – West boundary situated at the farm of Munna Pawar towards North through the Filter Plant Chandangaon, dhana road up to the last North – West boundary of Chandangaon situated at Guraiya Dev.



**WARD NO.37 – CHANDANNAGAR WARD****NORTH :-**

Starting from last North – West boundary village Chandangaon towards East through the Bhartadev road up to Nagpur road.

**EAST :-**

Starting from Nagpur road towards South up to the Shop of Chandrakant Patankar situated on Nagpur road.

**SOUTH :-**

Starting from the shop of Chandrakant Patankar towards West through Balak Prathamik shalato Bhartadev Road situated near the farm of Gajanand Choubitkar up to last West boundary of village Chandangaon.

**WEST :-**

Starting from the last West boundary of village Chandangaon towards North through the West boundary of Chandangaon up to last North – West boundary village Chandangaon.

**WARD NO.38 – SAMARTH RAMDAS WARD****NORTH :-**

Starting from the last West – North boundary of Village Lonia Karbal and Chandangaon towards East Bodari River situated at East boundary of Chhindwara and Village Chandangaon (In front of Judge colony) up to Bridge on Nagpur road.

**EAST :-**

Starting from Bridge on Nagpur road towards South through the Nagpur road Bhartadev up to the house of K.K. Mishra situated at Bhartadev Filter Plant road.

**SOUTH :-**

Starting from the house of K.K. Mishra situated at Bhartadev Filter Plant road towards West through Baraskari Mohalla road Guraiya Dhana up to Last South – West boundary of village Chandangaon .

**WEST :-**

Starting from Last South – West boundary of village Chandangaon towards North through the last West boundary of village Lonia karbal up to last North – West boundary of village Chandangaon.

**WARD NO.39 – SWAMI VIVEKANAND WARD****NORTH :-**

Starting from last West boundary of the city towards East the house of Baraskar towards North including the Civil Line again towards East through Bungalow E/2 Priyadarshani Park including Shukla Ground Janpad Office and Sabji Mandi up to the Hanuman Mandir in front of Post Office on Nagpur road.

**EAST :-**

Starting from the Hanuman Mandir in front of Post Office on Nagpur road towards South through the Nagpur road again towards East along the boundary of Church Compound up to the Bararipura road again towards South from Bararipura, Koladhana road up to the D.D.C. College boundary.



## · SOUTH :-

Starting from the Bodari nalah the last boundary of the city near the D.D.C. college boundary towards West nalah through the nalah up to Bodari nalah Patha.

## WEST :-

Starting from Bodari nalah Patha the last South – West boundary up to last North – West boundary of the city.

**WARD NO.40 – TATYA TOPE WARD**

## NORTH :-

Starting from the last North boundary of village Lonia Karbal towards East through the Soni Mohalla up to the Culvert in the corner of nalah situated behind Kamthi Vihar Colony of village Lonia karbal.

## EAST :-

Starting from the Culvert in the corner of nalah situated behind Kamthi Vihar Colony of village Lonia karbal towards South through the nalah up to the last East – South boundary of village Lonia Karbal.

## SOUTH:-

Starting from the last East – South boundary of village Lonia Karbal towards West up to the boundary of village Lonia Karbal.

## WEST :-

Starting from the South – West boundary of village Lonia karbal towards North up to the Last North – West boundary of village Lonia Karbal.

**WARD NO.41 – SHAHID MEJOR AMIT THENGE WARD**

## NORTH :-

Starting from last boundary of the city near Shakti Nagar Mandir towards East through the Shakti Nagar Main road including Banshi Dham D. P. Dehariya house of Chaurasia near Jain Mandir house of Nigam on collectorate road to Vidhay Sagar chowk through Jawaharshala road up to Statue of Makhanlal Chaturvedi situated in the Fawvara chowk Hindi Pracharini

## EAST:-

Starting from the Statue of Makhanlal Chaturvedi situated in the Fawvara chowk Hindi Pracharini towards south up to Irfan Kela Mandi.

## SOUTH :-

Starting from Irfan kela mandi towards west through road behind pani tanki and through the Janpad to DIC square again towards south including bangla no. E/1 of civil line again toward west the house of Lamba Sir situated at Devere Colony up to culvert over nala at choukse colony.

## WEST :-

Starting from the culvert over nala at choukse colony the last boundary of the city towards north through the nalah up to last west north boundary situated near Shakti Nagar Mandir.

**WARD NO.42-MAHAVEER WARD****NORTH :-**

Starting from the fouji cycle store on chhindwara parasia road towards east through the Ambedkar Tiraha on village Parasia chhindwara road up to Jail Tiraha Indira Pratima.

**EAST :-**

Starting from Jail Tiraha Indira Pratima towards South up to the shop of Nirbhay Jewellers Situated at Fawvara chowk.

**SOUTH :-**

Starting from the shop of Nirbhay Jewellers Situated at Fawvara chowk towards West Vidhya sagar chowk to Jawahar shala road to collectorate road again towards East beside National Electric refrigeration again towards West up to the house of Kapale Behind Jain Mandir.

**WEST :-**

Starting from the house of Kapale Behind Jain Mandir towards North through the front of house of Madhukar Thenge Ji the house of Dariyapurkar again towards East up to the house of Lomesh Jain again towards North up to the House of Santosh Sahu again towards East up to the house of Bhoyer through Gulabara Main road again towards North Fouji Cycle Store on Parasia road.

**WARD NO.43-SHASHTI MATA MANDIR WARD****NORTH :-**

Starting from the Noori Kirana in front of Moti Masjid on Gulabara Main road towards East padey kirana again towards north through the back of pooja lodge again towards east culvert over Moya nala on parasia road to nala through the nala up to house of Soninear culvert at Mohan Nagar Nai Abadi.

**EAST :-**

Starting from house of Soni near culvert at Mohan Nagar Nai Abadi towards south house of Sarathe again towards west through the house of Ramesh Sarwan again towards south the road in front of Prakash Madwani through front of Law Collage up to Adiwasi Chhatrawas again towards east Khajri road again towards south up to the statue of Amit Thenge.

**SOUTH :-**

Starting from the statue of Amit Thenge towards west through the main road up to Jail Tiraha Indira Pratima.

**WEST :-**

Starting from Jail Tiraha Indira Pratima towards north through chhindwara parasia road including Satkar Lodge Compound and Pankej Talkese area up to Manish Baidhmutha Complex in front of Barman farm again towards west up to the house of D.C.Deshmukh again towards north Noori Kirana in front of Moti Masjid on Gulabara Main road.

**WARD NO.44- PANDIT JAWAHERLAL NEHRU WARD****NORTH :-**

Starting from Moya Nala situated on parasia road towards east road behind Pooja Lodge through the house of Jaan Mohammad situated at Gulabara Main Road up to Rai Building.

**EAST :-**

Starting from Rai building situated at Gulabara main road towards south the house of Dinesh Malvi again towards east house of Arun Jain again towards south up to the house of Jitendra Dehrwal.

**SOUTH :-**

Starting from the Jitendra Deharwal towards west through the road for Park to nala through the nala up to last boundary of Chhindwara city and Loniya Karabal.

**WEST :-**

Starting from the last boundary of Chhindwara city and Lonia Karabal towards north through the nala up to Moya nala situated Chhindwara Parasia road.

**WARD NO.45—MAHARSHI VALMIKI WARD****NORTH :-**

Starting from Railway line the last West - North boundary of village Lonia Karabal towards East up to the Railway crossing the last boundary of village Lonia karabal situated on chakkar road.

**EAST :-**

Starting from the Railway crossing the last boundary of village Lonia karabal situated on chakkar road towards South up to I.B. Bungalow on Parasia road again towards East culvert over nalah near Pooja Lodge again towards South up to the culvert over corner of the nalah behind Kamthi Vihar colony.

**SOUTH :-**

Starting from the culvert over corner of the nalah behind Kamthi Vihar colony towards West through Soni Mohalla to Mali Mohalla up to the last boundary of village Ionia karabal situated at village Partala.

**WEST :-**

Starting from the last boundary of village Ionia karabal situated at village Partala towards North through the last boundary of village Ionia karabal up to the Railway line the last West - North boundary of village Lonia Karabal.

**WARD NO.46—SANT JHULELAL WARD****NORTH :-**

Starting from the Pole factory on Parasia road towards East through the Circuit House road up to the S.A.F Railway crossing along the Railway line up to the T.B. Sanatorium Railway crossing.

**EAST :-**

Starting from the T.B. Sanatorium Railway crossing towards South through Khajri road up to the transformer behind Mansarovar Complex.

**SOUTH :-**

Starting from the transformer behind Mansarover Complex towards West up to the Ghai ki Tal situated at Employees Union complex.

**WEST :-**

Starting from the Ghai ki Tal situated at Employees Union complex towards North including Land Development Bank through law college road the house of Ashok Madhvani again towards East the house of Mukesh Sarvan to house of Suresh Lok again towards North through Cement road up to Mohan nagar Nai aabadi culvert again towards West nalah again through nalah up to Moya Nalah on Parasia road again towards North up to Pole Factory on Parasia road.

**WARD NO.47-- PANDIT MAKHANLAL CHATURVEDI WARD****NORTH :-**

Starting from West – North Boundary of village Ionia Karabal towards East up to last North – East boundary of village Lonia Karabal.

**EAST :-**

Starting from the last North – East boundary of village Lonia Karabal towards South up to Railway crossing on chakkars road the last boundary of village Ionia Karabal.

**SOUTH :-**

Starting from the Railway crossing on chakkars road the last boundary of village Ionia Karabal towards West through the Railway line up to last West -South boundary of village Lonia Karabal the situated at the house of Anusuiya Uikey.

**WEST :-**

Starting from the last West – South boundary of village Lonia Karabal the situated at the house of Anusuiya Uikey towards North up to West – North boundary of village Lonia Karabal.

**WARD NO.48--PANCHAVATI WARD****NORTH :-**

Starting from last North – West boundary of village Poama towards East through the North boundary of Village Poama up to last North –East boundary of village Poama.

**EAST :-**

Starting from the last North –East boundary of village Poama towards South through the East boundary of village Poama up to Parasia road again towards East through Parasia road again towards North Railway line Again toward East through Railway line up to boundary of village Ionia Karabal again towards South through last East boundary of village Poama up to last South – East boundary of village Poama.

**SOUTH :-**

Starting from the last South – East boundary of village Poama towards West through last boundary of Poama up to last South –West boundary of village Poama.

**WEST :-**

Starting from the last South –West boundary of village Poama through the West boundary of village Poama up to last North – West boundary of village Poama.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. MATHUR, Commissioner.

## कार्यालय, कमिशनर, जबलपुर संभाग, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2014

पत्र क्र. 349-स्था.-निर्वा.-2014.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, आर. के. माथुर, कमिशनर, जबलपुर संभाग, जबलपुर, नगरपालिक निगम, जबलपुर के वार्डों का परिसीमन (विस्तार) नीचे दी गयी अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता हूँ :—

( गत् जनगणना के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार )

प्रस्तावित वार्ड का क्रमांक	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	जनसंख्या (अनुसूचित जन जाति)
1	2	3	4	5
1	गढा	16624	1318	653
2	स्वामी वीरेन्द्र पुरी	17485	3251	841
3	त्रिपुरी	16124	3600	943
4	शंकरशाह नगर	17555	3070	699
5	सरदार वल्लभ भाई पटेल	17480	1851	997
6	इंदिरा गांधी	17480	1724	421
7	वीर सावरकर	17220	1664	590
8	ग्वारीघाट	17559	2868	1434
9	दादा बाबूराव परांजपे	17564	4434	1081
10	गुप्तेश्वर	17520	935	627
11	गिरिराज किशोर कपूर	16349	1940	727
12	जार्ज डिसिल्वा	14177	1941	599
13	पं. बनारसी दास भनोत	15063	1871	805
14	नरसिंह	16208	1722	1518
15	मदनमहल	17479	2275	1297
16	महाराणा प्रताप	16299	2277	695
17	रानी दुर्गावती	17422	3412	584
18	शहीद गुलाब सिंह	17444	1678	809

1	2	3	4	5
19	कमला नेहरू नगर	17448	765	865
20	कर्स्टूरबा गांधी	14765	1492	615
21	स्वामी विवेकानंद	17445	1235	980
22	जवाहर गंज	17489	752	115
23	लोक. बालगंगाधर तिलक	13666	1551	46
24	हनुमानताल	14087	214	30
25	महात्मा गांधी	13117	785	105
26	गोविंद वल्लभ पंत	13931	690	94
27	चेरीताल	14821	2000	201
28	जयप्रकाश नारायण	15275	1218	168
29	डॉ राममनोहर लोहिया	13258	3636	422
30	पं. दीनदयाल उपाध्याय	13252	1333	968
31	राजीव गांधी	13888	1306	180
32	सुभद्रा कुमारी चौहान	14139	424	327
33	स्वामी दयानंद सरस्वती	13401	595	240
34	पं० भवानी प्रसाद तिवारी	13201	412	130
35	महाराजा अग्रसेन	15418	1358	674
36	मौलाना अबुल कलाम आजाद	13567	491	8
37	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	13504	523	60
38	पं० मोतीलाल नेहरू	13409	821	276
39	चितरंजनदास	13412	466	100
40	डॉ. जाकिर हुसैन	15977	6	—
41	संजय गांधी	15821	50	5
42	नेताजी सुभाषचंद्र बोस	14665	2300	648
43	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी	15466	3873	2290
44	आचार्य विनोबा भावे	13384	3967	402
45	शीतलामार्झ	17330	3131	282
46	पं. द्वारका प्रसाद मिश्र	13630	2405	344

1	2	3	4	5
47	सेठ गोविंददास	13575	3173	575
48	सिद्धबाबा	13672	3953	470
49	लाल बहादुर शास्त्री	16156	773	5
50	ठक्करग्राम	16287	3993	9
51	रविन्द्रनाथ टैगोर	15886	620	5
52	पं. मदनमोहन मालवीय	13307	3730	157
53	महर्षि अरविंद	17222	9332	640
54	पं. जवाहरलाल नेहरू	15010	3725	935
55	खेरमाई	15005	3727	220
56	शहीद अब्दुल हमीद	14486	1008	260
57	महर्षि महेश योगी	13501	481	300
58	सर्वपल्ली राधाकृष्णन	16436	8807	255
59	शहीद अशफाक उल्ला खौ	14532	18	—
60	निर्मलचंद्र जैन	14211	733	1153
61	दीवान आधार सिंह	13466	1175	783
62	डॉ. भीमराव अंबेडकर	14981	4045	1469
63	शहीद भगत सिंह	14297	3838	1745
64	महर्षि सुदर्शन	14641	3580	2362
65	सुभाष चंद्र बैनर्जी	16230	1347	702
66	रानी लक्ष्मीबाई	16353	5037	1718
67	वीरांगना रानी अवंतीबाई	17503	2614	1175
68	गोकलपुर	14851	2160	1422
69	चंद्रशेखर आजाद	15034	2214	490
70	लाला लाजपतराय	13101	1077	2472
71	नया वार्ड	13153	2375	1611
72	नया वार्ड	15521	2445	1161
73	नया वार्ड	14452	2531	1106
74	नया वार्ड	13690	2334	1226
75	नया वार्ड	17135	2226	3258
76	नया वार्ड	17195	1669	1540
77	नया वार्ड	16410	1617	2507
78	नया वार्ड	14349	3960	1779
79	नया वार्ड	13140	1583	1645
		1206606	171530	61050

आर. के. माथुर, आयुक्त,  
जबलपुर संभाग, जबलपुर, केम्प सागर.

## कार्यालय, कमिशनर, जबलपुर संभाग, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2014

पत्र क्र. 349-स्था.-निर्वा.-2014.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, आर. के. माशुर, कमिशनर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के बार्डों का परिसीमन (विस्तार) नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता हूँ :—

### चर्तुसीमा विवरण

#### वार्ड क्र. 01 गढ़ा

उत्तर — मध्य रेलवे लाइन गढ़ा कछपुरा बसहा मार्ग के तिमेडे के पास नगर निगम की पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर मध्य रेलवे लाइन के साथ—साथ भूलन चौकी के पास जे.डी.ए. योजना क्रमांक-6 के 60 फीट मार्ग के संगम तक।

पूर्व — रेलवे लाइन एवं जबलपुर विकास प्राधिकरण की 60 फीट मार्ग के सहारे शाही तलैया होकर दुर्गा कालोनी मार्ग के संगम तक तथा शाहीनका भेनरेड के सहारे दक्षिण की ओर शाहीनका मार्ग के साथ—साथ गिदरोनिया के पूर्व की रुड़क के साथ—साथ पुराने थाने मार्ग के संगम गढ़ा पुराना मार्ग के संगम तक।

दक्षिण — गढ़ा मार्ग पुराने थाने के पास मार्ग के संगम से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर गढ़ा मुख्य मार्ग के सहारे पंडा मढिया तक। पंडा मढिया से गंगानगर जाने वाले मार्ग के संगम तक वहां से उत्तर की ओर नवनिवेश कालोनी के बीचोंबीच मार्ग के सहारे गंगानगर कालोनी मार्ग के संगम तक, वहाँ से पश्चिम की ओर बकसेरा तालाब की ओर जाने वाले मार्ग के साथ—साथ बकसेरा तालाब के उत्तर में जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत नवनिर्मित भवनों के पूर्व सावित्री के मकान तक।

पश्चिम — जनगणना मकान नं. 2837 से 2847 साई पान सेंटर से होते हुए म.नं. 2912 चरणलाल चकवर्ती म.नं. 2957 खुली भूमि से रेलवे लाइन तक

#### वार्ड क्र. 02 स्वामी वीरेन्द्रपुरी

उत्तर — गंगानगर में इंजी. नामदेव के भवन के सामने से रानीदुर्गावर्ती स्कूल होते हुये पूर्व की ओर गंगानगर मोड़ मेन रोड इमरती तालाब से पंडा की मढिया के सामने का पश्चिमी भग एवं दक्षिण की ओर का भग गढ़ा बाजार मार्ग के साथ—साथ नगर निगम कार्यालय के सामने से होकर मकान नं. 01 कक्षप के मकान तक।

पूर्व — पुराने गढ़ा थाने के सामने श्री कक्षप के मकान से हितकारिणी स्कूल तक। वहाँ से राज्यीय राज्य मार्ग से पूर्व की ओर मार्ग के साथ—साथ सूपताल तालाब के सामने कबिस्तान के पूर्व की बाउन्डी से होकर दक्षिण की ओर मार्ग के सहारे मदनमहल दरगाह को जाने वाले मार्ग के मध्य से मौजा बदनपुर एवं महाराजपुर की सीमा तक।

दक्षिण — ग्राम बदनपुर एवं महाराजपुर की सीमा के सहारे पश्चिम की ओर कच्चे संग्राम सागर मार्ग के साथ—साथ पिसनहारी मढिया की उत्तरी बाउन्डी की सीमा के सहारे पश्चिम की ओर गैचीनाथ मढिया की एवं पिसनहारी मढिया की सीमा के सहारे राष्ट्रीय राज्य मार्ग 07 के संगम से व्यासी मार्ग के सामने तक।

**पश्चिम** — एनएच. 7 एवं थारी मार्ग संगम से होते हुये मेडीकल व्हार्टर होते हुये सर्वेट व्हार्टर से पुरवा रोड जंक्शन से त्रिष्णि होटल से उत्तर की ओर गंगा सागर में इंजीनियर नामदेव के सामने वाले मकान तक

#### वार्ड क्रं. 03 त्रिपुरी

**उत्तर** — भेड़ाघाट मार्ग पर नगर निगम की पश्चिमी सीमा से पूर्व की ओर भेड़ाघाट मार्ग के साथ—साथ धनवंतरी नगर चौक संगम से नई भेड़ाघाट मार्ग के साथ—साथ एन. एच. 7 के संगम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति ख्यल मेडीकल कालेज बाउंड्रीवाल सड़क मध्य तक।

**पूर्व** — नेताजी सुभाषचंद्र बोस मूर्ति ख्यल एन. एच. 07 सड़क मध्य से सगड़ा तिराहा बरगी हिल्स होते हुये सड़क मध्य से नर्मदा नदी तक।  
दक्षिण — नर्मदा नदी तिलवाराघाट के पुराने पुल मार्ग के मध्य पश्चिम की ओर नदी के साथ—साथ समनारा ग्राम की दक्षिणी—पश्चिमी सीमा के कोने तक।

**पश्चिम** — नगर निगम की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी के पास में रमनगरा ग्राम के दक्षिण पश्चिमी कोने से प्रांतम होकर उत्तर की ओर उसी सीमा के साथ—साथ बाल सागर तालाब के उत्तरी पश्चिमी कोने पर स्थित भेड़ाघाट मार्ग संगम तक।

#### वार्ड क्रं. 04 शांकरशाह

**उत्तर** — पश्चिमी सीमा के एम.पी.एस.इ.बी. वॉटर टैंक को जाने वाले मार्ग के सधि क्षेत्र से पूर्व दिशा की ओर शिवाजी नगर के पीछे से होते हुए आदिवासी छात्रावास बूज मोहन नगर छापर बस्ती के बीच से होकर जाने वाले मार्ग का दाहिनी ओर का हिस्सा जो आगे चलकर गोयल फर्नीचर से जलपरी एम.पी.एस.इ.बी. की को जोड़ने वाले मार्ग का दाहिना हिस्सा एवं सहकार नगर के पीछे से होते हुए केशरवानी होटल आजाद चौक का दाहिना हिस्सा।

**पूर्व** — रामपुर आजाद चौक से रेल्वे लाईन के सहारे प्रांतम होकर पश्चिम की ओर रेल्वे लाईन के पास आदर्श नगर परफेक्ट पाटरी होते हुये रेल्वे लाईन के सहारे दक्षिण की ओर शाहनाला खंदारी नाले के संगम तक।

**दक्षिण** — रेल्वे लाईन और खंदारी नाले के संगम से खंदारी नाले के सहारे होते हुए वार्ड क्रं.05 सरदार बल्लभ भाई पटेल वार्ड की पूर्वी सीमा के संगम तक।

**पश्चिम** — खंदारी नाला और सरदार बल्लभ भाई पटेल वार्ड क्रं.05 की पूर्वी सीमा के संगम से होते हुए एम.पी.एस.इ.बी.वॉटर टैंक की ओर जाने वाले मार्ग के संगम तक।

**वार्ड क्रं. 05 सरदार बल्लम भाई पटेल**

**उत्तर** – पिसनहारी की मटिया से पूर्व दिशा की ओर स्थित पहाड़ी क्षेत्र को पार करते हुए महल वार्ड की दक्षिणी पहाड़ी सीमा तक से एम.पी.एस.ई.बी. के पौवर हाउस के पीछे से होते हुये पूर्व दिशा की ओर नया गोव हॉटसिंग सोसायटी के पीछे से होते हुए जलपरी के सामने स्थित बस्ती विजय नगर से दक्षिण दिशा छापर की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित गोथल फर्नीचर्स की दुकान तक ।

**पूर्व** – आजाद चौक से छापर जाने वाले मार्ग पर स्थित गोथल फर्नीचर्स दुकान के दायें हिस्से का भाग जो कि छापर मार्ग से होता हुआ रीवा कालोनी सिद्धनाथ अदिवासी छात्रावास, शिवाजी नगर से होते हुये दक्षिण की ओर ललपुर ग्राम के मध्य से जाने वाले मार्ग से होते हुये नर्मदा नदी के टट तक ।

**दक्षिण**— नर्मदा नदी की पूर्वी सीमा से पश्चिम दिशा की ओर पुराने तिलवाराघाट के पुल तक दौहिने हाथ का हिस्सा ।

**पश्चिम** – पुराने तिलवाराघाट पुल के मुख्य मार्ग के दौहिने हिस्से से शाहनाला होते हुए बरगी हिल्स कालोनी, बाजनामठ, नेहरू नगर, पिसनहारी की मटिया मुख्य मार्ग का दौहिना हिस्सा ।

**वार्ड क्रं. 06 इंदिरा गांधी**

**उत्तर** – गुलौआ चौक से गौतम जी की मटिया से डॉ. मुकर्जी के सामने तावर पश्चिम की ओर गुलमोहर पार्क के आगे रेल्वे लाईन के सहारे जे डी ए स्कॉम नंबर 06 के प्लाट कं 1082 से 1122 तक संजीवनी नगर मुख्य मार्ग से शाहीनाका रोड एवं संजीवनी नगर रोड के संगम से शाहीनाका की ओर महेश नाला के संगम तक ।

**पूर्व** – गुलौआ चौक से शुवला नगर मार्ग के साथ – साथ कर्नल शुवला के मकान के सामने से होते हुए एकता चौक तक ।

**दक्षिण** – एकता चौक से पश्चिम की ओर गंगासागर चुगी चौकी से दक्षिण की ओर गंगासागर शारदा चौक सड़क मध्य से पीली बिल्डिंग के पहले पंचमठा मंदिर के पीछे से होते हुये हितकारिणी कन्थाशाला बी.टी. तिरहा रोड पेट्रोल पम्प के संगम तक बी07टी. तिरहा चौक होते हुये डॉ. रामगोपाल गुप्ता के सामने से आनंद कुंज तिरहा से पुराना गढ़ा पुलिस चौकी के रोड के संगम तक ।

**पश्चिम** – पुराना गढ़ा पुलिस चौकी से पूर्व की ओर गढ़ा मुख्य मार्ग के संगम से प्रांतम होकर गढ़ा स्कूल के पीछे से होते हुए महेरा नाला एवं शाहीनाका मार्ग के संगम तक ।

**वार्ड क्रं. 07 वीर सावरकर**

**उत्तर** – जे.डी.ए. योजना क्रमांक 06 संजीवनी रेल्वे लाईन के सामने प्लाट नं. 976 श्री लक्ष्मीकांत देशपांडे से सड़क एवं रेल्वे लाईन के साथ–साथ गढ़ा रेल्वे कासिंग गुलौआ होते हुये रेल्वे लाईन से पूर्व की ओर आडटर सिंगल के पास तक

**पूर्व** – आउटर सिंगल के पास सुदामा नगर से कालीमठ मंदिर के सामने से अमनपुर नाला एवं रेल्वे लाईन के संगम से दक्षिण की ओर नाला के साथ-साथ कालीमठ मंदिर के सामने से नरसिंह वार्ड की सीमा से होते हुये जायसवाल के मकान के सामने सीमेन्ट रोड के सहारे म. नं. 616 से होते हुये पश्चिम की ओर नवीन ट्रेडर्स के सहारे मार्ग के साथ-साथ केशव शॉ मिल पोल नं. ए. एस. 18/4 से होते हुये गंगा सगर मार्ग तालाब के सामने कृष्णा टिम्बर मार्ट के संगम तक।

**दक्षिण** – गंगासगर मार्ग कृष्णा ट्रेडर्स टाल मार्ग से प्रारंभ होकर मार्ग संगम से पश्चिम की ओर गंगासगर मार्ग के साथ शुक्ला नगर होते हुये गुलौआ चौक तक वहाँ से पश्चिम की ओर गोतम जी की मढिया के सामने से पटेल रस्तीदस होते हुये हम सिंह ठाकुर के भवन के पास लगे टावर के पास शिवम उद्यानिकी भवन तक।

**पश्चिम** – शाहीनाका मेन रोड टॉवर के पास शिवम उद्यानिकी से उत्तर की ओर वसुधरा परिसर भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण होते हुये गुलमोहर पार्क होकर संस्कार निकेतन बारत घर होकर प्लाट नं. 897 चंद्रकांत चौबे से पूर्व की ओर प्लाट नं. 925 बिलधरे के मकान से उत्तर की ओर नेयर से पश्चिम की ओर एवं प्लाट नं. 976 लक्ष्मीकांत देशपांडे के भवन रेल्वे लाईन तक।

#### वार्ड क्र. 08 गवरीघाट

उत्तर – रेल्वे लाईन के किनारे परफेक्ट पाटरी की बाउन्ड्रीवाल से होते हुये साऊथ एवेन्यू माल के किनारे स्थित बाउन्ड्री (जलकुंड) से गवरीघाट मुख्य मार्ग होते हुये सामने स्थित बागडा दफाई बस्ती में खेरमाई मंदिर होते हुये राज्य वन अनुसंधान की बाउन्ड्री तक।

**पूर्व** – बागडा दफाई से राज्यवन अनुसंधान की बाउन्ड्री से लगकर पूर्व से दक्षिण दिशा की ओर रिथत मुख्यसागर वैली, खंदारी नाला कास करते हुये बिलहरी ग्राम की पश्चिमी सीमा के संगम से छेवला ग्राम की सीमा से भटोली ग्राम की सीमा से होते हुये दक्षिण की ओर भटोली ग्राम की सीमा स्थित नर्मदा नदी के तट तक।

**दक्षिण** – नर्मदा तट ललपुर ग्राम से रेल्वे फिल्टर प्लाट से खारीघाट, दरोगाधाट, खारीघाट मुख्यधाट, जिलहरी घाट, इमशान घाट से भटोली ग्राम की सीमा तक।

**पश्चिम** – नर्मदा तट ललपुर ग्राम की पूर्वी सीमा से उत्तर दिशा की ओर खंदारी नाला शाहनाला के संगम से खंदारी नाला से होते हुए उत्तर की ओर रेल्वे लाईन के दौँथी ओर स्थित नर्मदा नगर पी.पी. कालोनी स्थित परफेक्ट पाटरी की बाउन्ड्री तक।

#### वार्ड क्र. 09 दादा बाबूराव परांजपे

उत्तर – शक्ति भवन मुख्य मार्ग स्थित रेल्वे गेट से रामपुर चौराहे स्थित जी. आर.सी. बाउन्ड्री वाल तक।

**पूर्व** – रामपुर चौराहे से दक्षिण की ओर गवरीघाट मार्ग पर जी. आर. सी. से बाउन्ड्री के किनारे पंचशील नगर टैगोर नगर मोदी कालोनी होते हुये राज्य वन अनुसंधान की सीमा से दक्षिण दिशा की ओर बागडा दफाई की पूर्वी हिरसे से वार्ड की सीमा तक।

**दक्षिण** – राज्य वन अनुसंधान की बाउन्ड्री से लगा हुआ बागडा दफाई क्षेत्र से पूर्वी भाग से आवासीय परिसर गवरीघाट मुख्यमार्ग कास करते हुये पश्चिम की ओर साउथ एवेन्यू मॉल के बाजू स्थित बाबली (जलकुंड) से होते हुये परफेक्ट पाटरी की बाउन्ड्री से सटकर पाश्चिम की ओर स्थित।

**पश्चिम** — साउथ एवेन्यु मॉल के दक्षिण दिशा स्थित बाजू में बाउन्सी (जलकुड़) से परफेक्ट पाटरी के पीछे स्थित रेल्वे लाइन के पूर्व हिस्से के सहारे शाहनाला आदर्श नगर से बेन मोहल्ला होते हुये मुख्य बिहार से धूमकर शक्ति भवन के मुख्य मार्ग तक।

### वार्ड क्रं. 10 गुप्तेश्वर

**उत्तर** — राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 7 प्रेमनगर पोस्ट ऑफिस के पास से आमनपुर जाने वाले मार्ग के संगम से प्रारम्भ होकर उत्तर पूर्व की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 7 के साथ-साथ मदन महल चौराहा पार करके महानददा के पूर्व मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 7 के संगम तक।

**पूर्व** — राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 7 एवं महानददा से पूर्व की ओर के मार्ग के संगम से पूर्वी मार्ग के साथ-साथ दक्षिण की ओर नाला पार कर हाथीताल रेल्वे कासिंग से होते हुये हाथीताल मार्ग हाउसिंग बोर्ड ऑफिस होते हुये दक्षिण की ओर मकान नं. 1021 श्रीमति भगवती बाई यादव (नर्मदा भवन) तक।

**दक्षिण** — नेरोगेज छोटी लाइन के मध्य संगम मार्ग से प्रारंभ होकर मकान नं. 1021 श्रीमति भगवती बाई यादव (नर्मदा भवन) के मकान से पश्चिम की ओर जाने वाले मार्ग के साथ-साथ शमशान घाट होते हुये साहू किराना के बाजू से दक्षिण की ओर बूढ़ी खेरमाई मंदिर होते हुए (सड़क का पूर्वी हिस्सा) गुप्तेश्वर मंदिर मुख्य मार्ग तक। मरिता ट्रेलर्स (सड़क का पूर्वी हिस्सा) डॉ. भद्रोरिया होते हुए एम.जी.एम. स्कूल रेलवे लाइन केंटोमेंट सीमा खंभा नं. 131 तक। गुप्तेश्वर चौक कृष्णल कास कर डॉ. कमला गुप्ता के आगे से जो प्रेम नगर पोस्ट ऑफिस से मुड़ती है एन. एच. 7 मार्ग वहाँ तक।

**पश्चिम** — डॉ. कमला गुप्ता रोड एवं प्रेमनगर पोस्ट ऑफिस मार्ग के संगम (पोस्ट आफिस चर्च के पास) से होते हुये प्रेमनगर पोस्ट ऑफिस से पासने एन.एच. 7 नागपुर मुख्य मार्ग एवं प्रेमनगर पोस्ट ऑफिस के संगम तक।

### वार्ड क्रं. 11 गिरिराज किशोर कपूर

**उत्तर** — हाथीताल मार्ग पर मदनमहल वार्ड की पूर्वी सीमा के संगम से पूर्व की ओर मकान नं. 1837 डॉ. कमला गुप्ता के मकान के आगे एवं कृपाल चौक से होते हुए शमशानघाट मुख्य मार्ग स्थित साहू किराना तक।

**पूर्व** — शमशानघाट मुख्य मार्ग स्थित साहू किराना के बाजू से सड़क का पश्चिमी हिस्सा बूढ़ी खेरमाई होते हुए गुप्तेश्वर मंदिर मुख्य मार्ग से पूर्व की ओर उत्तर-पूर्व रेल्वे की लाइन को काटती है। वहाँ दक्षिण की ओर दक्षिण-पूर्व रेल्वे के साथ-साथ एम.पी.ई.बी. को जाने वाले मार्ग के संगम तक।

**दक्षिण** — रामपुर छोटी लाइन फाटक एम.पी.ई.बी. शक्ति भवन को जाने वाले मुख्य मार्ग के सहारे एफ.सी.आई. गोदाम से नेशनल कालोनी के सामने से होते हुये मार्ग के साथ-साथ पश्चिम की ओर नगर निगम संभागीय कार्यालय संभाग कमांक— 3 रामपुर तक।

**पश्चिम – नगर निगम संभागीय कार्यालय संभाग कमांक– 3 रामपुर से उत्तर की ओर सैनिक कालोनी आने वाले मार्ग के साथ–साथ शहीद गुलाब सिंह वार्ड की पूर्वी सीमा के संगम तक तथा उत्तर पूर्व की ओर भोले बाबा कुटी से होते हुये शिवित नगर कोयला खान भविष्य निधि कार्यालय से होते हुए मकान के मकान प्रजापति के मकान के आगे मुख्य मार्ग पर बने नाले के कासिंग के साथ–साथ गुप्तेश्वर वार्ड की दक्षिण–पश्चिम सीमा तक।**

### वार्ड क्र. 12 जार्ज डिसिल्वा

**उत्तर – मध्य रेल्वे लाइन शास्त्रीपुल से प्रारम्भ होकर उसी लाइन के साथ–साथ पूर्व की ओर गोरखपुर से आगे वाले कच्चे नाले पर स्थित मध्य रेल्वे लाइन पुल तक जो खंडेलवाल के बंगले के पश्चिम के तरफ हैं।**

**पूर्व – कच्चा नाला, मध्य रेल्वे लाइन से पुल से प्रारंभ कर दक्षिण की ओर नाले द्वारा दक्षिण पूर्व रेल्वे लाइन को पार कर खंडेलवाल के बंगले के पश्चिमी सीमाओं के साथ–साथ पूर्व की ओर फिर कटंगा मार्ग के साथ–साथ दक्षिण की ओर केन्टमेन्ट की सीमा के खम्मा नं. 115–ए तक जो नर्मदा मार्ग पर स्थित साथुर इस्टर्न रेल्वे रेस्ट हाउस के दक्षिण पश्चिमी कोने पर है।**

**दक्षिण – नर्मदा मार्ग पर स्थित केन्टमेन्ट सीमा के खम्मा नं. 115–ए से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर कपूर चौक होते हुए केन्टमेन्ट खम्मा नं. 11 के सामने पहिला चिरौजीलाल शर्मा के बंगले को जाने वाली कुलिया के साथ–साथ पंडित चिरौजीलाल शर्मा तथा आर गोपाल के बंगले के बीच से होते हुए नथूमल धर्मशाला के पूर्व मार्ग की ओर पश्चिम की ओर ईसाई मोहल्ला कुमार मोहल्ला होते हुए, श्री तोमर सिंह के मकान से श्री अरुण सिंह गौर के मकान तक त्रिमूर्ति कला मंदिर तिराहा होते हुये शारदा टाकिज गोरखपुर प्रमुख मार्ग के संगम तक बहों से प्रमुख मार्ग द्वारा पश्चिम की ओर गवारीघाट मार्ग पर मिलता गैस एजेंसी के पश्चिम मार्ग के संगम तक।**

**पश्चिम – गवारीघाट मार्ग दक्षिण पूर्व रेल्वे लाइन के फाटक से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर उसी मार्ग के साथ–साथ मध्य रेल्वे लाइन पर स्थित शास्त्री पुल तक।**

### वार्ड क्र. 13 पं. बनारसी दास भनोत

**उत्तर – महानदी के पूर्व मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक– 7 के संगम से पूर्व की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक– 7 के साथ–साथ छोटी लाइन फाटक तक। नगर निगम संभागीय कार्यालय से शारदा टाकीज के पास से शांख पान दुकान से दक्षिण की ओर त्रिमूर्ति कला मंदिर से नर्मदा रोड संगम तक।**

**पूर्व – त्रिमूर्ति कला मंदिर के सामने से जयराज आठा चक्री से केसर सिंह के मकान के सामने सरकारी कुंआ होते हुए मकान नं. 1904 महावर दुकान से ईसाई मोहल्ला होते हुए सतगुरु अर्पाटमेन्ट के पीछे मकान नं. 1918 मदासी के मकान तक। चिरौजी लाल शर्मा के बंगले से होते हुये दक्षिण की ओर कुलिया के साथ–साथ नर्मदा मार्ग पर स्थित केन्टमेन्ट सीमा के खम्मा कमांक– 111 के आगे नर्मदा रोड पर स्थित मिलता गैस एजेंसी की पश्चिमी सीमा तक।**

**दक्षिण** — नर्मदा रोड रिथर केन्टोमेन्ट खंभा नं. 111 से प्रारंभ होकर उसी सीमा के साथ—साथ दक्षिण की ओर खंभा नं. 110,109,108,107,106,105,104,103,102,101,100,99,98,97,96 तक वहाँ से पश्चिम की ओर गवारीधाट मार्ग पर केन्टोमेन्ट खंभा नं. 95 तक फिर उत्तर की ओर केन्टोमेन्ट उसी सीमा के साथ—साथ सी.बी. खंभा नं. 94,93,92,91,90,89,88 होते हुये पश्चिमी की ओर केन्टोमेन्ट खंभा नं. 87 तक जो दक्षिण पूर्वी रेल्वे लाईन पर स्थित है।

**पश्चिम** — खंभा नं. 87 से उत्तर की ओर दक्षिण पूर्व रेल्वे के साथ—साथ हाथीताल रेल्वे कासिंग तक वहाँ से हाथीताल कालोनी जाने वाले मार्ग पर स्थित नाला के साथ—साथ लक्ष्मी कालोनी होते हुये उत्तर और ककरहाई तलेया की ओर जाने वाले मार्ग के साथ—साथ नाला पार कर महानदा के पूर्व की ओर से होते हुये राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक- 7 के संगम तक।

#### वार्ड क्रं. 14 नरसिंह

**उत्तर** — मध्य रेल्वे लाईन मदन महल आउटर सिंगनल के पास आमनपुर वाले नाले के संगम से पूर्व की ओर मध्य रेल्वे लाईन के साथ—साथ मदन महल स्टेशन होते हुए शास्त्री पुल तक।

**पूर्व** — मध्य रेल्वे लाईन के पास बने शास्त्री पुल से प्रारंभ होकर गवारीधाट की ओर वाले मार्ग के द्वारा दक्षिण की ओर दक्षिण पूर्वी रेल्वे लाईन फाटक के पास राष्ट्रीय के संगम तक।

**दक्षिण** — राष्ट्रीय मार्ग 7 दक्षिण पूर्वी रेल्वे लाईन फाटक के पास गवारीधाट मार्ग के संगम से प्रारंभ होकर राष्ट्रीय मार्ग 7 के साथ—साथ पश्चिम की ओर मदन महल चौराहा पार कर प्रेमनगर पोस्ट ऑफिस के आगे सिंह धर्मकांठा के सामने कौशल्या खाजा से एल.आई.सी. कालोनी लेते हुये गंगा सागर मार्ग के संगम शिव मंदिर तक।

**पश्चिम** — गुलाटी पेंदोल पम्प तथा भरीम कामलेक्स के मध्य सड़क के सहारे सड़क गंगा सागर नाले के संगम से नाला पार कर कृष्णा टिम्बर मार्ग पोल नं. जी.एस. 18/1 वहाँ से उत्तर की ओर केशव शां मिल के सहारे नवीन नवीन ट्रेइर्स चोकर सीमेंट रोड के सहारे मकान नं. 616 के आगे मकान नं. 875 से उत्तर की ओर मार्ग से पूर्व की ओर कालीमठ मंदिर से आउटर सिंगनल के पास तक।

#### वार्ड क्रं. 15 मदन महल

**उत्तर** — सुपाताल के सामने स्थित कबिल्स्तान राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 07 के संगम के पूर्व की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग 07 के साथ—साथ शारदा चौक तक वहाँ से उत्तर की ओर शारदा देवी मार्ग के संगम तक। वहाँ पूर्व की ओर गंगा सागर मार्ग के साथ—साथ गंगासागर रोड एवं आमनपुर रोड के संगम तक जो मल्लू माली के सामने तक।

**पूर्व** – गंगासागर तिरहे से दक्षिण की ओर एल.आई.सी. कॉलोनी के सामने हर्ष बिल्डर्स के सामने तालाब की मेढ होते हुए बरसाना मौहल्ला रोड कुलिया पार करते हुये भर्सीन काम्पलेक्ट्स से राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पार कर प्रेमनगर पोस्ट अफिस से पश्चिम मार्ग के द्वारा दक्षिण की ओर ईसाई मौहल्ला होते हुये हथीताल मार्ग पारकर हृदय नगर ग्राम की पश्चिम सीमा के नाले द्वारा दक्षिण की ओर गुप्तेश्वर मंदिर से रत्न नगर कालोनी जाने वाले मार्ग के संगम तक।

**दक्षिण** – गुप्तेश्वर रत्न नगर कालोनी मार्ग पर स्थित हृदय नगर वाले मार्ग के संगम से पश्चिम की ओर उसी मार्ग के साथ–साथ रत्न नगर कालोनी शामिल करते हुये बदनपुर एवं महाराजपुर की सीमा तक।

**पश्चिम** – सूपाताल तालाब के सामने श्री कमल सिंह के प्लाट एन.एच. 07 मार्ग से दक्षिण की ओर रोड के सहारे दरगाह मार्ग की ओर पोल क. एन.एन./01/52/2846 से होते हुये म.न. 1977 /बी प्लाट 83 के सामने मदनमहल दरगाह होते हुये बदनपुर एवं महाराजपुर की सीमा संगम सागर कह्चे मार्ग तक।

#### वार्ड क्र. 16 महाराणा प्रताप

**उत्तर** – मध्य रेल्वे लाइन गढ़ा कठपुरा बसहा मार्ग के तिमेडे के पास नगर निगम की पश्चिमी सीमा से प्रांतम होकर पूर्व की ओर मध्य रेल्वे लाइन के साथ–साथ भूलन चौकी के पास जे.डी.ए. योजना क्रमांक-6 के 60 फीट मार्ग के संगम तक।

**पूर्व** – मध्य रेल्वे लाइन भूलन चौकी के पहले से दक्षिण की ओर खुली भूमि के सहारे जनगणना म.न. 2837 से 2847 साई पान सेन्टर से होते हुये म.न. 2912 चरणलाल चकवर्ती म.न. 2957 के मध्य मार्ग के संगम तक गंगानगर के पूर्व की ओर नवनिवेश कालोनी मध्य मार्ग के साथ–साथ डॉ. दिनेश के मकान को जाने वाले मार्ग के संगम तक वहाँ से पुराना गढ़ा मार्ग के साथ–साथ परिचम की ओर पुराने गढ़ा मार्ग डॉ. दिनेश जैन के दवाखाने के पूर्व में पुराना गढ़ा मार्ग के संगम तक वहाँ से पुराना गढ़ा मार्ग के साथ पश्चिम की ओर पुरवा चुंगी चौकी होते हुये सरवेंट क्वार्टर कालोनी के मध्य मार्ग के सहारे दक्षिण की ओर मार्ग के साथ–साथ मेडीकल क्वार्टर से होते हुये यासी मार्केट के सहारे सहारे राष्ट्रीय राजमार्ग 07 के संगम तक।

**दक्षिण** – यासी मार्केट राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के संगम से पिसनहारी मटिया के सामने ऐन बसेरा से राज्यमार्ग नं. 12 के सहारे पश्चिम की ओर भेड़ाधाट मार्ग के साथ–साथ धनवंतरी नगर चौराहा पार कर भेड़ाधाट मार्ग के सहारे बालसागर चुंगी चौकी होते हुये मार्ग के साथ–साथ नगर निगम पुरवा ग्राम की सीमा तक।

**पश्चिम** – राज्यमार्ग 12 नगर निगम की सीमा एवं पुरवा ग्राम की सीमा से उत्तर की ओर पुरवा ग्राम के सीमा के साथ–साथ उत्तर की ओर मध्य रेल्वे लाइन के संगम तक।

#### वार्ड क्र. 17 रानी दुर्गावती

**उत्तर** – गढ़ा पुराने थाने से पूर्व की ओर गढ़ा मुख्य मार्ग संगम से आनंद कुंज तिरहे तक वहाँ से बी ठी तिरहा एवं हितकारिणी कन्या शाला मार्ग के सामने पंचमठा मार्ग संगम तक

**पूर्व** – पचमठा मंदिर के पीछे से होते हुये गंगासागर शारदा चौक मुख्य मार्ग के संगम तक वहा से दक्षिण की ओर शारदा देवी मार्ग के साथ–साथ शारदा चौक तक।

**दक्षिण** – शारदा चौक से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 के साथ–साथ पश्चिम की ओर हितकारिणी स्कूल के सामने तक।  
**पश्चिम** – गढ़ा हितकारिणी स्कूल के सामने प्योरलाल पटेल के मकान नं. 2735 से चिकनी कुओं मार्ग के स्फारे गढ़ा पुराने थाने के पास मकान नं. 1 सतीश कुमार कश्यप के मकान तक।

### वार्ड क्रं. 18 शहीद गुलाब सिंह

**उत्तर** – रतन नगर से प्रेम नगर कृष्णल चौक जाने वाले मार्ग स्थित शाहजी के मकान से पूर्व दिशा की ओर प्रेमनगर जाने वाले मार्ग पर नाले की बाड़ी म.नं. 148 अनिता मजेदा के मकान से नाले का सटकर होते हुये दक्षिण दिशा की ओर नाले से सटकर होते हुये गढ़ा श्री होटल का कानूनर तिवारी जी की सीमेंट डुकान तक बाजनामठ पहाड़ी जाने वाली पांडंडी स्थित दानव बाबा से पहाड़ी के किनारे होते हुये साकार हिल्स सेनिक कालोनी से शारदा मंदिर स्थित रोड से पानी की टंकी का एरिया फिर तक्षशिला इंजीनियरिंग कालेज की पीछे वाली रोड से डाकघर होते हुये गुप्ता होटल के दाएं हिस्से पावडी फिर गुप्ता होटल से गुप्तेश्वर मंदिर की मुख्यमार्ग स्थित शक्ति नगर चौक से दक्षिण दिशा में भोले कुटी शक्तिनगर मुख्यमार्ग नगर निगम जोन कर्यालय शक्ति भवन मुख्य मार्ग के दाएं हाथ का हिस्सा पी. डब्ल्यू. डी. ब्यार्टर से रामपुर रेल्वे गेट तक।

**पूर्व** – रामपुर चौराहे स्थित रेल्वे गेट से दक्षिण दिशा की ओर दाएं हाथ की तरफ स्थित आजाद चौक पार्श्व निवास तक।

**दक्षिण** – आजाद चौक से पश्चिम दिशा की ओर जलपरी एम.पी.एस.ई.बी. रोड के बाएं स्थित सहकार नगर जलपरी नथगांव आउसिंग सोसायटी से होते हुये पावर हाउस एम.पी.एस.ई.बी. की दक्षिण दिशा की बालूँझी होते हुये पावर हाउस तक।

**पश्चिम** – पावर हाउस एम.पी.ई.बी. (बरगी हिल्स) की सीमा से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर स्थित पहाड़ी इलाके की सीमा से बाजनामठ की पहाड़ी स्थित दानव बाबा क्षेत्र के पीछे तक दाएं हाथ का हिस्सा।

### वार्ड क्रं. 19 कानाला नेहरू नगर

**उत्तर** – वसहा लक्ष्मीपुर तथा कल्पुरा ग्राम के तिमेडे के पास स्थित ओमती नाले के साथ–साथ एम.आर. 04 रोड कास कर तिरहे पर पी.के. जैन के मकान के सामने से होते हुये पूर्व की ओर वर्धमान ट्रेडर्स बी. एस. दीवान से होकर कुशवाहा व्यायामशाला के सामने का भाग मातेश्वरी मंदिर से होकर पंकज टेलीकॉम के सामने पुखराज भवन के उत्तर की ओर राज किराना होकर गुलाब कुटी से ए.के.दीक्षित के मकान से पूर्व की ओर सचिन किराना से आगे साई परिसर रानीताल तालाब की मेड से किशन रैकवार के मकान से आगे उसी मार्ग से अखाडे के सामने के मार्ग से होते हुये बच्चू मंगोडा वाले के संगम तक वहां से आगे गढ़ा रानीताल मार्ग के संगम तक वहां से आगे गढ़ा मार्ग के सहारे पूर्व की ओर रानीताल चौक तक।

**पूर्व** – रानीताल चौक से मदनमहल स्टेशन जाने वाले मार्ग के सहारे पश्चिम की ओर गेट नं. 02 तक, वहाँ से टेलीग्राफ की ओर चार दीवारी बाउन्ड्री के सहारे नाला तक।

**दक्षिण** – मध्य रेल्वे लाइन पत्थर क. के 986 / 3 पश्चिम की ओर मध्य रेल्वे लाइन के साथ–साथ गढा रेल्वे कासिंग पार करते हुये भूलन चौकी पार कर कछपुरा बसहा तथा गढा ग्राम तिमडे तक।

**पश्चिम** – कछपुरा बसहा गढा ग्राम के तिमडे के पास से मध्य रेल्वे लाइन से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर वसहा लक्ष्मीपुर तथा कछपुरा ग्राम के तिमडे के पास ओमती नाला संगम तक।

### वार्ड क्र. 20 कस्तूरबा गांधी

**उत्तर** :— उत्तर की ओर उखरी मार्ग पर निर्मित पुलिया के संगम तक (गुलजार बिलिंग के सामने) वहाँ से उखरी मार्ग के सहारे पूर्व की ओर बल्देवबाग चौराहा अग्रवाल पेट्रोल पंप तक।

**पूर्व** :— दक्षिण की ओर मार्ग के साथ–साथ आगा चौक पार कर भैदामिल के दक्षिण में स्थित मार्ग पूर्व की ओर गढाफाटक जाने वाले मार्ग के साथ–साथ गढाफाटक मुख्य मार्ग संगम तक। शंकर धी भंडार तिराहे के समीप जगदीश मंदिर गढाफाटक के मार्ग के साथ–साथ दक्षिण की ओर केशरवानी कॉलेज के सामने स्थित नाले के संगम तक, वहाँ से नाले के सहारे ईदगाह की दक्षिणी सीमा के साथ–साथ पुराना मिर्जापुर मार्ग रानीताल मेन रोड के संगम तक।

**दक्षिण** :— रानीताल ईदगाह रानीताल चौराहे होकर पश्चिम की ओर गढा रोड होते हुए बच्चू मगोड़ा वाले के सामने से छिदामीलाल खलीफा अखाड़ा होते हुए करवला मार्ग रानीताल तालाब की पश्चिम सीमा तक।

**पश्चिम** :— करवला मार्ग तालाब के किनारे से दुग्गी झोपड़ी तालाब के मेड के सहारे संजय गांधी कॉलेज की प्रतिमा तक एवं उत्तर की ओर संजय गांधी कॉलेज के सामने से सर्वदय नगर होते हुए चर्च के सामने होते हुए गुलजार भवन के सामने पुलिया तक होकर ढींगरा भवन के सामने पूर्व की ओर अहिंसा चौक से जानकी नगर मोड तक दक्षिण की ओर बल्देवबाग मार्ग गुलजार भवन के सामने निर्मित पुलिया तक।

### वार्ड क्र. 21 रवामी विवेकानंद

**उत्तर** — ग्राम बसहा लक्ष्मीपुर एवं कछपुरा के तिराहे के पास औनती नाले से पूर्व की ओर श्रीनति भूरी बाई पटेल म.नं. 342 के उत्तर की तरफ से पूर्व की ओर लमती ग्राम की सीमा के साथ–साथ 28 क्याटर विजय नगर के दक्षिणी कॉलोनी की सीमा से होते हुये विन्य डेरी को साथ लेते हुये दक्षिण की ओर जे.डी.ए. रक्षीम नं. 05 की सीमा से होकर एकता नगर की उत्तरी सीमा से अग्रवाल मठपुम से होकर ढींगरा भवन के सामने पूर्व की ओर अहिंसा चौक से जानकी नगर मोड तक दक्षिण की ओर बल्देवबाग मार्ग गुलजार भवन के सामने निर्मित पुलिया तक।

**पूर्व** – साहिब परिसर से रानीताल तालाब की मेड के सहारे ब्लिंग भवन कबिस्तान होते हुये सर्वोदय नगर मरघटाई रोड से आगे संजय गांधी कालेज के पास से उत्तर की ओर सर्वोदय नगर चर्च के पास से बल्टेवबाग मार्ग गुलजार भवन के सामने की पुलिया तक।

**दक्षिण** – रानीताल तालाब की मेड से साहिब परिसर के पश्चिम की ओर सचिन किरण के सामने से होकर ए.के.दीक्षित के मकान से होकर दक्षिण की ओर वैधनाथ चतुर्वेदी के मकान के सामने से होते हुये राज किरण के पास शारदा गुप्ता मकान नं. 1305 से दक्षिण की ओर आश्रय परिसर होकर पंकज एस.टी.डी. से मातेश्वरी मंदिर के सामने से कैलाशधाम होते हुये कुशवाहा व्यायमशाला, एल्जो ब्लासिस होकर पश्चिम की ओर एल्जा पार्लर, प्रभात कॉलोनी से पी.के.जैन के मकान एम.आर. 4 रोड पर करते हुये ओमती नाले तक।

**पश्चिम** – एम.आर. 4 पी.के. जैन के सामने से ओमती नाला के सहारे पश्चिम की ओर ग्राम बसहा लक्ष्मीपुर एवं कछुपुर के तिराहे पर बने ओमती नाले पुल तक।

### वार्ड क्रं. 22 जवाहर गांजा

**उत्तर** :- कोतवाली थाने के बाजू से दरहाई चौक फिर फूटताल चौक मार्ग के दाईं ओर का भाग।  
**पूर्व** :- तुलाराम चौक, अंजुमन काम्पलेक्स होते हुए प्रिंस स्टीट, मनोरा होटल से शंकर होटल, मुमताल बिल्डिंग होकर फुटाताल चौक।

**दक्षिण** :- रानीताल ईदगाह के पश्चिम में नाले के पुल से प्रांभ होकर पूर्व की ओर नरधेया नाला गढ़ा फाटक मार्ग के सांगम तक नरधेया नाला गढ़ा फाटक मार्ग के लोहिया पुल से प्रांभ होकर पूर्व की ओर नरधेया नाले के साथ–साथ कठियाना मार्ग पर मालेगांवकर के मकान के पास नाले पर बनी पुलिया तक वहां से कठियाना मार्ग के साथ–साथ लाईंगंज थाने के पास चौराहे पर स्थित नरधेया नाले के पुल तक।

**पश्चिम** :- केशरवानी कॉलेज के तिराहे से शंकर धी भंडार होते हुए चरहाई होकर घंसडी चौक वहां से बड़ा फुहारा कमानिया गेट दायी ओर का भाग सराफा चौक कोतवाली के सामने तक।

### वार्ड क्रं. 23 लोकमान्य बालगंगाधर तिळक

**उत्तर** :- तुलाराम चौक, अंजुमन काम्पलेक्स होते हुए प्रिंस स्टीट, मनोरा होटल से शंकर होटल, मुमताल बिल्डिंग होकर फुटाताल चौक।

**पूर्व:**— फूटाताल चौक से लकड़ांज तिराहा फिर वहाँ से गुरंदी तिराहा फिर गलगला चौक। गलगला चौक से ओमती चौक। ओमती चौक से पेशकारी मार्ग होकर अच्छेलाल सोनकर के मकान से होकर सामुदायिक भवन के सामने से ओमती नाला तक।

**दक्षिण:**— उडिया मोहल्ला ओमती नाले के किनारे होकर घंटाघर पुल चायनीज होटल के कोने से ओमती नाला के साथ—साथ राजीव गांधी प्रतिमा तक।

**पश्चिम:**— राजीव गांधी प्रतिमा नौदरापुल से योगी होटल होकर पारस स्टेन गली होते हुए बंगाली मस्तिज होकर मोहम्मदी गेट से हरिजन थाना चौक से विकटोरिया अस्पताल होकर तुलाराम चौक तक।

### वार्ड क्र. 24 हनुमानताल

**उत्तर:**— खेया मार्ग गरीब उल्ला के मकान के पास ढलगर मोहल्ला पुराने मार्ग पर बने नाले के पुल से पूर्व की ओर नाले के साथ—साथ शंकर मालगुजार के मकान के सामने होते हुए नगर निगम सुलभ काम्पलेक्स के पास 367 मिर्जा जमाल बेग के सामने से रवेया मार्ग के साथ—साथ पी. एम. तिवारी के पास हनुमानताल पुलिस चौकी जाने वाले पुलिया के संगम नरेश सराफ से मालपाणी स्कूल होते हुए गुडहाई तिराहे तक।

**पूर्व:**— खेया मार्ग पी एम तिवारी के मकान से खेया संगम से दक्षिण पश्चिम की ओर पुलिस चौकी के पास हनुमानताल के पूर्व मार्ग द्वारा दक्षिण की ओर हनुमान प्रसाद वर्मा के मकान के पास शुक्रवारी बजारिया संगम तक वहाँ से पूर्व की ओर उसके साथ कुञ्जडहाई मस्तिज द के सामने फूटाताल जाने वाली पुलिया से दक्षिण की ओर बढ़दै मोहल्ला मार्ग एवं विश्वकर्मा मंदिर के पास कोष्ठा मोहल्ला वाली पुलिया द्वारा दक्षिण की ओर फूटाताल पूर्व मार्ग संगम होते हुए दक्षिण मार्ग संगम तक एवं हनुमानताल पश्चिम मार्ग तथा पं. देवी शुक्रला मार्ग होते हुए धोड़ा नक्कास संगम से दक्षिण की ओर राजा सागर मार्ग गोकुलदास महल के सामने से बोहरा मस्तिज तक के बाजू से फकीरचंद अखाड़ा होते हुए दरहाई चौक के संगम तक।

**दक्षिण:**— फूटाताल दक्षिण मार्ग एवं साठिया कुआं मार्ग फूटाताल उर्द्द स्कूल के पास के पूर्वी मार्ग के संगम से पश्चिम की ओर दक्षिण की ओर उसी मार्ग के साथ—साथ मस्तिज द के पास चौराहा तक वहाँ से उत्तर पश्चिम साठिया कुआं के साथ—साथ मालवीय मंदिर के पास देवी प्रसाद शुक्रला मार्ग के संगम तक एवं दरहाई चौक से पश्चिम की ओर कोतवाली थाने के पास शहर के मुख्य मार्ग के संगम तक, दक्षिण की ओर मुख्य मार्ग से सुनरहाई चौराहा तुनहाई चैरीताल मार्ग द्वारा हितकारिणी माध्यमिक कन्या शाला होते हुए, उपरेनांज मार्ग के सामने तक।

**परिचयम्** :— देवी प्रसाद शार्मा मार्ग मालवीय मंदिर से साडिया कुआं मार्ग के संगम से उत्तर की ओर देवी प्रसाद शुक्ला मार्ग हनुमानताल के पश्चिम मार्ग के साथ-साथ डॉ. के. एल. जैन के दबाखाना के सामने घोड़ी गली से फकीरचंद अखाड़ा से होकर बोहरा मस्जिद एवं वहाँ से हनुमानताल पश्चिम मार्ग के साथ-साथ घोड़ा नकास पार कर ढलगर मोहल्ला गरीब उल्ला के मकान के पास बने नाली पुल तक एवं उपरेनगंज मार्ग पर राजा सागर तथा तमरहाई मार्ग हितकारिणी माध्यमिक शाला से नुनहाई चेरीताल मार्ग के उपरेनगंज मार्ग द्वारा उत्तर की ओर राजा सागर के संगम तक वहाँ से मन्नूलाल दस्ट गुड़हाई तिराहे से तमरहाई चौक से मुकेश सराफ पार्षद निवास से होते हुए मन्नूलाल अस्पताल से दीक्षितपुरा तिराहे तक एवं दीक्षितपुरा तिराहे से सराफा चौक आहिंसा इलेविट्रिकल के सामने गली दरहाई चौक से व गोकुलदास महल तक।

### वार्ड क्र. 25 महात्मा गांधी

**उत्तर** :— हरदौल मंदिर से दीक्षितपुरा हितकारिणी रक्कूल के सामने सराफा चौक।

**पूर्व** :— सराफा चौक से कमानिया गेट बड़ा फुहारा फिर घमंडी चौक।

**दक्षिण** :— घमंडी चौक से शंकर धी भंडार होते हुए बड़ी महाकाली मंदिर तक फिर बड़ी महाकाली के सामने से जगदीश मंदिर होते हुए एवं एवं-7 मुख्य मार्ग पुराने आर.के.विरकूट के सामने तक।

**परिचयम्** :— आर.के. बिस्किट के सामने से आगा चौक होकर बलदेव बाग चौक होकर हरदौल मंदिर तक।

### वार्ड क्र. 26 गोविंद वल्लभ पंत

**उत्तर** :— क्षेत्रीय बस स्टेंड के कोने से अमरज्योति होटल होकर अधारताल रोड पर मोतीनाला पुल पार करके गोहलपुर ईदगाह के कोने तक।

**पूर्व** :— गोहलपुर तिराहा ईदगाह से मोती नाला पुल होकर पुराना पोस्ट ऑफिस वाली गली के आगे भूरे पहलवान के सामने से घोड़ा नकास तिराहा नरेश सराफ के मकान से बटुक भैरव के मंदिर के कोने तक का दाहिना हिस्सा।

**दक्षिण** :— बटुक भैरव के बाजू से गली में नारायण नामदेव के मकान के सामने से मिलोनीगंज कोतवाली मार्ग पर धनुषधारी मंदिर के सामने से गुड़हाई चौक होकर डॉ. पहाड़िया निवास से मौर्य के मकान तक।

**परिचयम्** :— मौर्य मकान से छोटा फुहारा होकर सूजीपुरा रक्कूल से जमुनिया कुआं बांयी तरफ होकर कोष्ठी मंदिर के सामने से अतारी लाल तिवारी के मकान से क्षेत्रीय बस स्टेंड के कोने तक।

**वार्ड क्रं. 27 चेरीताल**

**उत्तर :-** कोठारी मेडिकल के सामने साहू के मकान से दमोह नाका चौराहा साहू आठाचांद जैन किरणा

**पूर्व :-** बल्देवबाग बिल्डिंग हीर जी बल्देव बाग तिराहा एसबीआई एटीएम तक।

**दक्षिण :-** बल्देवबाग SBI (ATM) से शीतल पुरी कालोनी यंग ब्लड मैन रोड से गुलजार बिल्डिंग के सामने उत्तमचंद जैन किरणा दुकान तक।

**पश्चिम :-** उत्तमचंद जैन किराना इकान से संगम कालोनी जैन मंदिर के पहले तिराहा होकर राजेश अग्रवाल द्रान्सफारमर के सामने से मथूर किराना होकर स्टेम फील्ड स्कूल के सामने से क्षत्रिय आठा चाककी पतली गली से तुलसी नगर से आगे क्रस्टल पाऊच की फेवरी से आगे पुलिया के अन्दर से साइड रोड पूर्व पार्श्व श्री धनधोरिया के घर के पास से पुरुषोत्तम कुटी से सरस्वती उद्यान पार करके दाहिनी तरफ वर्मा के मकान के सामने एस0बी0 बोहरा से रविन्द्र गुप्ता रोड पार करके दीपक साहू के बाजू से अंदर कोठारी मेडिकल के सामने साहू के मकान तक।

**वार्ड क्रं. 28 जयप्रकाश नारायण**

**उत्तर :-** अनिल साहू के मकान से पंजाब बैंक कॉलोनी मोड पर कोठारी मेडिकल के मकान तक।

**पूर्व :-** कोठारी मेडिकल से प्रारम्भ होकर पंजाब बैंक कालोनी मार्ग पार करके नवीन नेमा के मकान से अग्रवाल इंजीनियर से सरस्वती उद्यान के बायें हिस्सा आगे रोड पार करके पुरुषोत्तम कुटी के सामने से अंदर दाहिने मुडकर क्रिस्टल पाउच के आगे दाहिनी तरफ श्री छाया से दुर्गा मंदिर मध्यूर किराना से बी0के0 धगद के सामने से द्रान्सफारमर के सामने से पी0सी0 शर्मा से दादा-दादी गार्डन से जायसवाल के मकान से आगे मुडकर गुलजार बिल्डिंग।

**दक्षिण :-** उखरी तिराहा बैलिंग इकान से बल्देवबाग की ओर गुलजार बिल्डिंग तक।

**पश्चिम :-** उखरी तिराहा बैलिंग की दुकान से नर्मदा नर्सरी से होकर मनीष किराना से होते हुए प्रवीण दबे के भवन से नामदेव ब्रदर्स से वार्ड की बाहरी सीमा के साथ-साथ प्रसन्न रददी के सामने मण्डी की बाज़ई से लगाकर मण्डी के दक्षिणी कोने से घूमकर एयरटेल के सामने से अनिल साहू के मकान तक।

**वार्ड क्रं. 29 लॉ राममनोहर लोहिया**

**उत्तर :-** रानीदुर्गावितो चौक त्रिमूर्ति नगर होते हुए कठोदा निमां सीमा तक।

**पूर्व :-** त्रिमूर्ति नगर रानीडुर्गावती चौक सोनी मार्केट से होते हुए पार्श्व ऐपोरी के सामने से पूर्व की ओर बाजपेयी बैलिंग डबल रोड होते हुए जयदत्त पाण्डे के मकान से मुँहकर केशरवानी फर्म से होते हुए सुलभ कॉम्प्लेक्स से होकर सामुदायिक भवन होते हुए चंडाल भटा गली नंबर एक से होकर भूतडा के मकान तक।

**दक्षिण :-** दीनदयाल चौक स्थित रूपचंद मतानी के मकान से पचौरी पेट्रोल पंप के आगे साईं मदिर द्रांसपोर्ट नगर होते हुए शांति नगर भूतडा के मकान तक।

**पश्चिम :-** कठौदा निगम सीमा से ग्रीन सिटी होकर माडोताल कोल बरस्ती तिरहा होकर यादव डेरी के सामने से संचार नगर साईं कॉलोनी पार करते हुए आईटीआई मुख्य मार्ग से दीनदयाल चौक रूपचंद मतानी के मकान तक।

**उत्तर :-** कठौदा प्लॉट नगर निगम सीमा के उत्तर की ओर निगम सीमा का बाहरी भाग मदर टेरेसा कॉलोनी का कोना कठंगी मेन रोड तक।

### वार्ड क्र. 30 पं. दीनदयाल उपाध्याय

**पूर्व :-** रूपचंद मतानी के मकान से सड़क के उस पार से अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड की सीमा से लगकर तालाब के किनारे से कोल बरसी तिरहा होते हुए ग्रीन सिटी मेनरोड होते हुए कठौदा प्लॉट के पास नगर निगम सीमा तक।

**दक्षिण :-** माडोताल चुंगीनाका से मुख्य मार्ग दीनदयाल चौक होते हुए रूपचंद मतानी के मकान तक।

**पश्चिम :-** मदर टेरेसा नगर से रेंगल स्टेट होते हुए आईटीआई चुंगी नाका माडोताल तक।

### वार्ड क्र. 31 राजीव गांधी

**उत्तर :-** मोती नाला पुल के किनारे से होते हुये किनारे किनारे रियान स्कूल के आगे राजा तिवारी की साइड से होते हुये नंदन विहार के आगे कृष्णा कालोनी होते हुये भूलन देवी मदिर खेत के कोने तक।

**पूर्व:-** दमोहनाका चौराहा कठनी रोड होते हुये जे.डी.ए. मार्केट के आगे मेहरुनिशा के निवास मोती नाला पुल तक।

**दक्षिण:-** त्रिमूर्ति नगर तिरहा से पूर्व की ओर बाजपेयी बैलिंग जयदत्त पाण्डे के मकान से होते हुए द्रांसपोर्ट नगर से होकर सुलभ शौचालय होते हुये चौधरी मोहल्ला गली न. 1 से होते हुये मुख्य मार्ग दमोह रोड भूतडा के मकान से होकर मेडोना श्री अनिल पचोरी के आगे कुण्ठी मार्केट के आगे दमोह नाका चौराहे तक।

**पश्चिम:-** भूलन देवी मदिर खेत के कोने से होते हुये कृष्णा कालोनी अनमोल गोल्डन ड्यूप्लेक्स के किनारे से श्री राम कुमार पटेल के निवास कोने से होते हुये लाला पान भंडार के डबल रोड से होते हुये ईश्वर प्रेम आश्र्य के आगे त्रिमूर्ति नगर तिरहे तक।

### वार्ड क्र. 32 सुभदा कुमारी चौहान

**उत्तर -** तीन पत्ती चौक से होते हुये यातायात थाने के सामने से बी.एस.एन.एल. कार्यालय होते हुये गेट नं० 2 तक। फिर गेट नं० 2 से होते हुये गेट नं० 3 चिरायु अस्पताल तक।

**पूर्व** – नगर निगम चौराहे से प्रांतम होकर दक्षिण की ओर शास्त्री पुल की ओर जाने वाले मार्ग के सहारे मध्य रेल्वे लाईन पर बने शास्त्री पुल तक।

**दक्षिण** – मध्य रेल्वे लाईन पर स्थित शास्त्री पुल से प्रांतम होकर पश्चिम की ओर मध्य रेल्वे लाईन के साथ मदन महल रेटेशन अंडरब्रिज होते हुये मध्य रेल्वे स्थित खंभा नंबर– 986/3 तक।

**पश्चिम** – मध्य रेल्वे लाईन पर स्थित खंभा नं० 986/3 से प्रांतम होकर उत्तर की ओर ओमती नाला पार करते हुए टेलीग्राफ नाला के साथ–साथ टेलीग्राफ कंपाउडवाल तक जो कि सौईबाबा मंदिर मार्ग पर स्थित हैं वहां से साईं बाबा मंदिर के साथ–साथ पूर्व की ओर टेलीग्राफ गेट नंबर– 5 के सामने से होते हुए गेट नं० 4 पार कर पी.एंड.टी. की कंपाउडवाल के साथ–साथ उत्तर की ओर टेलीग्राफ गेट नं० 3 तक।

#### वार्ड क्र. 33 स्वामी दयानंद सरस्वती

**उत्तर** – नवभारत प्रेस ओमती नाले से होकर कृष्णा होटल के पीछे ओमती नाला होते हुये ज्योति टॉकिज होते हुये नौदरा पुल होकर देशबंधु प्रेस नगर निगम के संभागीय कार्यालय होते हुये मुखिलम मुसाफिर खाना ओमती नाला पुल तक।

**पूर्व** – डॉ० राजेन्द्र प्रसाद चौराहा (हाईकोर्ट चौक) से दक्षिण की ओर दक्षता रेसीडेंसी होकर स्टेट बैंक मार्ग के साथ–साथ रेल्वे लाईन के पुल नं० 2 के पास केन्टोमेंट सीमा के सामने पोल नं० 121 तक।

**दक्षिण** – मध्य रेल्वे पुल नं० 2 के पास केन्टोमेंट सीमा खंभा नं० 121 से दक्षिण की ओर गुल नं० 3 होते हुए केन्टोमेंट सीमा खंभा नं० 118 तक वहां से दक्षिण की ओर केन्टोमेंट सीमा के साथ–साथ नं० 117 बी, 117ए, 1/116, 115 एवं 115 ए होते हुये वहां से उत्तर की ओर कंटगा मार्ग के साथ–साथ हाउबाग स्टेंशन मार्ग के साथ–साथ खंडेलवाल के बंगले के पश्चिम से बहने वाले नाले के साथ–साथ दक्षिण पूर्व रेल्वे लाईन पार कर मध्य रेल्वे लाईन तक वहां से मध्य रेल्वे लाईन के साथ–साथ पश्चिम की ओर शास्त्री पुल तक।

**पश्चिम** – मध्य रेल्वे लाईन पर बने शास्त्री पुल से उत्तर की ओर मार्ग के साथ–साथ नवभारत प्रेस के पास पेट्रोल पंप के पहले मार्ग के संगम तक।

#### वार्ड क्र. 34 पं० भवानी प्रसाद तिवारी

**उत्तर** – तुलाराम चौक से होकर लाडांग चौक वैष्णवी स्टोर्स से कालियाना नाला का बायां हिस्सा होते हुए कालियाना से केशरवानी कॉलेज की ओर नाले का बायां हिस्सा एवं डॉ० अभिनंदन जेन के मकान से होकर किनारे का बायां हिस्सा लेते हुए यानीताल का बायां हिस्सा।

**पूर्व** – तुलाराम चौक से ओमती मस्जिद के सामने जनता सायकिल से होकर मोहम्मदी गेट का दाहिना हिस्सा होते हुये बांगली मस्जिद के सामने से होकर पारस्स स्टोन गली होते हुये विजया रानी सिंघई के मकान से होकर राजीव गांधी प्रतिमा तक।

**दक्षिण** —राजीव गांधी प्रतिमा नोदरा ब्रिज से ओमटी नाले के सहारे नवभारत फ्रेस तक, तीन पत्ती से यातायात थाने के सामने आर्य हिन्दु लॉज से गेट नं. 02 हनुमान मंदिर तक।

**पश्चिम** — रानीगाल से पी.एन.टी.पी. बाउन्ड्री के किनारे—किनारे गेट नं. 03 विरायु हॉस्पिटल तक का बायां हिस्सा।

### वार्ड क्रं. 35 महाराजा अग्रसेन

**उत्तर** :— पाटन मार्गपर स्थित नगर निगम की सीमा जो करमेता ग्राम की पूर्वी सीमा से लगाकर है वहां से पूर्व की ओर दमोह जबलपुर मार्ग के साथ—साथ दीनदयाल चौराह पार कर कृषि उपज मंडी की पश्चिम सीमा जो दीनदयाल वार्ड की सीमा तक स्थित है।

**पूर्व** :—दीनदयाल वार्ड की सीमा से लगभग वर्तला पेराडाइज से पश्चिम की ओर मातेश्वरी गार्डन के सामने वाले मार्ग से होते हुये दिनेश किरणना उसके आगे दीवान का मकान वहां से मुड़कर एक तिवारी के सामने वाले मार्ग के साथ — साथ पश्चिम की ओर जानकी नगर उद्धान के पास आर.के. प्रोविजन तक।

**दक्षिण** :—आर.के. प्रोविजन के सामने से जानकी नगर होते हुये अहिंसा योक पार कर पश्चिम की ओर यादव ट्रेडर्स से अग्रसेन मंडपम के सामने से होते हुये दक्षिण की ओर खाट न. 1106 सेन के मकान से दक्षिण की ओर रोड से पश्चिम की ओर उत्तरी सीमा मकान न. 1145 सी. 1 श्री दुबे जी के मकान से होते दीर्घायु फिजियोथेरेपी से पूर्व की ओर बाके विहारी मकान से एच.बी. कॉर्लेज के सामने से अभिषेक प्राविजन के पीछे का भाग मिथिला पुरी के कानार से JDA के स्कीम न. 05 के भवनों से होकर 28 कवाटर होते हुये सर्वे आफ इडिया के अवासी व्हाटर से लमती ग्राम की दक्षिण सीमा के संगम तक।

**पश्चिम** :—माडोताल राजीव नगर से होते हुये जे.डी.ए. स्कीम न. 14 सरस्वती ज्ञान मंदिर से होते हुये नब्बे व्हाटर कंचनबिहार कंचनारसिठी नगर निगम सीमा होते हुये कंचनार सिटी रोड तक तथा नविकेता चौराहे से दक्षिण की ओर विनय डेरी के सामने शंकरजी के मंदिर तक।

### वार्ड क्रं. 36 मौलाना अबुल कलाम आजाद

**उत्तर** —नालबंद मोहल्ला मार्ग छोटे सोनकर वाली पुलिया एवं डलगरपुर मार्ग के संगम से उत्तर पूर्व की होर हाजी अबुल जब्बार के मकान नं. 521 के बरिया मार्ग द्वारा इयम सिंह के धड़े पर मोतीनाले के नये पुल तक वहाँ से लाने के द्वारा नए मिर्जापुर मार्ग पर बने मोती नाले के पुल तक जो मुसलमान क्विस्तान के पास हैं।

**पूर्व** — नई मिर्जापुर सड़क मुसलमान के क्विस्तान के पास मोतीनाला पर बने पुल के दक्षिण की ओर खेया मार्ग के संगम तक जो वाटर वर्कर्स ब्रिटिश के पास हैं।

**दक्षिण** — खेया मार्ग वाटर वर्कर्स के ब्रिटिश पंप के पास मिर्जापुर मार्ग के सेंगम से पश्चिम की ओर उसी मार्ग के साथ साथ मिर्जा जमाल बेग के मकान नं. 376 तक यहो से दक्षिण पश्चिम की ओर नगर निगम के सोटिक लैट्रिन के सामने से नाले द्वारा शंकर मालगुजार मार्ग पर स्थित नाले के पुल तक।

**पाइचम** — ढलगरपुरा मार्ग गरीबउल्ला के मकान के पास ढलगरपुरा मार्ग पर बैने नाले के पुल से उसी मार्ग द्वारा उत्तर की ओर छोटे सोनकर के मकान के पास नालबंद मोहल्ला मार्ग के संगम तक ।

### वार्ड क्र. 37 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

**उत्तर** :— दमोहनाका चौक से गोहलपुर मार्ग पर थेट्रीय बस स्टेण्ड के सामने इडिया मठन सौप अतारी लाल तिवारी के मकान के सामने से होकर कोष्ठी मंदिर, जमुनिया कुओं होकर सूजीपुरा स्कूल के कोने तक दाहिना हिस्सा ।

**पूर्व** :— सूजीपुरा स्कूल के सामने कोने से प्रारंभ होकर छोटा फुहारा आगे तमराहाई चौक तक दाहिना हिस्सा । तमराहाई चौक से होकर झाड़ मोहल्ला राजा टेट्ट सिमिरिया रानी की कोठी होकर दीक्षितपुरा बाबू मनमोहनदास हितकारिणी स्कूल तक दाहिना हिस्सा ।

**दक्षिण** :— बाबू मनमोहनदास हितकारिणी स्कूल होकर गुरु तिराहा मिश्रबन्धु कार्यालय के सामने से चेरीताल चौक पुलिस व्हाटर तक दाहिना हिस्सा ।

**पश्चिम** :— दमोहनाका बलदेव बाग चौक के बीच पुलिस व्हाटर से समदलिया काम्पलेक्स गोपाल बिहार होकर दमोहनाका चौक के आगे इयमा प्रसाद मुख्यमंत्री नगर निगम मार्केट के कोने में मठन की दुकान तक दाहिना हिस्सा ।

### वार्ड क्र. 38 पं० मोतीताल नेहरू

**उत्तर** :— अरब बालों के मकान के बाजू से नवाब्बे स्कूल से होते हुए कोति नगर अशोक नगर जैन मदिर आनंद नगर से होते हुए अनुसूचित जन जाति छात्रावास से रद्दी चौकी तक ।

**पूर्व** :— रद्दी चौकी से परस्पर राम लोहा वाले से हाई कोट रोड होते हुए बहोरा बाग चौक से हनफिया मस्जिद वाली गली नईमुददीन बर्फ वाले के मकान तक एवं गली होते हुए काली चाय वाले के सामने सलीम राशन वाले की लाईन एवं उचउआं कुंआ से होते हुए अमीनुद्दीन डेरी वाले की लाईन होते हुए डॉ. खान वाली लाईन फकीर मोहम्मद के सामने वाली लाईन से मेनरोड गाजी मिया मझार तक ।

**दक्षिण** :— गाजी मिया मझार से गोहलपुर पुरानी पानी टंकी होते हुए अमखेरा रोड भारत नगर गाजी नगर का हिस्सा ।

**पश्चिम** :— गाजी नगर से होते हुए वंदना नगर गली ओम नगर की गली राजनीति नगर के बाजू से घनश्याम अधिकार के मकान से एवं रसीद नेता की गली से भूमि विकास बैंक गृह निर्माण सोसाइटी से अरब वालों के मकान तक ।

### वार्ड क्र. 39 चिंतरजनदास

**उत्तर** :— अमखेरा मेनरोड से बरसी नंबर 2 एकस बलब की गली न्यू नर्मदा नगर एवं फिरोज भाई की प्लाटिंग तक ।

**पूर्व :-** गोहलपुर थाना से भरत नगर रमजान भाई को सीमेंट टुकान के बाजू से आरा मशीन के सामने से आशिक अली के मकान के आगे चंदना नगर विद्युत ट्रांसफार्मर तक की बाजू वाली गली से श्री लखेया जी के मकान से होते हुए बाबू सलाम के सामने से होते हुए सचान बिजली वाले के आगे कच्ची रोड से होते हुए कुआ वाली गली से औम नगर का भाग होते हुए अनीता बर्मन के मकान के बाजू से मिथलेश तिवारी के मकान से होते हुए घनश्याम अधिकार के मकान से ज्ञानी होटल अमरेया मेनरोड तक।

**दक्षिण :-** अहमद नगर से मोतीनाला के किनारे से होते हुए एवं नवीन पानी की टंकी तक का हिस्सा पुलिस कवाटर गोहलपुर थाना तक।  
**पश्चिम :-** फिरोज के प्लाटिंग से नेवल डिस्ट्रूज़न की प्लाटिंग से वकील तिवारी जी के मकान के आगे से होते हुए सुआष नगर एवं अहमद नगर के किनारे तक।

#### बाई क्र. 40 डॉ. जाकिर हुरैन

**उत्तर :-** उच्युआ कुंआ के सामने वाली एवं अमीन उद्दीन डेरी वालों के घर के सामने वाली लाईन एवं सामने वाली गली से मुस्तफा टाल वाले एवं नई बरसी होते हुए ईडब्ल्यूएस स्कूल के बाजू वाली गली नगीना मस्जिद के सामने वाली गली।

**पूर्व :-** बहोरा बाग चौक स्थित बहोरा मार्केट से दाढ़ल उल्हम तक एवं उससे होते हुये चार खम्बा तक।

**दक्षिण :-** नगीना मस्जिद से मदन गोपाल असाठी के मकान तक एवं नोने लाल की गली से मोमीन पुरा तलेया होते हुये बेनी सिंह की तलेया, अंसार नगर गली तक।

**पश्चिम :-** यादव माल गुजार से लाल स्कूल गोहलपुर उड्ड स्कूल एवं पानी वाली तलेया काली चाय वाली लाईन होते हुए फकीर मोहम्मद के मकान तक।

#### बाई क्र. 41 संजय गांधी

**उत्तर:-** खुशी जनरल स्टोर से पश्चिम की ओर दुर्गा मंदिर के कदीर मुंशी कार्यालय से रजा चौक तक।

**पूर्व :-** टनटनिया पहाड़ी सलाउदीन मदरसा होते हुए बाए हाथ के क्षेत्र सम्मति नगर मुख्य मार्ग होते हुए उत्तर की ओर खुशी जनरल स्टोर तक।

**दक्षिण -** डा. असलम से होते हुए टनटनिया पहाड़ी क्षेत्र पूर्व दिशा की ओर सलाउदीन मदरसा तक।

**पश्चिम -** रजा चौक ताहा किराना स्टोर से बाई पट्टी पर आगे दक्षिण की ओर डा. असलम तक।

### वार्ड क्रं. 42 नेताजी सुभाष चंद्र बोस

**उत्तरः—** मिल्क स्कैम महाप्रबंधक के निवास से शोभापुर मुख्य मार्ग पर दाहिने हथ की ओर का हिस्सा दैनिक भास्कर प्रेस कार्यालय व औद्योगिक क्षेत्र के आगे बढ़ते हुए शोभापुर रेल्वे फाटक के पास काली मंदिर तक ।

**पूर्वः—** शोभापुर रेल्वे फाटक के सामने काली मंदिर पहाड़ी के बीच से दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए सपना नगर नई पानी की टंकी के आगे की ओर निर्भय नगर पहाड़ी होते हुए टाटानिया पहाड़ सलाउदीन मदरसा तक ।

**दक्षिण —** सलाउदीन मदरसा के पहले संतोष पांडे के मकान से पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए अंबेडकर भवन का क्षेत्र ललित नागले के मकान से होते हुए अंबेडकर भवन तक ।

**पश्चिम —** अंबेडकर भवन के पास मुकेश कोरी के निवास से आगे उत्तर की ओर बढ़ते हुए शुक्ला किराना से मिल्क स्कैम महाप्रबंधक के निवास तक ।

### वार्ड क्रं. 43 डॉ. इयामा प्रसाद मुखर्जी

**उत्तर —** चुंगी चौकी युरु प्रसाद के मकान से होते हुये कांच घर चौकी की सीमा तक ।

**पूर्व —** चुंगी चौकी से जी.सी.एफ. (बाउन्डी) सीमा से होते हुये हगुमान टोरिया रेल्वे लाईन के किनारे होते हुये पुल नं. 1 तक ।

**दक्षिण —** पुल नं. 1 गोकुल दास धर्मशाला से इंदिरा मार्केट होते हुये जल गेट तक ।

**पश्चिम —** सेन्ट्रल जेल व्हार्टर से हाउसिंग बोर्ड पुलिया होते हुये रेल्वे स्टेशन से कांचघर रोड तक ।

### वार्ड क्रं. 44 आचार्य विनोबा भावे

**उत्तर—पूर्व —** गोहलपुर ग्राम की दक्षिणी सीमा पहाड़ी के मध्य से होते हुये हिन्दू शमशान के पश्चिमी उत्तरी कोने पर स्थित जबलपुर पनेहरा तथा गोहलपुर ग्राम पहाड़ी की सीमा के तिराहे से पूर्व की पूर्वी उत्तरी सीमा के कोने तक, पहाड़ के मध्य से दक्षिण की ओर हिन्दू शमशान की पूर्वी सीमा के साथ—साथ मरघटाई स्थित नई के सामने श्रीराम गणेश पाली के मकान के पास वाले मार्ग से पूर्व की ओर नाला पारकर उसी मार्ग के साथ—साथ मकान नं. 1882 के पास स्वामी रामकृष्ण परमहंस मार्ग द्वारा ओमती नाले पर स्थित पुलिया तक स्वामी रामकृष्ण परमहंस मार्ग पर ओमती नाले पर बने पुल से दक्षिण की ओर उसी नाले के साथ कुण्डम मार्ग पर स्थित ओमती नाले के पुल तक ।

**दक्षिण** — ताड़ीखाने के सामने नाले पर बने पुल से कुण्डम मार्ग के साथ—साथ उत्तर की ओर ताड़ीखाने के पास नाले से लगा हुआ हिस्सा काँचघर चौंक तक, काँचघर चौंक से ज्ञामनदास चौंक होते हुये बांधे हाथ तरफ विछेल तिरहा नाले के पास तक नाले के किनारे—किनारे होकर ताड़ीखाने के नाले तक, मकान नं. 1890 हीरालाल के मकान होते हुये पिछले तिरहा नाले फिर दक्षिण की ओर शीतला माई मंदिर होते हुये सरकारी कुआ के सामने के मार्ग से पश्चिम की ओर प्रेमसागर मार्ग स्थित प्रेमसागर पुलिस चौकी तक।

**पश्चिम** — प्रेमसागर पुलिस चौकी से उत्तर की ओर मरधाटाई रोड के साथ—साथ गणेशांज मार्ग के संगम होते हुये ग्राम जबलपुर गोहलपुर तथा पनेहरा ग्राम के तिरहे तक।

### वार्ड क्रं. 45 शीतलामाई

**उत्तर** — न्यू मिर्जापुर मार्ग से प्रेम सागर जाने वाले मार्ग पर स्थित हरिजन व्हाटर के पास नाले से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर शीतलामाई मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग के साथ—साथ सरकारी कुआ के सामने से होते हुए कुण्डम मार्ग पर बने ओमटी नाले के पुल तक ताड़ीखाना के पास मेन रोड खण्डेलवाल बिल्डिंग होते हुए कुंचबदिया मोहल्ला मेन रोड महाराणा प्रताप चौक तक।

**पूर्व** — ताड़ी खाना के पास कुण्डम मार्ग पर स्थित नाले के किनारे पश्चिम की ओर रामस्वरूप शर्मा के मकान से पश्चिम की ओर मुख्य नाले के साथ साथ रविकांत रावत बिल्डिंग के पीछे के नाले के सहारे पश्चिम की ओर औमटी नाले के साथ साथ न्यू मिर्जापुर मार्ग पर बने जंजीरा नाले के साथ साथ न्यू मिर्जापुर पर बने जंजीरा पुल के पास तक एवं हाउसिंग बोर्ड कालोनी तिरहा संगम से कांच घर मेन रोड समदर्भिया कालोनी से होते हुए कांच घर रोड खण्डेलवाल बिल्डिंग तक।

**दक्षिण** — गोपाल मंदिर बाई के बगीचा से होते हुए रामकृष्ण आश्रम से कुंचबदिया मोहल्ला होते हुए बच्च का बाड़ा हाउसिंग बोर्ड कालोनी तिरहे के संगम तक।

**पश्चिम** — न्यू मिर्जापुर पर बने जंजीरा पुल से पूर्व की ओर प्रेम सागर नाले के संगम तक वहा से उत्तर की ओर प्रेम सागर नाले के किनारे कुण्डम मार्ग पर नाले के साथ साथ हरिजन व्हाटर के पास प्रेम सागर मार्ग संगम तक।

### वार्ड क्रं. 46 प. द्वारका प्रसाद मिश्र

**उत्तर** — गोपाल होटल एवं सिद्धबाबा मार्ग के संगम से पूर्व की ओर आचार्य केपलानी मार्ग के साथ—साथ छ. खम्मा चांदमारी मार्ग होते हुये चौरस्ते से पूर्व की ओर मार्ग के किनारे—किनारे जी.सी.एफ. की पश्चिम सीमा तक। जी.सी.एफ. सीमा खम्मा नं. 8 डी एवं 8 सी. के मध्य में स्थित है।

**पूर्व** — चांदमारी छ. खम्मा मार्ग के संगम से पूर्व की ओर जो मार्ग जी.सी.एफ. सीमा के पश्चिम में मिलता है, से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर जी.सी.एफ. खंभा नं. 8 सी होते हुये सीमा के साथ—साथ कुण्डम मार्ग तक जहां पर पुरानी चुंगी स्थित है।

**दक्षिण** — कुण्डम मार्ग पूर्व माध्यमिक शाला के पास जी.सी.एफ. सीमा खम्मा नं. 3 से प्रारंभ होकर कुण्डम मार्ग के साथ—साथ पश्चिम की ओर काँचघर चौंक के संगम तक।

**पश्चिम** – कांचघर चौक से उत्तर की ओर जाने वाला आचार्य कृपलानी मार्ग के साथ–साथ घमापुर थाना भारत सेवक समाज के आगे झामनदास चौक पार करते हुये। झामनदास चौक से भवन कमांक– 1793 शासकीय राशन दुकान से 1805 मूलचंद नारायणी से 1812 नाले के इस दहिने और का एरिया भवन कमांक– 1799 अरुण बनाफर से 1772 सुदेश बनाफर तक भवन कं0 1766 से 1757 कल्यूराम महोलिया के मकान तक 1757 से 1788 संतोष ज्वेलर्स तक, आचार्य कृपलानी मार्ग के संगम तक वहां से उत्तर की ओर आचार्य कृपलानी मार्ग के साथ–साथ गोपाल होटल चौराहे तक।

#### वार्ड क्रं. 47 सेठ गोविंद दास

**उत्तर** – बैतला ग्राम की पश्चिमी सीमा (कंचनपुर टोरिया) के मध्य से सिद्धबाबा टोरिया से शुरू होकर पूर्व की ओर पहाड़ी के मध्य से चांदमारी टोरिया की शारदा मंदिर के दक्षिणी भाग से जी.सी.एफ. सीमा के खम्मा नं. 8 डी. तक जो चांदमारी टोरिया पश्चिम कोने पर है।

**पूर्व** – जी.सी.एफ. खम्मा नं. 8 डी से दक्षिण की ओर जी.सी.एफ. सीमा के साथ–साथ चांदमारी मार्ग से दक्षिण की ओर जो मार्ग जी.सी.एफ. खम्मा नं. 8 डी एवं 8 सी के मध्य मिलता है, उसी मार्ग के साथ–साथ उत्तर पश्चिम की ओर छ: खम्मा से चांदमारी की ओर जाने वाले मार्ग के संगम तक।

**दक्षिण** – जी.सी.एफ. खम्मा नं. 8 डी एवं 8 सी के मध्य से आने वाले मार्ग एवं छ: खम्मा चांदमारी मार्ग से संगम से पश्चिम की ओर मार्ग के साथ–साथ आचार्य कृष्णपानी मार्ग होते हुये गोपाल होटल चौराहे तक। जहाँ सिद्धबाबा मार्ग का संगम है।

**पश्चिम** – गोपाल होटल एवं सिद्धबाबा मार्ग के साथ–साथ नारायण विश्वकर्मा भवन कं0 2196 से भवन कं0 2209 कपिल देव से भवन कं0 2222 आटा चक्की शिव मंदिर का हिस्सा से होते हुये गोपाल स्कूल 2284 से होते हुये भवन कं0 2217 तक भवन कं0 2240 से भवन कं0 2267 तक मुंशी प्रजापति पूर्व पार्षद का एरिया, पश्चिम की ओर पोल नं. 511 मकान नं. पुरानी 2351 नरबदा साह के मकान तक फिर वहां से डामर सड़क के (दक्षिण हिस्सा) नाले के किनारे मकान नं. 2588 मकान नं. 2488 पोल नं. के.आर. 151 श्री बाबूलाल गुप्ता के मकान के पास से होते हुये मकान नं. 2561 वहां मार्ग के साथ–साथ पोल नं. के.आर. 151 डी की दक्षिणी हिस्सा फिर डामर मार्ग से होते हुये मैल पार कर मकान नं. 2008 (नया) कृष्णपाल गौतम के मकान से होते हुये मकान नं. 1989 शातिबाई के मकान से पश्चिम ओर जाने वाले मार्ग कलाउ के मकान लकड़ी के मकान तक फिर मंदिर से टोरिया की ओर (कंचनपुर) तक। जहाँ सुदरबाई पति रामशंकर काढ़ी का मकान है।

### **वार्ड क्रं. 48 सिद्धबाबा**

**उत्तर** – बैतला ग्राम की दक्षिणी सीमा याने सिद्धबाबा टोरिया की दक्षिणी सीमा से जो सिद्धबाबा मन्दिर के दक्षिण पूर्व में हैं वहाँ से पूर्व की ओर एवं बैतलाप्राम से दक्षिण सीमा के पहाड़ी के मध्य के साथ–साथ रामगोपाल के मकान के पास कृष्णदेव पाण्डे के मकान नं. 1306 के उत्तर में पहाड़ी के मध्य से पिछाड़ी मोहल्ला होते हुये चीप वाली कुलिया से संगम तक जो सुंदर बाई पति रामशंकर काठी के मकान के सामने हैं।

**पूर्व** – बैतला ग्राम के दक्षिणी सीमा सिद्धबाबा टोरिया के पूर्व उत्तर पहाड़ी के मध्य होते हुये चीप वाले मार्ग के सहारे दक्षिण की ओर दुलारी बाई यादव के मकान के पास नये चांदमारी मार्ग के संगम जो के आर. 145 की ओर पोल नं. 145 से दक्षिण की ओर डामर सड़क के साथ–साथ नाला पारकर श्री हल्के सिंह के मकान के आगे पोल नं. के आर. 145 आई.एस.पी. 2 के आगे मोड़ पर श्री गणेश प्रसाद जिनके मकान के आगे मंदिर के बाजू से दाहिना हिस्सा मकान नं. 2548 पुराना पन्ना लाला काठी के मकान से होते हुये गिट्टी बोल्डर की कट्टी सड़क के साथ–साथ पोल नं. जे.आर. 151 सी. के मोड़ से नाले पर पुलिया पारकर मकान नं. 2612 पुराना के मकान नं. 2607 तक सिद्धबाबा मार्ग संगम से सड़क पारकर गोपाल होटल की ओर जाने वाली सड़क का दाहिना हिस्सा जो आचार्य कृष्णपलानी मार्ग संगम से जनता होटल तक।

**दक्षिण** – स्वामी रामकृष्ण परमहंस मार्ग झामनदास चौक की ओर मकान नं. 1882 के पास पाटबाबा टोरिया की दक्षिण मकान नं. 1882 के पास पाटबाबा टोरिया की दक्षिण वाली सड़क के साथ–साथ पश्चिम की ओर नाला मरघटाई की पूर्वी सीमा तक जो रामनरेश पासी के मकान के पास बिजली खम्मा नं. 113 जी.एस.पी. 10 तक।

**पश्चिम** – बिजली खम्मा नं. के.आर. 113 / जी.एस.पी. 10 डी से राम नरेश पासी के मकान के पीछे मरघटाई की पूर्वी सीमा के साथ–साथ उत्तर की ओर मरघटाई जाने वाले मार्ग की नई पुलिया पारकर गोहलपुर ग्राम की दक्षिणी सीमा के साथ–साथ उत्तर की ओर सिद्धबाबा टोरिया के मंदिर के दक्षिण में स्थित कुये के पास सिद्धबाबा टोरिया मध्य तक।

### **वार्ड क्रं. 49 लाल बहादुर शास्त्री**

**उत्तर** – पोल नं. एन.ए. 6 सीमेन्ट पोल से इबराहीम के मकान से कवार्टर नं. ई डब्ल्यू. एस 152 से होते हुए म.न. ई डब्ल्यू. एस 71 हमीद कम्पाउंडर के मकान से अकबर दूध वाले के मकान से आगे सादिक होटल के मकान से पुरानी पानी की टंकी पहाड़ी क्षेत्र होते हुए जीवन लाल पासी के मकान एवं मुस्ताक मंसूरी का मकान होते हुए रहीस भाईजान के सम्पूर्ण लाइंग टेंटी नीम वाले बाबा से नाले तक।

**पूर्व** – स्व. राम किशोर चौधरी के मकान से डॉ. पवौरी के मकान के पीछे का सम्पूर्ण हिस्सा एवं आगे सीधे हाथ झांडा चौक से होते हुए अद्दुल खालिक म.न. 600 से होते हुए सीधे हाथ का हिस्सा जमील हाजी के मकान से होते हुए पुराने स्लाइट हाउस तक।

**दक्षिण** – पंचकुईया चौक तहा मेडिकल स्टोर्स शाकील अहमद के मकान से तालिब दृश्य डेरी से सोलह क्वाटर सीधे हाथ का हिस्सा होत हुए डॉ. जगिरुल के मकान से रजा मिस्जद तक ।

**पश्चिम** – रख. शेख रशीद के मकान से खुनी नाला से किनारे के मकान लेते हुए आगे पंचकुईया चौक राजूटंट वाले के मकान तक ।

#### वाई क्र० 50 ठक्करग्राम

**उत्तर** – नथा स्लाटर हाउस कब्रिस्तान से सिंधी लाईन सईयद होटल से होते हुये सिंधि लाईन होते हुये शमशाद मुझाह की होटल से होते हुये सीधी लाईन बाबू सलाम वाले मकान से विश्वनाथ लाईन के मकान तक डॉ. पचोरी के आमने-सामने तक एवं बाबू सलाम के आगे तक ।

**पूर्व**— मजहर हाजी से सीधी लाईन होते हुए शब्बीर कुरेशी के मकान से डॉ सेन की गली से होते हुए सीधे हाथ का हिस्सा नागपुर वाले बाबा के मकान से सीधी लाईन होते हुए सुलभ शौचालय मुन्ना मिठाई से पुराना स्लाटर हाउस से अन्ना फारक की लाईन से होते हुए पंचकुईया चौराहा सुमान बाबा के मकान तक घसिया गेट होटल से सुलभ शौचालय वाली लाईन सलाम हयाती के मकान से रमजान होटल वाली लाईन से हड्डी गोदाम इलेक्ट्रीक इकान डॉ ताहिर का दावाखाना से बाये हाथ का हिस्सा गौसिया मदरसा सीधी लाईन से होते हुए सफो किराना से किलकारी गाड़न से घसिया कॉलोनी गेट तक एवं दादा सिया गंट के सामने से सीधी लाईन सरीफ पहलवान से बिल्ले के मकान से हाजी मजहर तक ।

**दक्षिण** – शंकर चौक से नबू खलीफा पुल से कब्रिस्तान बालंडीवाल से होते हुये नया कमेला तक ।

**पश्चिम** – राजाराम चौधरी बकील के मकान से होते हुये ठाकुर चक्री तक । रामपान किराना की दुकान से होते हुये जय माता दी राशन दुकान होते हुये हरीनारायण साहू जनरल स्टोर से पूर्व पार्शद पप्पू सोनकर मकान से होते हुए चौथ वाले बाबा की लाईन से अहिरवार के मकान तक । लाल जी साहू के मकान के पास एवं सामने होते हुये अयोध्या किराना स्टोर्स शंकर चौक तक ।

#### वाई क्र० 51 रविन्द्र नाथ टैगोर

**उत्तर** – (1) रददी चौकी स्टार होटल से खण्डेलवाल से होते हुए कासिम सरदार वेलिंग खुनी नाला तक ।

(2) कासिम सरदार वेलिंग से पूर्व पार्शद हाजी आमिन के गोदाम तक ।

(3) अहसान आटा चक्री से वाजदुल्कादरी की ओर से अंजुमन रक्कूल होते हुए सरफाबाद कालोनी बाबू टेलर के मकान तक पूर्व – हनीफ के मकान के बाजू से पोल नं. ए/26 सीमेन्ट पोल से सीधे हाथ किंग मेडिकल स्टोर्स से असरा कलेक्शन की लाईन से अजमत मूला से याकूब सौदागर के मकान तक ।

**दक्षिण – (1)** मालिक भाई के मकान से राजा मंजिल पोल नं ए.पी / 67 पुलिया से अग्रवाल पनी गोदाम होते हुए एसी लाईन में ऐसी ही ओ SS स्टील ट्रेडर्स तक एवं एसी हाथ पर होते हुए हमजा मस्जिद से सुलताना घाट नाले खलील किराना से सीधे लाईन सीधे हाथ का हिस्सा मुरली टेन्ट हाऊस के मकान से सीधे हाथ रददी चौकी स्टार होटल तक ।

**पश्चिम—** दाउद मास्टर के मकान से हाजी मजीद के मकान से होते हुए सोना स्टील से सीधे हाथ का हिस्सा रिपब्लिक स्कूल से असलम एडवोकेट हनीफ किराना नाले तक से होते हुए एस के टेन्ट से रजा चौक से उत्तर की ओर होते हुए म.नं.ई.डब्ल्यू. एस.62 से होते हुए म.नं.ई.डब्ल्यू. एस.159 से रजा मस्जिद से डॉ. जमिरुल हक के मकान से इलियाज दुध वाले का हिस्सा लेते हुए आविद होटल सीधी लाईन लेते हुए समीद होटल के सामने हिन्दी स्कूल वाली लाईन घसिया कॉलानी गेट से भवन से यासीन के मकान से हिस्सा सीधी लाईन से लेते हुए कर्ल खोड़ की राशन दुकान की लाईन से शेष निजामी वाला हिस्सा से सीधी लाईन मतीन होटल लेते हुए लतीफ कुरेशी शहजाद डिस्क की सीधी लाईन से नूरानी गेट से होते हुए राजक मार्केट से होते हुए दाउद टेलर्स मास्टर के मकान तक ।

#### वार्ड क्र. 52 पं. मदनमोहन मालवीय

**उत्तर:-** घग्गपुर चौक से बेलबाग थाना मुख्य मार्ग की ओर लकड़िगंज तिराहा, दर्शन चौक तक (बार्या और का हिस्सा तक) )  
**पूर्व :-** घग्गपुर चौक से पश्चिम की ओर जंजीरा पुल तक, जंजीरा पुल से ओमती नाला का दाया हिस्सा धोड़ा अस्पताल पुल होते हुए मध्य यादव के मकान तक ।

**दक्षिण :-** ओमती नाले के किनारे मध्य यादव के सामने से उड़िया मोहल्ला स्थित शंकर जी के मंदिर के पास पुल नं. सी 96 से पश्चिम की ओर जाने वाले मकान नं. पुराना 219 नया 511.512 से होते हुए सड़क पार कर नरिसंहदास सोनकर के मकान के सामने से डामल मार्ग जो पेशकारी मार्ग पर अच्छे लाल सोनकर के मकान के सामने से होते हुए पेशकारी स्कूल से बड़ी ओमती चौक तक ।

**पश्चिम :-** बड़ी ओमती से भरतीपुर मार्ग छुदा बक्श मस्जिद (दीपचंद यादव) मार्ग से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर लक्ष्मी टॉकीज के सामने से होते हुए गलगाला चौक स्थित दुर्गा मंदिर से पूर्व की ओर दर्शन चौक तक दाया हिस्सा होते हुये मुख्य मार्ग से लकड़िगंज तिराहा दाया हिस्सा ।

### वार्ड क्रं. 53 महर्षि अरविंद

**उत्तर:-** कात्यायनी मंदिर के सामने का क्षेत्र, भगवानदास विश्वकर्मा से ( पोल नं. एल / 166— एस.पी.-३ वी) राधा बाई से लक्ष्मीनारायण सौधिया से नारायण कश्यप से, दिलीप विश्वकर्मा से, राकेश कश्यप से (पोल नं. एल / 166—एस.पी.५ / डी) अशीष विश्वकर्मा से (पोल नं. जे.बी. ई 2 एल टी 03827) गुलाइ बाई लोधी से , प्रेमबाई पाठक से, छब्बीलाल समन से (पोल नं. एल / 166 एस.पी४ / २ ) से लक्ष्मी सौधिया से ढोलक प्रसाद कोरी से, विजय विश्वकर्मा से अनीता सेन से पानी की टंकी (बेलबाग टोरिया) से सरस्वती शिशु मंदिर से बकरा मार्केट (स्लाटर के सामने) विश्वकर्मा मार्ग पर स्थित मिठाई लाल ढोलक वाले के मकान से उत्तर की ओर डामर सड़क के साथ-साथ पुलिस बवाटर के सामने शुक्रवारी बजरिया मार्ग संगम होते हुए पूर्व की ओर भानुलेया तिराहे के पास एन.एच. पार कर प्रेमसागर मार्ग पर हरिजन बवाटर के सामने प्रेमसागर नाले की पुलिया तक।

**पूर्व:-** प्रेमसागर जाने वाली मार्ग स्थित हरिजन बवाटर के पास नाले से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर नाले के साथ-साथ कुण्डम मार्ग पार कर ओमटी नाले के संगम तक जो हनुमान मंदिर के दक्षिण पूर्वी कोने के पास है।

**दक्षिण:-** घमापुर चौक से बेलबाग थाना मुख्य मार्ग की ओर लकड़गंज तिराहा होते हुए फूटाताल चौक तक (दायी ओर का हिस्सा तक )

**पश्चिम :-** कात्यायनी माता मंदिर के सामने से विश्वकर्मा मंदिर होते हुए माखन तेली मार्ग के साथ-साथ उत्तर की ओर जूँड़ी तलैया मार्ग सगम की ओर (शेख पापा के मकान तक, फूटाताल उर्दू स्कूल के पीछे से (म.न. 34 पोल नं.163 तक) फूटाताल चौक जूँड़ी तलैया मार्ग संगम से मुख्य मार्ग (सराफा घमापुर चौक) की ओर बाया हिस्सा ।

### वार्ड क्रं. 54 पं. जवाहर लाल नेहरू

**उत्तर -** जंजीरा पुल की सीमा खण्डेलवाल कम्पाउण्ड से जिलायापी क्वार्टर होते हुये रामहरक का बगीचा मजार तक ।

**पूर्व -** मजार से कुचबिधि मोहल्ला पुल से गली की सीमा से फलजस्थि के मकान से रेल्वे स्टेशन रोड दीपक डेरी से रेल्वे स्टेशन रोड होते हुये हाउसिंग बोर्ड तिराहा होते हुये जेल के इंदिरा मार्केट पुल नं. 1 रेल्वे ट्रेक से होते हुये पुल न. 2 ऋषि रिजेन्सी तक ।

**दक्षिण -** ऋषि रिजेन्सी से मुख्य मार्ग से हाईकोर्ट चौराहे से होते हुये घंटाघर पुल तक ।

**पश्चिम -** घंटाघर नाला से किनारे होते हुये रामप्रसाद चौधरी के मकान से जंजीरा पुल तक ।

## वार्ड क्रं. 55 खेरमाई

**उत्तर —** खेयमार्ग हनुमानताल पुरानी चौकी से आने वाली कुलिया पी.एन.तिवारी के मकान से पूर्व की ओर खेया मार्ग होते हुए मिर्जापुर सड़क से संगम तक जो पंप हाउस के पास हैं, कात्यायनी माता मंदिर का क्षेत्र भगवानदास विश्वकर्मा (पोल नं.एल / 166-एस.ई.३ बी) राधा बाई से लक्ष्मीनारायण सोंधिया से नारायण कश्यप से (पोल नं.जे.बी.ई.२एल टी०३८२७) गुलाई बाई लोधी से प्रेम बाई पाठक से छब्बीलाल से (पोल नं.एल / 166-एस.पी.८/२) से लक्ष्मी सोंधिया से ढोलक प्रसाद कोरी से विजय विश्वकर्मा अनिता रेत से पानी की टंकी (बेलबाग टोरिया) से सरस्वती शिशु मंदिर से बकरा मार्केट (स्लाटर के सामने तक )।

**पूर्व —** नया मिर्जापुर मार्ग खेया के संगम से दक्षिण की ओर उसी मार्ग पर संगम भगवानतालैया तिराहा से सुलभ काम्पलेक्स होते हुए शुक्रवारी बजरिया के संगम तक ।

**दक्षिण —** शुक्रवारी बजरिया मार्ग के संगम एशिया टेंट हाउस से पश्चिम से दक्षिण की ओर बकरा स्लाटर हाउस एवं मकान नंबर 600 अब्दुल बाकर के बाये हाथ एवं दाया हाथ 1785 गफ्फार बाबू के मकान से पश्चिम की ओर 1777 किशन विश्वकर्मा के मोड़ से उत्तर गली होते हुए पश्चिम की ओर सड़क होते हुए जहीर भाई के मकान से पार कर पश्चिम की ओर चुन्न खां के मकान से पश्चिम की ओर गली के साथ साथ भगवानदास सिधी पश्चिम उत्तर की ओर जाने वाली सीमेंट सड़क।

**पश्चिम —** हनुमानताल संगम पर हनुमनप्रसाद वर्मा के मकान से होते हुए शुक्रवारी बजरिया के संगम एवं एशिया टेंट हाउस के सामने अंजीम किराना के मकान से होते हुए चाढ़ुआ कुआ एवं सामने पूर्व पार्श्व श्री नवी अहमद के मकान से टेक से दाय हाथ पर सीधे अंधिक फर्नीचर होते हुए संगम तक का परिया ।

## वार्ड क्रं. 56 शहीद अब्दुल हमीद

**उत्तर —** राष्ट्रीय राजमार्ग 7 मिर्जापुर मुख्यमार्ग अधारताल तिराहे के संगम से मिलक रकीम औद्योगिक क्षेत्र मार्ग की ओर नगर निगम हॉकर्स जोन सब्जी मंडी होते हुये संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा एवं मिलक रकीम होते हुये शासकीय उ.मा. विद्यालय तक ।

**पूर्व —** औद्योगिक क्षेत्र मुख्यमार्ग पर स्थित शासकीय उ. मा. विद्यालय से प्रारंभ होकर पश्चिम दिशा की ओर नेता कालोनी मिलन आठ चक्की म. नं. 4009 होते हुये रजा कलीनिक कटीर मुशी के मकान से होते हुये रजा चौक म.नं. 2668 मुईनुद्दीन मंसूरी के मकान तक ।

**दक्षिण —** रजा चौक म.नं. 2668 मुईनुद्दीन मंसूरी के मकान से प्रारंभ होकर कुरैशी मार्बत के मकान से आगे रेटल व्हाटर व्हाइंग बोर्ड से न्यू जनता व्हाटर पानी की टंकी से होते हुये खूनी नाले के साथ-साथ कारिम सरदार वेलिंग के मकान नं. 2041 तक ।

**परिचय** – राष्ट्रीय राजमार्ग 7 मुख्यमार्ग कासिम सरदार वेलिंग के मकान नं. 2041 से प्रारंभ होकर मौसम कार्यालय आनंद नगर बस स्टॉप स्प्रिंग डे रक्कूल विमल नर्सरी होम कमला भंडार न्यू नगर निमाम मार्केट होते हुए मिर्जापुर अधारताल मुख्यमार्ग तिरहैं के संगम तक।

### वार्ड क्रं. 57 महर्षि महेश योगी

**उत्तर** – अमरेला मार्ग पर सीमाकर के साथ–साथ उत्तर की ओर जयप्रकाश नगर मुख्यमार्ग के संगम तक फिर वहाँ से पूर्व की ओर जयप्रकाश मुख्यमार्ग के साथ–साथ 1281 तथा सुमद्रा कुंज के मध्य से बिजली खंभा नं. 18 आदर्श विद्या मंदिर होते हुये यूएस. राजपूत के लाल बंगले तक। फिर पुष्कर नगर मार्ग के साथ–साथ दक्षिण की ओर पुष्कर नगर मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के संगम तक।

**पूर्व–दक्षिण** – पुष्कर नगर रोड एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के संगम से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 7 के साथ–साथ आनंद नगर बसस्टॉप मुख्यमार्ग के सामने स्थित आर के किराना स्टोर्स तक।

**पश्चिम** – राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्टोर्स से प्रारंभ होकर उत्तर दिशा की ओर मोनालिसा ब्यूटी पार्लर तथा पोस्ट ऑफिस होते हुये डॉ. पारिष्ठ के मकान से होते हुये पश्चिम दिशा की ओर पोल नं. आर/10 पोल नं. आर/9 वहाँ से उत्तर दिशा की ओर त्रिमूर्ति मिडिल स्कूल होते हुये पोल नं. आर/8/3 चित्रा सोनी के मकान से होते हुये पश्चिम की ओर पोल नं. एएन/बी/15/4 एमजेड आठा चक्की होते हुये अमरेला मुख्यमार्ग से उत्तर दिशा की ओर सोनू दुबे के मकान नगर निगम सीमा तक।

### वार्ड क्रं. 58 सर्वपल्ली राधाकृष्णन

**उत्तर** – नया मिर्जापुर मार्ग के पूल के पास पहाड़ी नाले के साथ – साथ पूर्व की ओर चौथवाले बाबा के मंदिर के पीछे से होते हुए भगवानदास कोरी के मकान के पास राजेन्द्र नगर मार्ग के संगम व. म.न. 1402 सड़क पारकर राजेन्द्र नगर मार्ग की ओर कच्चे-मार्ग से उत्तर की ओर नयी पुलिया मकान नं. 1440 मकान के बगड़ा गोदाम पुरानी टंकी अर्थात् तीन कुंजा के पास के नाले के संगम से सुखलाल खटीक के बगीचे के बाजू से नाला जो पहाड़ी के मध्य निलata है नाले का पूर्वी हिस्सा सिद्धबाबा मंदिर के दक्षिण में कुंग के पास सिद्धबाबा मार्ग के संगम तक।

**पूर्व** – सिद्ध बाबा मंदिर के दक्षिण में कुएँ के पास सिद्ध बाबा मार्ग के संगम से गोहलपुर ग्राम के दक्षिण सीमा के साथ अर्थात् दक्षिण पश्चिम के ओर मरघटाई मार्ग की नयी पुलिया पार कर शामशान के उत्तरी सीमा के साथ गोहलपुर पनहरा तथा जबलपुर ग्राम के तिरहे से होतु हुए मरघटाई मार्ग एवं गनेश गंज मार्ग संगम से दक्षिण की ओर मरघटाई मार्ग होतु हुए प्रेमसागर पुलिस चौकी के तक जो प्रेमसागर मार्ग पर स्थित है ।

**दक्षिण** – प्रेमसागर मार्ग पुलिस चौकी से पश्चिम की ओर प्रेमसागर मार्ग द्वारा मिर्जापुर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 के संगम से होतु हुए शुक्रवारी बजरिया मार्ग के संगम तक जो भानतलैया पुलिस चौकी के पास है ।

**पश्चिम** – नये मिर्जापुर मार्ग भानतलैया तथा शुक्रवारी बजरिया मार्ग के संगम से उत्तर की ओर नये मिर्जापुर मार्ग पर बने मोतीनाला के पुल तक जो मुखलमान कब्रिस्तान के पास है ।

### वार्ड क्र. 59 शहीद अशफाक उल्ला ख्याँ

**उत्तर** – गुललहा पुल के पास गोहलपुर मार्ग के संगम से पूर्व की ओर सीमून्ट मार्ग द्वारा पुराने गोहलपुर के मकान नं. 614 हाजी रज्जाक के मकान के सामने वाली कुलिया से उत्तर की ओर हीद उल्ला छाँ तथा हाजी इब्राहिम के मकान जो सामने से होते हुए बेनीसिंह तलैया मार्ग के संगम तक जो गोहलपुर इमाम बाड़ा के कुएँ के पास है वहाँ से पूर्व की ओर बेनीसिंह तलैया मार्ग द्वारा चार खंभा के पास नालबंद मोहल्ला मार्ग पार कर तिलयाना मार्ग द्वारा नई मिर्जापुर मार्ग के संगम तक जो मुखलमान के कब्रिस्तान के पास है ।

**पूर्व** – नया मिर्जापुर मार्ग मुखलमान कब्रिस्तान के पास तिलयाना मार्ग के संगम से दक्षिण की ओर उसी मार्ग के साथ साथ मुखलमान कब्रिस्तान के दक्षिण पश्चिम कोने के पास मोतीनाला के पुल तक ।

**दक्षिण** – मोतीनाला मुखलमान कब्रिस्तान के पास नई मिर्जापुर सड़क पर बने मोतीनाला के पुल से उसी नाले के साथ साथ पश्चिम की ओर श्यामसिंह के धड़े पर बने नये मोतीनाला के पुल तक वहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने वाले बरिया मार्ग के द्वारा शमशूददीन की मकान नं. 423 मोतीनाला के सामने से होते हुए हाजी अब्दुल्ला जब्बार के पुराने मकान नं. 521 के समीप नालबंद मोहल्ला मार्ग के द्वारा दक्षिण की ओर छोटे सोनकर के मकान के पास वाली पुलिस तथा ढलागपुर मार्ग के संगम तक ।

**पश्चिम** – नालबंद मोहल्ला मार्ग के संगम से छोटे सोनकर वाली कुलिया के द्वारा शेख मोहम्मद के मकान के पास पुराने दक्षिण मिलोनीगंज उद्दृ रुक्तुल वाली कुलिया का संगम कर गुललहा पुल के पास मोतीनाला के संगम तक ।

### वार्ड क्र. 60 नर्मल.चंद्र जैन

**उत्तर** – उर्दना नाले एवं कृषि नगर कालोनी के मार्ग के संगम से पूर्व दिशा की ओर उर्दना नाले के साथ-साथ होते हुये उर्दना नाले पर बने मध्य रेलवे लाइन के पुल तक ।

**पूर्व** — उर्दना नाले पर बने मध्यरेल्वे लाइन के पुल (तीन पुलिय) दक्षिण की ओर रेल्वे लाइन के साथ—साथ शोभापुर रेल्वे कासिंग तक।

**दक्षिण** — शोभापुर रेल्वे कासिंग तथा मार्ग के साथ पश्चिम की ओर औद्योगिक क्षेत्र की ओर होते हुये कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय तक।

**पश्चिम** — शोभापुर मेनरोड से उपाध्याय रेस्टारेंट के बाजू की सड़क से होते हुये पूर्व की ओर राधेश्याम से शासकीय उ.मा. शाला कंचनपुर डब्ल्यू. एस. राय से उत्तर की ओर वर्मा आटा चक्की से पश्चिम की ओर म.प्र. राज्य बीज भंडार संस्थान होते हुये मेन सड़क शोभापुर मार्ग पर शामिल। नोट—(निर्मलचंद जैन वार्ड क्र.43 की सीमा से काटे गये हिस्से को दीवान आधार सिंह वार्ड क्र.44 में शामिल किये गये भाग की चौहदादी का विवरण)

#### वार्ड क्र. 61 दीवान आधार सिंह

**उत्तर** — माधो प्रसाद काठी के मकान के तिमंडे से प्रारंभ होकर नगर निगम सीमा के साथ—साथ उत्तर फिर पूर्व की ओर उर्दना नाले के साथ—साथ नये मिर्जापुर मार्ग या. मार्ग 7 पार करते हुये कृषि नगर कालोनी को लेते हुये बंगलादेश कालोनी के पास उर्दना नाले तथा कृषि नगर कालोनी के मार्ग संगम तक।

**पूर्व** — कृषि नगर एवं उर्दना नाले के पुल तथा कृषि कालोनी को जाने वाले मार्ग संगम से दक्षिण की ओर अभियांत्रिकी केन्द्र मुख्य मार्ग तक।

**दक्षिण** — कृषि अभियांत्रिकी केन्द्र मुख्य मार्ग से पश्चिम दिशा की ओर मुख्य मार्ग के साथ—साथ अधारताल तिरहा पार कर पुष्टक नगर मार्ग एवं रा.रा.मार्ग 7 के संगम तक वहां से रा.रा.मार्ग 7 एवं पुष्टक नगर मार्ग के संगम से पश्चिम की ओर मार्ग के साथ—साथ यू.एस. राजपूत के बंगले तक वहां से आदर्श विद्या मंदिर होते हुये बिजली खंभा नं. जे. 18 तक वहां से पश्चिम की ओर म. नं. 1281 तक सुभदा कुंज मकान से जाने वाले मार्ग के साथ—साथ नगर निगम सीमा तक।

**पश्चिम** — शोभापुर मेन सड़क से उपाध्याय रेस्टारेंट के बाजू की सड़क होते हुये पूर्व की ओर दुल्हा देव मंदिर से उत्तर की ओर अवस्थी रिलाइंस 4 डी टावर से पश्चिम की ओर राकेश जायसवाल नहर सड़क से शोभापुर मार्ग पर शामिल कृषि नगर मार्ग तथा उर्दना नाले के संगम तक। नोट—(निर्मलचंद जैन वार्ड क्र.43 की सीमा से काटे गये हिस्से को दीवान आधार सिंह वार्ड क्र.44 में शामिल किये गये भाग की चौहदादी का विवरण)

## वार्ड क्रं. 62 डॉ. भीमराव अंबेडकर

**उत्तर** – द्वीकल खंभा नं. 99 से द्वीकल सीमा होते हुये उत्तर पूर्व की ओर शारदा नगर आदिवासी छात्रावास से पीछे से दक्षिण की ओर नेचर पार्क की सीमा होते हुये रक्षा कालोनी की सीमा से पहाड़ी क्षेत्र से होते हुये अमर नार ढीकल मार्ग तक पुनः श्री उमेश पाण्डे से होते हुये उत्तर पूर्व की ओर ढीकल रोड होते हुये उत्तर पूर्व किशन होटल के सामने पुष्पा पान भंडार तक।

**पूर्व** – किशन होटल के सामने से मरताना चौक डॉ. लालवानी से होते हुये रांझी कुँडम मार्ग संगम दर्शन तिरहा तक।

**दक्षिण** – रांझी मार्ग के संगम से कुँडम मार्ग द्वारा पश्चिम की ओर सी.ओ.डी. मार्ग के संगम होते हुये केंटामेंट सीमा के खंभा नं. 31/41 तक वहाँ से केंटामेंट सीमा के साथ-साथ पश्चिम की ओर जलशोधन संयंत्र के मार्ग के संगम तक जो लक्ष्मी नारायण यादव स्कूल के दक्षिण-पश्चिम कोने के सामने केंटामेंट सीमा नं. 31/36 एवं 31/33 होते हुए जलशोधन संयंत्र के पश्चिम तरफ नाले एवं कुँडम मार्ग के संगम तक।

**पश्चिम** – नगर निगम जलशोधन संयंत्र के पश्चिम की ओर के नाले एवं कुँडम रोड के संगम से नाले के साथ-साथ जलशोधन संयंत्र के उत्तर पश्चिम की ओर दीवार तक वहाँ से पूर्व की ओर राम नगर, शारदानगर बसियरों के किनारे-किनारे ढीकल फेकटरी की सीमा के संगम तक।

## वार्ड क्रं. 63 शहीद भगत सिंह

**उत्तर** – बिलपुरा ग्राम की दक्षिण सीमा एवं नगर निगम सीमा मकान नं. 445 देवी सिंह के मकान से पूर्व की ओर मोहनिया गांव को जाने वाले मार्ग के संगम तक जो रांझी इमशान घाट के पीछे से होते हुये पूर्व की ओर निगम की उत्तरी सीमा के साथ मोहनिया एवं रांझी ग्राम के तिमेडे तक।

**पूर्व** – मोहनिया, मानेगांव, रांझी ग्राम के तिमेडे से दक्षिण की ओर नगर निगम की पूर्व सीमा के साथ-साथ मानेगांव चम्पानगर निगम खररा नं. एम.टी. /44 से पश्चिम में निर्मित नाले के ऊपर पुलिया खंभा नं. एम.टी. /45 तक।

**दक्षिण** – मानेगांव चम्पानगर पुलिया से मोहित किरना तक ट्रांसफार्मर खंभा नं. 44 /434 से सुमदा रजक के मकान होते हुये सेंट ग्रेवियल बाउण्डी से पीछे होते हुये खंभा नं. 44 /423 से होते हुये टीटू शर्मा की डुकान के बाजू से सरापीपल चौक होते हुये बड़े पत्थर के आगे बने सामुदायिक भवन के सामने मार्ग के संगम तक।

**पश्चिम** – बड़ा पत्थर जे.डी.ए. मार्केट चौक से बेला बेलिंग डुकान होते हुये तारा चंद साहू के मकान से होकर शिव मंदिर होते हुये श्री विश्वकर्मा के मकान से होते हुये पूर्व की ओर गोविंद सिंह के मकान से उत्तर की ओर जे.डी.ए. कार्यालय के बाजू व पीछे से होते हुये एल.आई.जी. क्वाटर के पूर्व की ओर बिलपुरा रोड की पुलिया से होते हुये बिलपुरा ग्राम की दक्षिण सीमा तक।

### **वार्ड क्र. 64 महार्षि सुदर्शन**

**उत्तर** – आदिवास छात्रावास शारदा नगर के पीछे से घैंकल स्टेट की सीमा होते हुये बजांग नगर होते हुये काली मंदिर तक, काली मंदिर से सेंट मेरी रक्कूल बाउण्डी से होते हुये दक्षिण मुखी हुगुमान मंदिर होते हुये शारदा ऐकवार के मकान से ग्राम पंचायत होते हुये अपसा कांनचेट से पीछे पहाड़ी से होते हुये श्री यू. एस. बिहारे के मकान के पीछे तक।

**पूर्व** – श्री यू. एस. बिहारे के मकान से काली मंदिर जो.डी.ए. कार्यालय के पीछे से जो.डी.ए. कार्टर्स होते हुये श्री गोविंद सिंह के मकान तक, श्री गोविंद सिंह के मकान के ओर विश्वकर्मा के मकान से सामने से होते हुये दक्षिण की ओर रामदीन केवट के मकान के सामने से पूर्व की ओर श्री गोस्वामी के मकान से साहू किराना स्टोर्स होते हुये वकील श्री मदन मोहन साहू के मकान से होते हुये बड़ा पत्थर चौक स्थित तिपासी टेलीकाम होते हुये मेजर किराना गंज रक्कूल पीतम किराना स्टोर्स किशन होटल के सामने तक।

**दक्षिण** – किशन होटल के सामने से पीतम किराना स्टोर्स से दक्षिण पश्चिम की ओर श्री महेन्द्र सिंह बघेल के मकान तक, राठौर के मकान होते हुये पहाड़ी क्षेत्र होते हुये रक्षा कालोनी सीमा तक।

**पश्चिम** – रक्षा कालोनी सीमा से एस.ए.एफ. बाउण्डी होते हुये नेचर पार्क के पीछे होते हुये शारदा नगर आदिवासी छात्रावास घैंकल सीमा तक।

### **वार्ड क्र. 65 सुभाष चंद्र बैनर्जी**

**उत्तर** – रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नं. 1 से रेलवे पुल क्र. 1 से लोका तलैया लोका व्याडर अपर लाईन होते हुये रेलवे लाईन के साथ साथ जी.सी.एफ. पोल क्र. 29 तक।

**पूर्व** – जी.सी.एफ. पोल क्र. 29 से जी.सी.एफ. चुंगी चौकी नाका से जस्टिस श्री शिशिर चंद्र पाण्डे जी के निवास से सांसद निवास चौराहे से साँझस कालोज महाकोशल कालोज होते हुये यूनिवर्सिटी तिराहे तक। यूनिवर्सिटी तिराहे से रिज रोड हुगुमान मंदिर भारतीय स्टेट बैंक रिज रोड तक।

**दक्षिण** – रिज रोड खम्बा नं. 17 से लोहिया पुल तनखा मेमोरियल स्कूल होम गार्ड आफिस के सामने से दैनिक भास्कर प्रेस के सामने से सेंट थामस रक्कूल के सामने से होते हुये माता मरियम चौराहे से एम्पायर टाकीज के सामने से होते हुये रेलवे पुल क्र. 2 तक।

**पश्चिम** – रेलवे पुल क्र. 2 से रेलवे लाईन के पूर्व वाला हिस्सा) रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म क्र. 1 तक।

## वार्ड क्रं. 66 रानी लक्ष्मीबाई

**उत्तर :-** केन्द्रोमेंट कर सीमा खर्बा नं. 78 एवं 77 के बीच जहां काटी है उस संगम से प्रांत वार्ड की ओर केन्द्रोमेंट की सीमा के साथ-साथ खर्बा नं. 77 से 76 सी., 76 बी., 76 ए एवं 75 होते हुए कण्डला भार्ग पार कर केन्द्रोमेंट सीमा खर्बा नं. 74,75,72,71,70,69,68, 67,66,65,64,63,62,61,60,59 तक।

**पूर्व :-** नगर निगम सीमा से नहगवा ग्राम की पश्चिम सीमा तथा सुखलालपुर ग्राम की उत्तरी पश्चिमी सीमा होते हुये बनार निगम की पूर्वी सीमा के साथ-साथ दक्षिण की ओर ग्राम उमरिया की उत्तरी सीमा तक।

**दक्षिण :-** ग्राम उमरिया की उत्तरी सीमा से होते हुये फिर पश्चिमी सीमा के साथ-साथ गोरेया घाट की उत्तर पूर्वी सीमा और नदी एवं गोरेया घाट ग्राम की सीमा के संगम तक।

**पश्चिम :-** गोरेया घाट ग्राम की पूर्वी सीमा एवं गोर नदी के संगम से प्रांत वार्ड करजरवारा ग्राम की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ करजरवारा बस्ती क्षेत्र और गाड़ार बस्ती क्षेत्र एवं धोबीघाट बस्ती शामिल होते हुये वाट बर्क्स भार्ग के साथ-साथ भोंगदार नाले को पार कर केन्द्रोमेंट की सीमा और 74,75 सी. एवं स्वामी अध्यपा रक्खूल सुरेश यादव के अकान से बर्क्स योड भूलचंदानी छूटप्लेश होते हुये वापिस मेनरोड सीमा के साथसाथ ए.पी.आर. कालोनी मॉडल टाउन कृष्णा होम नर्मदा बगर सीमा के साथ-साथ मेनरोड धंदारी पुल के पास पिंक सिटी वेयरहाउस रोड करजरवारा सीमा तक होते हुये।

## वार्ड क्रं. 67 वीरांगना रानी अवंतीबाई

**उत्तर :-** केन्द्रोमेंट सीमा कण्डला रोड कुद्यकार्ग खर्बा नं. 76 एवं 75 के बीच वाली सड़क से सीधे यंदारी नाला होते हुये। दक्षिण की ओर होते हुए कण्डला भार्ग जोर तक।

**पूर्व :-** बिलहरी धंदारीनाला तिलहरी ग्राम का संगम होते हुए चौथाकील से नगर निगम की सीमा से और तियाहे के जमतरा मोड तक।

**दक्षिण :-** कुडिरिया ग्राम से होते हुए ग्राम पंचायत के संगम झुल जमतरा परसवारा का बस्ती क्षेत्र।

**पश्चिम :-** धोयानील से होकर जेरॉक्स कालेज योड तिलहरी ग्राम के सामुदायिक अवन से होते हुए छिलता ग्राम बस्ती अटेली नदी की सीमा तक।

## वार्ड क्रं. 68 गोकलपुर

**उत्तर पूर्व -** ढीकल फेकटी खर्बा नं. 99 से ढी.एफ.जे. की पूर्वी सीमा पर अबेडकर वार्ड की पश्चिमी सीमा के संगम से होकर दक्षिण की ओर राम नगर शारदा नगर बस्तियां से पीछे से होते हुये जलशोधन संयंत्र की उत्तरी सीमा के साथ-साथ जलशोधन संयंत्र की पश्चिम की ओर नाले के साथ-साथ कुडम मार्ग के साथ-साथ पूर्व की ओर खर्बा नं. 31/33 तक।

**दक्षिण** — केंटोमेंट सीमा के खम्बा नं. 31/33 से जलशोधन मार्ग के संगम के पास से पश्चिम दक्षिण की ओर केंटोमेंट सीमा के साथ—साथ खम्बा नं. 31/24 होते हुये जी.सी.एफ. खम्बा नं. 18 के पास नाले के पुल तक वहाँ से उत्तर फिर पूर्व की ओर जी.सी.एफ. खम्बा नं. 17,16,15,14,13 होते हुये मध्य रेलवे लाईन पर जी.सी.एफ. खम्बा नं. 12 तक।

**पश्चिम** — जी.सी.एफ. सीमा खम्बा नं. 12 से उत्तर की ओर जी.सी.एफ. सीमा खम्बा नं. 11 बी. 11 ए होते हुये घी.एफ.जे. के खम्बा नं. 29 से पूर्व की ओर घी.एफ.जे. सीमा के साथ—साथ खम्बा नं. 128 तक, वहाँ से घी.एफ.जे. सीमा के साथ—साथ उत्तर की ओर खम्बा नं. 148 तक वहाँ से घी.एफ.जे. सीमा के साथ—साथ उत्तर की ओर खम्बा नं. 99 तक।

### वार्ड क्रं. 69 चंद्रशेखर आजाद

**उत्तर** — बड़ा पथर सामुदायिक भवन से होते हुये सरणीपल चौक तक, श्री टीटू शर्मा की डुकान के बाजू से होते हुये, 44/423 तक सेंट ग्रेवियल स्कूल के पीछे की बाउन्ड्री से मकान नं. 3135/2 श्रीमति सुभदा रजक के मकान से होते हुये द्रासफार्म खम्बा नं. 44/434 तक, मोहित किराना के सामने से चम्पा नगर पुलिया तक।

**पूर्व** — नगर निगम की पूर्वी सीमा खम्बा नं. एम.टी. 45 मानेगांव की पुलिया से दक्षिणी की ओर निगम की पूर्वी सीमा के साथ—साथ नाला चबदन नगर के पूर्व की ओर खमरिया स्टेट की सीमा केट होते हुये नाले द्वार सिंचाई की नहर एवं कुँडम मार्ग पार कर केन्टामेंट की सीमा खम्बा नं. 31/50 तक जो रेलवे लाईन के दक्षिण किनारे पर स्थित है।

**दक्षिण** — केंटोमेंट सीमा खम्बा नं. 31/50 से पश्चिम की ओर खम्बा नं. 31/41 तक सी.ओ.डी. जाने वाले मार्ग पर स्थित है।

**पश्चिम** — केंटोमेंट सीमा के खम्बा नं. 31/41 तक सी.ओ.डी. द्वारा मार्ग उत्तर की ओर कुँडम मार्ग के संगम तक वहाँ से पूर्व की ओर कुँडम मार्ग द्वारा रांझी मार्ग द्वारा उत्तर की ओर रांझी रुक्ल के सामने से होते हुये बड़ा पथर सामुदायिक भवन तक।

### वार्ड क्रं. 70 लाला लाजपत राय

**उत्तर** :— ग्राम मोहनिया एवं बिलपुरा के उत्तरी सीमा के साथ—साथ ग्राम मोहनिया की उत्तरी सीमा के साथ—साथ मानेगांव के तिमेडे से प्रारंभ होकर ग्राम मोहनिया की पूर्वी सीमा के साथ—साथ ग्राम मानेगांव चंदेली की सीमा स्थित तिमेडे को पार करते हुये ग्राम चंदेली की सीमा के साथ—साथ ग्राम महगावा के तिमेडे को पार करते हुये ग्राम महगावा की सीमा के साथ—साथ ग्राम चंदेली की सीमा के साथ—साथ ग्राम चंदेली की सीमा स्थित तिमेडे तक।

**पूर्व** :— ग्राम चंदेली डुमना की सीमा स्थित तिमेडे से प्रारंभ होकर ग्राम चंदेली की पूर्वी सीमा के साथ—साथ ग्राम चंदेली ग्राम चंदेली ग्राम कोटा के साहरे ग्राम चंदेली ग्राम चंदेली ग्राम कोटा के तिमेडे तक।

**दक्षिण:-** ग्राम चकदेही, गढ़ेरी एवं ग्राम कोटा के तिमेडे से प्रांग होकर ग्राम चकदेही की सीमा के साथ-साथ ग्राम चकदेही महगावा की सीमा स्थित तिमेडे को पार करते हुये ग्राम महगावा के साथ-साथ ग्राम महगावा, कोटा की सीमा स्थित तिमेडे एवं वार्ड क. सी-10 की सीमा एवं महगावा के सहारे केन्ट बोर्ड की सीमा तक।

**पश्चिम :-** ग्राम महगावा की सीमा एवं केन्ट एरिया की सीमा से प्रांग होकर ग्राम महगावा एवं ग्राम चंदेली के तिमेडे को पार करते हुये ग्राम चंदेली की सीमा के साथ-साथ केन्ट एरिया के सहारे ग्राम चंदेली, मानेगाव के तिमेडे को पार करते हुये वार्ड क. सी-4 की सीमा के एवं मानेगाव एवं मोहनिया के तिमेडे को पार करते हुये मोहनिया की सीमा के साथ-साथ ग्राम बिलपुरा की उत्तरी सीमा के तिमेडे तक।

### वार्ड क्र. 71 नया वार्ड

**उत्तर :-** ग्राम छीतापार की उत्तर पश्चिम सीमा से प्रांग होकर ग्राम छीतापार की उत्तरी सीमा के सहारे ग्राम तेवर की उत्तरी सीमा के सहारे ग्राम पिन्डरई की उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम अंधुआ और बहदन की पश्चिमी सीमा से होकर रेलवे लाईन पार कर ग्राम बहदन से ग्राम मोहनिया की सीमा से उत्तर-पूर्व सीमा के सहारे ग्राम परसवारा की पूर्व सीमा तक।

**पूर्व :-** ग्राम परसवारा की पूर्व सीमा से प्रांग होकर परसवारा एवं वार्ड की सीमा के सहारे ग्राम अंधुआ की सीमा के सहारे ग्राम कुंगवा की सीमा वार्ड की सीमा के सहारे ग्राम तेवर की पूर्वी सीमा एवं वार्ड की सीमा के सहारे ग्राम चौकीताल की पूर्वी सीमा होते हुए ग्राम दलपतपुर एवं ग्राम रमनगरा की सीमा के सहारे नर्मदा तट तक।

**दक्षिण :-** दक्षिण सीमा :- नर्मदा तट से लगी ग्राम रमनगरा की सीमा के पश्चिमी तिमेडा एवं ग्राम दलपतपुर के तिमेडे से प्रांग होकर नर्मदा नदी एवं ग्राम दलपतपुर की सीमा के सहारे दलपतपुर की पश्चिमी सीमा के तिमेडे तक।

**पश्चिम :-** नर्मदा तट से लगी ग्राम दलपतपुर की दक्षिणी सीमा के तिमेडे से दलपतपुर की पश्चिमी सीमा के सहारे उत्तर की ओर ग्राम चौकीताल के तिमेडे से होते हुये चौकीताल पश्चिमी सीमा के सहारे ग्राम तेवर एवं चौकीताल के तिमेडे से ग्राम तेवर की सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर ग्राम छीतापार की सीमा के तिमेडे से होकर ग्राम छीतापार के तिमेडे से ग्राम छीतापार की सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर ग्राम छीतापार की उत्तर पश्चिम की सीमा तक।

### वार्ड क्र. 72 नया वार्ड

**उत्तर :-** ग्राम औरिया खमरिया के पश्चिम उत्तर तिमेडे से प्रांग होकर ग्राम औरिया की सीमा के सहारे कठौदा ग्राम की उत्तरी सीमा के साथ-साथ ग्राम गुर्दा की पश्चिमी सीमा तक।

**पूर्व :-** ग्राम कठौदा की पूर्वी सीमा से प्रांग होकर कठौदा की सीमा के साथ-साथ ग्राम अमखेरा की पश्चिमी सीमा तक।

**दक्षिण:-** ग्राम अमखेरा की पश्चिमी सीमा कठौदा ग्राम की पूर्वी दक्षिणी सीमा से प्रारंभ होकर कठौदा ग्राम एवं वार्ड की सीमा के सहारे रिवाझ की सीमा के साथ-साथ औरिया ग्राम की दक्षिणी सीमा एवं करमेता की पश्चिमी सीमा के सहारे पश्चिम से दक्षिण की ओर वार्ड की सीमा होते हुए नंदनी रोसरा एवं करमेता की सीमा के पश्चिम से होते हुए रवांडा, बसहा, कचनरी, सिमरिया ग्राम की दक्षिण पश्चिम सीमा तक।

**पश्चिम :-** ग्राम सिमरिया की दक्षिण पश्चिम सीमा से प्रारंभ होकर सिमरिया की पश्चिमी सीमा के सहारे रेगवा, नंदना, नंदनी रोसरा, खमरिया, औरिया की पश्चिमी सीमा तक।

### वार्ड क्र. 73 नया वार्ड

**उत्तर :-** ग्राम करमेता की पश्चिम उत्तर की सीमा से प्रारंभ होकर करमेता ग्राम की उत्तरी सीमा के सहारे ग्राम औरिया, करमेता की उत्तर पूर्व सीमा तक।

**पूर्व :-** ग्राम औरिया, करमेता की उत्तर पूर्व सीमा से प्रारंभ होकर करमेता की पूर्वी सीमा एवं वार्ड की सीमा के सहारे ग्राम लमती की उत्तर पूर्व सीमा तक।

**दक्षिण:-** ग्राम करमेता की दक्षिण सीमा लमती की उत्तर पूर्व सीमा से प्रारंभ होकर करमेता की दक्षिणी सीमा के सहारे ग्राम करमेता एवं रखशा की सीमा तक।

**पश्चिम :-** ग्राम करमेता की दक्षिण पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर करमेता की दक्षिण पश्चिम सीमा के सहोर उत्तर की ओर करमेता एवं औरिया की सीमा के संगम तक।

### वार्ड क्र. 74 नया वार्ड

**उत्तर :-** ग्राम कठौदा गुरदा के उत्तर (तिमेडे) से प्रारंभ होकर ग्राम गुरदा की पूर्वी सीमा के साथ-साथ महाराजपुर में प्रवेश होने वाले मार्ग के सहारे मार्ग के साथ-साथ ग्राम कुदवारी की उत्तरी सीमा के साथ-साथ ग्राम सुहागी के भाग मोड़ तक।

**पूर्व :-** सुहागी ग्राम की सीमा से प्रारंभ होकर सुहागी के भाग (मोडे) से पूर्व एवं दक्षिण की ओर सुहागी के भाग क्षेत्र से होते हुए डेयरी फार्म के पीछे से उर्दना नाले तक।

**दक्षिण:-** उर्दना नाले से प्रारंभ होकर वार्ड की सीमा के सहारे अमखेरा ग्राम की दक्षिण सीमा के साथ-साथ अमखेरा ग्राम की दक्षिण पश्चिम सीमा तक।

**पश्चिम :-** अमखेरा ग्राम की दक्षिण पश्चिम सीमा से प्रारंभ होकर अमखेरा की पश्चिमी सीमा के सहारे पश्चिम से उत्तर की ओर कुदवारी की सीमा से होते हुए गुरदा की पश्चिमी सीमा तक।

### वार्ड क्रं. 75 नया वार्ड

**उत्तर :-** ग्राम बघेली की पश्चिमी सीमा स्थित तिमेडे से प्रांभ होकर ग्राम बघेली की सीमा के साथ-साथ ग्राम उर्दुआ खुर्द के तिमेडे को पार करते हुए ग्राम उर्दुआ खुर्द की सीमा के साथ-साथ ग्राम पिपरिया (1) के तिमेडे तक।

**पूर्व :-** ग्राम उर्दुआ खुर्द पिपरिया (1) के तिमेडे से प्रांभ होकर ग्राम उर्दुआ खुर्द, ग्राम पिपरिया एवं खेरी के तिमेडे से होकर ग्राम खेरी की सीमा एवं इमलिया एवं ग्राम रिछाई की सीमा के तिमेडे से होते हुये ग्राम खेरी की पूर्वी सीमा एवं रिछाई की पश्चिमी सीमा के सहारे ग्राम महाराजपुर व ग्राम रिछाई एवं सुहागी के तिमेडे की सीमा तक।

**दक्षिण:-** ग्राम रिछाई महाराजपुर, एवं सुहागी के तिमेडे की सीमा से प्रांभ होकर पश्चिम की ओर ग्राम महाराजपुर एवं सुहागी की सीमा के सहारे ग्राम कुदवारी एवं ग्राम गुर्दा की सीमा के पूर्वी तिमेडे तक।

**पश्चिम :-** ग्राम सुहागी, कुदवारी एवं महाराजपुर के तिमेडे से प्रांभ होकर ग्राम महाराजपुर की सीमा के सहारे ग्राम महाराजपुर के क्षेत्र से होकर ग्राम गुर्दा में प्रवेश होते वाले मार्ग के सहारे गुर्दा महाराजपुर मार्ग के साथ-साथ ग्राम चाटी के तिमेडे को पार करते हुये ग्राम चाटी की सीध के सहारे ग्राम बघेली के तिमेडे को पार करते हुये ग्राम बघेली की पश्चिमी सीमा स्थिति तिमेडे तक।

### वार्ड क्रं. 76 नया वार्ड

**उत्तर :-** ग्राम पिपरिया (1) व ग्राम उर्दुआ खुर्द की सीमा स्थित तिमेडे से प्रांभ होकर पूर्व की ओर ग्राम पिपरिया (1) की सीमा के सहारे ग्राम इमलिया के तिमेडे से होकर ग्राम इमलिया की सीमा के सहारे ग्राम इमलिया, पिपरिया (2) के तिमेडे होते हुये ग्राम पिपरिया (2) की सीमा के सहारे पिपरिया एवं ग्राम बिलपुरा की सीमा स्थिति तिराहे तक।

**पूर्व :-** ग्राम पिपरिया (2) एवं ग्राम बिलपुरा की तिमेडे की सीमा से प्रांभ होकर पिपरिया (2) एवं बिलपुरा की सीमा के सहारे ग्राम मड़ई की सीमा के तिमेडा होते हुये ग्राम मड़ई एवं बिलपुरा की सीमा तक।

**दक्षिण पश्चिम :-** ग्राम बिलपुरा एवं वार्ड की सीमा से प्रांभ होकर पश्चिम की ओर ग्राम मड़ई एवं रिछाई सीमा के सहारे ग्राम मड़ई रिछाई पिपरिया (2) तिमेडे होकर ग्राम रिछाई एवं पिपरिया (2) की सीमा के साथ-साथ ग्राम इमलिया तिमेडा होकर ग्राम इमलिया की दक्षिणी सीमा के सहारे एवं ग्राम खेरी की उत्तरी सीमा के सहारे ग्राम पिपरिया (1), ग्राम खेरी के तिमेडे से होते हुये ग्राम पिपरिया (1), खेरी एवं ग्राम उर्दुआ खुर्द की सीमा स्थित तिमेडे से होकर ग्राम पिपरिया की सीमा के साथ-साथ ग्राम पिपरिया (1) व उर्दुआ खुर्द के तिमेडे तक।

### वार्ड क्रं. 77 नया वार्ड

**उत्तर :-** ग्राम सुहागी महाराजपुर की सीमा स्थित तिमेडा से प्रांभ होकर ग्राम सुहागी महाराजपुर की सीमा के सहारे ग्राम सुहागी, ग्राम रिछाई, ग्राम महाराजपुर की सीमा स्थित तिमेडे से होते हुये ग्राम रिछाई महाराजपुर की सीमा के सहारे ग्राम खेरी महाराजपुर के तिमेडे के पार कर ग्राम खेरी, ग्राम इमलिया के तिमेडे से होते हुये ग्राम पिपरिया (2) के तिमेडे की सीमा तक।

**पूर्व :-** ग्राम रिछाई एवं ग्राम पिपरिया (2) के तिमेडे से प्रांग होकर ग्राम रिछाई एवं ग्राम मडई की सीमा के सहारे ग्राम रिछाई, मडई के तिमेडे की सीमा एवं वार्ड की सीमा तक।

**दक्षिण:-** ग्राम रिछाई एवं मडई के तिमेडे की सीमा से प्रांग होकर रिछाई ग्राम की सीमा एवं वार्ड की उत्तरी सीमा के सहारे पश्चिम की ओर सुरक्षा संस्थान छी.एफ.जे. की सीमा के सहारे सुहागी ग्राम की सीमा एवं वार्ड की सीमा के सहारे रिछाई ग्राम के मोड की सीमा तक।

**पश्चिम :-** ग्राम सुहागी की सीमा एवं वार्ड की सीमा से प्रांग होकर ग्राम सुहागी के मोड से होते हुये सुहागी ग्राम के मोड के बाद अंदर के मार्ग से होकर महाराजपुर ग्राम की सीमा तक।

#### वार्ड क्र. 78 नया वार्ड

**उत्तर :-** ग्राम पिपरिया (2) व ग्राम मडई एवं ग्राम बिलपुर के तिमेडे की सीमा से प्रांग होकर ग्राम पिपरिया (2) की सीमा के सहारे ग्राम बिलपुर, ग्राम मोहनिया के तिमेडे की सीमा तक।

**पूर्व :-** ग्राम बिलपुर ग्राम मोहनिया के तिमेडे की सीमा से प्रांग होकर ग्राम बिलपुर एवं मोहनिया की सीमा के सहारे दक्षिण की ओर वार्ड की सीमा तक।

**दक्षिण:-** ग्राम मोहनिया, बिलपुर के तिमेडे की सीमा से प्रांग होकर ग्राम बिलपुर एवं वार्ड की सीमा के सहारे ग्राम मडई बिलपुर के तिमेडे की सीमा तक।

**पश्चिम :-** ग्राम मडई एवं ग्राम बिलपुर की सीमा स्थित तिमेडे से प्रांग होकर ग्राम बिलपुर मडई की सीमा के सहारे ग्राम मडई एवं पिपरिया (2) के तिमेडे की सीमा तक।

#### वार्ड क्र. 79 नया वार्ड

**उत्तर -** ग्राम पिपरिया के उत्तर पश्चिम की सीमा के कोने से प्रांग होकर पूर्व की ओर ग्राम पिपरिया की सीमा के सहारे ग्राम सोनपुर के तिमेडे से होकर ग्राम सोनपुर की उत्तर - पूर्व की सीमा के कोने तक।

**पूर्व -** ग्राम सोनपुर के उत्तर - पूर्व की सीमा के कोने से प्रांग होकर सोनपुर की सीमा के सहारे ग्राम पिपरिया की सीमा के साथ ग्राम उमरिया की सीमा के सहारे नीचे पश्चिम की ओर ग्राम उमरिया एवं ग्राम डुमना के तिमेडे से होते हुये ग्राम उमरिया की सीमा के सहारे नीचे पश्चिम की ओर ग्राम गढ़ेरी की सीमा में स्थित दक्षिण पूर्व कोने तक।

**दक्षिण -** ग्राम गढ़ेरी के दक्षिण पूर्वी कोने से प्रांग होकर ग्राम गढ़ेरी की सीमा के सहारे नीचे दक्षिण की ओर ग्राम गढ़ेरी सुखलालपुर कोटा के तिमेडे को पर करते हुये ग्राम कोटा की सीमा के सहारे ग्राम गढ़ेरी के तिमेडे तक।

**पश्चिम -** ग्राम सुखलालपुर एवं ग्राम कोटा के तिमेडे से प्रांग होकर ग्राम कोटा की ओर ग्राम चकदेही के तिमेडे से होकर ग्राम कोटा एवं चकदेही की सीमा के सहारे ग्राम गढ़ेरी के तिमेडे से होते हुये ग्राम गढ़ेरी की सीमा के साथ साथ ग्राम डुमना के तिमेडे से होकर ग्राम डुमना के तिमेडे से होते हुये ग्राम पिपरिया की सीमा के सहारे ग्राम महगांव की सीमा के साथ साथ केंट सीमा होते हुये यूनिवर्सिटी रोड के दोनों तरफ की सीमा होते हुये खब्बा नं. 17 रिज रोड तक। यूनिवर्सिटी तिराहा से साइंस कालेज भवानीश्वर कालेज से सांसद निवास तिराहा होते हुये जस्टिस श्री अंजीत सिंह जी के शासकीय निवास तक।

आर. के. माथुर, आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर, केम्प सारा।

**Office of Commissioner, Jabalpur  
Division, Jabalpur**

क्र. 349/स्था./निवा./

Jabalpur, the 28th November, 2014

In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 10 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), R.K. Mathur, Commissioner, Jabalpur Division, Jabalpur, hereby determine the extent of wards of Municipal Corporation Jabalpur as per Schedule given below : -

(Population Calculation based on the published statistics of Census 2011)

S.No. of Proposed ward	Ward Name	Total Population	Population	Population
			(scheduled cast)	(scheduled Tribe)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Garha	16624	1318	653
2	Swami Virendra Puri	17485	3251	841
3	Tripuri	16124	3600	943
4	Shankar Shah Nagar	17555	3070	699
5	Sardar Vallabh Bhai Patel	17480	1851	997
6	Indira Gandhi	17480	1724	421
7	Veer Savarkar	17220	1664	590
8	Gwarighat	17559	2868	1434
9	Dada Baburao Paranjpe	17564	4434	1081
10	Gupteshwar	17520	935	627
11	Giriraj Kishore Kapoor	16349	1940	727
12	George Da'silva	14177	1941	599
13	Pt. Banarsi Das Bhanot	15063	1871	805
14	Narsingh	16208	1722	1518
15	Madan Mahal	17479	2275	1297
16	Maharana Pratap	16299	2277	695
17	Rani Durgawati	17422	3412	584
18	Saheed Gulab Singh	17444	1678	809

19	Kamla Nehru Nagar	17448	765	865
20	Kasturba Gandhi	14765	1492	615
21	Swami Vivekanand	17445	1235	980
22	Jawahar Ganj	17489	752	115
23	Lokmanya Bal Gangadhar Tilak	13666	1551	46
24	Hanumantal	14087	214	30
25	Mahatma Gandhi	13117	785	105
26	Govind Vallabh Pant	13931	690	94
27	Cherital	14821	2000	201
28	Jai Prakash Narayan	15275	1218	168
29	Dr. Ram Manohar Lohia	13258	3636	422
30	Pt. Deendayal Upadhyay	13252	1333	968
31	Rajiv Gandhi	13888	1306	180
32	Subhadra Kumari Chauhan	14139	424	327
33	Swami Dayanand Saraswati	13401	595	240
34	Pt. Bhawani Prasad Tiwari	13201	412	130
35	Maharaja Agrasen	15418	1358	674
36	Moulana Abul Kalam Azad	13567	491	8
37	Dr. Rajendra Prasad	13504	523	60
38	Pt. Motilal Nehru	13409	821	276
39	Chitranjan Das	13412	466	100
40	Dr. Zakir Hussain	15977	6	—
41	Sanjay Gandhi	15821	50	5
42	Netaji Subhash Chandra Bose	14665	2300	648
43	Dr. Shyama Prasad Mukherjee	15466	3873	2290
44	Acharya Vinoba Bhave	13384	3967	402

45	Sheetalamai	17330	3131	282
46	Pt. Dwarka Prasad Mishra	13630	2405	344
47	Seth Govind Das	13575	3173	575
48	Siddha Baba	13672	3953	470
49	Lal Bahadur Shastri	16156	773	5
50	Thakkar Gram	16287	3993	9
51	Ravindra Nath Tagore	15886	620	5
52	Pt. Madan Mohan Malviya	13307	3730	157
53	Maharshi Arvind	17222	9332	640
54	Pt. Jawahar Lal Nehru	15010	3725	935
55	Khermai	15005	3727	220
56	Saheed Abdul Hameed	14486	1008	260
57	Maharshi Mahesh Yogi	13501	481	300
58	Dr. Sarvapalli Radhakrishnan	16436	8807	255
59	Saheed Asfaque Ulla Khan	14532	18	—
60	Nirmal Chandra Jain	14211	733	1153
61	Diwan Adhar Singh	13466	1175	783
62	Dr. Bhim Rao Ambedkar	14981	4045	1469
63	Shaheed Bhagat Singh	14297	3838	1745
64	Maharshi Sudharsan	14641	3580	2362
65	Subhash Chandra Banerjee	16230	1347	702
66	Rani Lakshmi Bai	16353	5037	1718
67	Virangna Rani Avanti Bai	17503	2614	1175
68	Gokalpur	14851	2160	1422
69	Chandra Shekhar Azad	15034	2214	490
70	Lala Lajpat Rai	13101	1077	2472
71	New Ward	13153	2375	1611
72	New Ward	15521	2445	1161
73	New Ward	14452	2531	1106
74	New Ward	13690	2334	1226
75	New Ward	17135	2226	3258
76	New Ward	17195	1669	1540
77	New Ward	16410	1617	2507
78	New Ward	14349	3960	1779
79	New Ward	13140	1583	1645
	Total	1206606	171530	61050

## Office of Commissioner, Jabalpur Division, Jabalpur

Jabalpur, Date 28th November 2014

No. 349/स्टी./निवा./2014.—In exercise of the power conferred sub-section (1) of Section 10 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) R. K. Mathur, Commissioner, Jabalpur Division, Jabalpur hereby determine the extent of words of Municipal Corporation Jabalpur as per Schedule given below:—

Over all detail	Ward No.1 Garha
	<p><b>North</b> - From the road near Timede of Central railway line Garha Kachhpura Basha road, to western border of municipal corporation towards east along central railway line near Bhulan Post (Chowki) upto Junction of 60 Feet road of J.D.A. Plan No. 6.</p> <p><b>East</b> Along the railway line and 60 feet road of Jabalpur Development Authority (J.D.A.) via Shahi Talaiya upto Junction of Durga Colony road and along shahinaka main road towards south along shahinaka road along east road of Giridonia upto junction of old police station road Garha.</p> <p><b>South</b> From the old police station road along Garha Road towards Garha main road along west upto Panda Madhiya. From Panda Madhiya upto road to Ganga Nagar. Then along the Central road of Nav Nivesh Colony Towards north upto junction of Ganga Nagar Colony road. Then along the road towards Baksera lake in west upto house of Savitri built before new constructed buildings under JNNURM in north.</p> <p><b>West</b> - From house no. 2837 to 2847 sai paan center to house no. 2912 charantal chakrawarti and house no. 2957 open land upto Railway Line.</p>
	<p><b>Ward No.2 Swami Virendra Puri</b></p> <p><b>North</b>- From in front house of Engg. namdeo at Ganga Nagar to Rani Durgawati School along with ganga nagar Road to Imarti Talab to West portion in front of panda ki madhiya and South direction part of Garha bazar along with infront of nagar nigram Office to house No. 1 of kashiyap ji.</p> <p><b>East</b> - From house of Shri Kashyap opposite to old police station upto Hikkarini School. Then from National Highway along road towards east along the boundary of graveyard in front of Soopatal along road towards south along road goin to Madan Mahal Dargah upto border of Mauja Badanpur and Maharajpur.</p> <p><b>South</b> - Along with the village boundary of village badanpur and maharajpur to wards west direction kaccha road of sangram sagar along with north boundry of pisanhari madhiya to ward west side along with the north of boundry of Gabinath temple and pisanhari madhiya along with Junction of NH7 to inforant of Pyasi road.</p> <p><b>West</b> - From Junction of NH7 and Pyasi road to wards Medical Quarters to wards servent quarter from purwa Raod Junction from Rishti Hotel to north side in front of house of engee Namdeo Ganga nagar .</p>

## Ward No. 3 Tripuri

**North** - From the western border of municipal corporation at Bhedaghat road and along towards east from junction of Dhanwantri Nagar Crossing along New Bhedaghat road upto junction of NH-7, statue point of Netaji Shubhash Chandra Bose on Medical College boundary wall centre road.

**East** - From the road centre of statue point of Netaji Shubhash Chandra Bose at NH-7 upto Narmada river via Sagda tricrossing Bargi hills road centre.

**South** - Towards centre west of old bridge road of Tilwaraghata built on river Narmada along the river upto corner on South - Western Border of village Ramnagra.

**West** - From corner at South - Western border of village Ramnagra near western border of municipal Corporation near river Narmada towards north along the same border upto Bhedaghat road Junction situated on north western corner of Balsagar lake.

## Ward No.4 Shankar Shah Nagar

**North** - Starts from gully goes to MPSEB water tank on western boundary of W5, towards back portion of shivaji nagar which join the road of aadiwasi chhatrawas, brijmohan nagar , chapar right part then till goyal furniture. From right part of adjoining road from goyal furniture to MPSEB Jalpari , then back portion of sahkar nagar , to kesarwani hotel azad chowk covered all right portion.

**East** - Starting from Rampur azad chowk to parellel of railway line towards west along with aadarsh nagar perfect pottery near railway line, along railway line upto junction of khandari nala and sah nala in south direction.

**South** - Rstarts from junction of railway line and khandari nala along with khandari nala towards eastern boundary of W5(sardar vallabh bhai Patel ward).

**West** - starts from junction of khandari nala and eastern boundary of W5( sardar ballabh bhai Patel ward) towards gully goes to water tank of MPSEB.

## Ward No.5 Sardar Vallabh Bhai Patel

**North** - Eastern hilly part of Pisanhari ki madhiya towards boundary junction of Madan Mahal ward which turns to south direction and connects outer boundary of power house of MPSEB along with outer boundary of Nayagaon housing society, infront of Japari basti Vijaynagar which connects the chhaphar main road goyal furniture Shop.

**East-** start right part of residential area from goyal furniture (Azad chowk to chapar main road Rampur) towards chapar main road which connect the area of rewa colony area, siddhnath, Aadiwasi chhatrawas, shivajinagar via middle line of talpur village towards bank of river Narmada at southern direction.

**West** - from old bridge of Tilwara right part of the main road from Tilwara basti along with Shahmala via Bargi hills colony to Bajna math JDA colony , Nehru nagar to Pisanhari ki madhiya trijunction.

**South-** from eastern boundary of right part of bank of Narmada , towards Tilwara old bridge.

## Ward No. 6 Indira Gandhi

<b>North</b> - From Gulwa Chowk to Gotam Marhia & the tower in front of Dr. Mukerge and moving towards west to Gulmoher Park & along Railway line from plot no. 1082 to 1122, Sanjeevani Nagar main road to Shahi Naka road and junction of Sanjeevani Nagar towards Shahi Naka upto Mahera Nala junction.
<b>East</b> - From Gulwa Chowk to Ekata Chowk via Shukla Nagar road in front of house of Col. Shukla.
<b>South</b> - From Ekta chowk to west from Gangasagar chungi chowki and towards South Gangasagar Sharda chowk road center and prior to yellow Building and from behind Pachmatha temple to Hitkarini Girls School to B.T. Tiraha up to junction of Petrol Pump and from B.T. Tiraha via house of Dr. Ramgopal Gupta to Anand kunj Tiraha upto old Police station road junction.
<b>West</b> - From tricrossing of old Garha police post (chowki) towards east via back of Garha School upto Mahera nala and shahinala road Junction.

### Ward No.7 Veer Savarkar

<b>North</b> - Sanjeevani Nagar on JDA plan no. 06 infront railway line plot no. 976 shri laxmikant deshpandey from road and railway line via gatha railway crossing gualuawa towards east near railway outer signal.
<b>East</b> - From outer signal near sudama nagar towards south along Amanpur nalla infront of kalimath temple via bounder of Nasring ward along cement road infront of house of jaiswal along house No. 6/6 along naveen traders towards west via kesav swa mill pole no. A.S. 18/4 along road upto junction of krishana Timber mart infront of ganga sagar lake road.

<b>South</b> -From Krishna traders Road to road junction along gangasagar road and along Shukla Nagar at Gulluva Chowk and to Patel Sweets via Gantam ji ki madhia till the tower near house of Hem Singh Thakur till Shivam Udyaniki Bhavan.
<b>West</b> - From the tower near Shivam Udyaniki Bhawan on Shahi Naka main road to Vasundhara parisar to bhu vaigyanik savrekshan to gulmohar park to sanskar niketan barat ghar to plot no 897 chandrakant choube to plot no 925 Bilhare's house and to nayar on north to plot no 976 laxmikant despande till Railway line.

### Ward No.8 Gwarighat

<b>North</b> - From the boundary wall of perfect pottery near Railway line along boundary from south Avenue mall upto boundary of site forest research via Khermai temple situated in Basti of Bagda Dafai in front of Gwarighat Main road.
<b>East</b> - From Bagda Dafai towards Sukhsagar valley in South from east along boundary of state forest ressearch from junction of western boundary of Bihari gram across Knahdari Nala, then from oundary of Bhatoli gram outer Boundary of Chhewlia gram towards banks of river Narmada situated on boundary of Bhatoli gram.
<b>South</b> - From Railway filter plant in gram Lalpur, Kharighat, Dorogagh, Gwarighat, Mainghat, Jilharghat, Shamshanghat upto boundary of Bhatoli gram.

**West** - From boundary of Lalpur gram easern boundary towards banks of Narmada towards Khandari Nala North, from junction of Shahnala boundary via khandari nala perfect Pottery at P.P. Colony Narmala Nagar on the right side of the railway line in North.

## Ward No. 9 Dada Baburao Paranjpe

North - From the Railway gate situated on the main road of Shakti Bhawan upto Boundary wall of G.R.C. situated on Rampur crossing.

East - From Rampur crossing towards South via Panchashil Nagar, Tagore Nagar, Modi Colony near boundary of G.R.C. on the border of State Forest Research towards Eastern Bagda Dafai in South upto border of ward No. W-8.

South - From the area of Bagda Dafai along boundary of State Forest Research via eastern portion of residential colony water body (Jalkund) situated on beside South Avenue Mall in western side towards boundary of Perfect Pottery on western side.

West - From Boundary of Baje in South Avenue Mall situated on southern side upto Eastern of Railway line at the back side of Perfect Pottery via Ben Mohalla and Sahore Shahnala Adarsh Nagar upto main road of Shakti Bhawan through Sudha Vihar.

### Ward No.10 Gupteshwar

North - From Prem Nagar Post Office at National Highway No. 7 starting from junction of road going Amanpur along National Highway No. 7 towards North East across Madan Mahal crossing (Eastern Side) upto junction of National Highway No. 7

East - From junction on the eastern road at National Highway No. 7 and Mahanadda along Hathital Railway crossing across Nala in south along office of Housing ward on Hathital road towards house of Smt. Bhagwati Bai Yadav in South (House No. 1021 Narmada Bhawan).

South - Starting from Choti line Narrow gade In between junction H.no. 1021 Smt. Bhagwati Bai Yadav (Narmada Bhawan) to west road passing through Samshan Ghat beside Sahu Kirana passing through Bhudi Khermai Temple (East part of raod) till main road Gupteshwar Temple. To Sarita Traders (east side of road) Dr. Bhadouria passing through M.G.M. School railway line crossing Canit till pole no. 131. After crossing Gupteshwar Chowk Kripal Chowk ahead from Dr. Kamla Gupta which turns towards the Prem Nagar Post Office. Till N.H. 7.

West - From the junction of Dr. Kamla Gupta road and Prem Nagar Post Office road towards N.H. 7 Nagpur main road and Prem Nagar Post Office junction opposite to Prem Nagar Post Office road.

**Ward No. 11 Giriraj Kishore Kapoor**

North - Starting from eastern boundary of Madanmahal ward connecting point towards east ahead H.no. 1837 Kamla Gupta passing through Kripal Chowk till Sahu Kirana passing through Samshan Ghat road.

East - Starting from at Samshan Ghat beside Sahu Kirana west part of the road passing through Bhudi Khermai towards east of main road and across north-east railway line. Towards the south along with south-east railway till connecting point of M.P.E.B. Corporation Zonal Office No. 3 Rampur Narrow guage crossing along F.C.I. Godown upto Municipal

South - From Road going towards Shakti Bhawan Rampur Narrow guage crossing along F.C.I. Godown upto Municipal Corporation Zonal Office No. 3 Rampur via road going from front of National Colony.

West - From Municipal Corporation Zonal Office No. 3 Rampur towards road coming for Sainik Colony on North upto junction on Eastern border of Shaheed Gulab Singh Ward and from Bhole Baba Kuti on North East upto Shakti Nagar crossing coal mines P.F. office passing through H.no. 1920 in front of Mr. Mohanlal Prajapatis house. The front of the main road south-west boundary of Gupteshwar Road.

**Ward No.12 George Da'silva**

North - Starting from central railway line Shastri Bridge along same line towards central railway line bridge on Kachcha Nala on east of Gorakhpur which is on west of Bunglow of Khandelwal.

East - Starting from Kachcha Nala, Central railway line bridge towards south across south eastern railway line along western upto Pole No. 115-A of border of Cantonment on south which is on western corner of south eastern railway rest house situated on Narmad Road.

South - From Pole No. 115-A situated on Cantonment border on Narmada road towards Kapoor crossing in south along rod going towards bunglow of Pandit Chironji Lal Sharma opposite to Pole No. 11 along road in between Pandit Chironji Lal Sharma and R. Gopal towards East road of Nathauli Dharmshala and Christian mohalla (Isai) and Kumhar Mohalla on western side, from house of Shri Tomar Singh upto house of Shri Arun Singh Gaur via Trimurti Kala Mandir tri crossing towards junction of Sharda Talkies Gorakhpur main road. From there upto junction on western road of Mittal Gas Agency via Gwarighat road.

West - Starting from South East railway line crossing on Gwarighat road upto Shastri Bridge situated on Central railway line along same.

**Ward No.13 Pt. Banarsi Das Bhanot**

North - From the junction of National highway No. 7 and eastern road of Mahanadda towards National highway No. 7 on eastern road upto Narrow guage crossing. From Municipal Corporation Zonal Office near Sharda Talkies along Shambhu Beetal Shop towards junction of Narmada road and Trimurti Kala Mandir on south side.

East - In front of Trimurti Kala Mandir from Jairaj Atta Mill upto house of Madrasi House No. 1918 situated on the back of Satgura Apartment via Christian Mohalla through houn No. 1904 Mahavar Shop along Sarkari Kuan. From Bunglow of Chironjilal Sharma towards western border of Mittal Gas Agency situated on Narmad road which is ahead of Pole No. 111 on Cantonment border.

South - From Pole No. 111 on Cantonment Narmada road along the same direction towards Pole No. 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96 on southern side. From there upto Pole No. 95 on Gwarighat road western side then. From North of Cantonment along same border via pole No. 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88 upto Pole No. 87 which is situated on South eastern railway line on western side.

**West** - From Pole No. 87 towards North along South eastern railway upto Hathital railway crossing. From here road going towards Hathital colony along Laxmi colony towards Kakarhai Talaiya in North across Nala. From east of Mahanadda towards junction of N.H. 7.

#### Ward No.14 Narsingh

**North** - From junction of Amanpu Nala near outer signal on Central railway line Madan Mahal upto Shastri bridge along Madan Mahal station on Central railway line.

**East** - From Shastri Bridge built near Central railway line upto junction of N.H. 7 and south eastern railway line crossing on Gwarighat road.

**South** - From junction of N.H. 7 and south eastern railway line crossing on Gwarighat road upto Shiv Temple junction on Ganga Sagar road which is across Madan Mahal crossing ahead of Prem Nagar Post Office in front of Singh Dharmkanta opposite to Kaushalya Plaza via L.I.C. Colony.

**West** - Along with road between gulati petrol pump and Bhaseen complex to junction of nala of gangasagar Across the Nalla to Krishana Timber road pole No. G 518/1 towards north direction keshav swa mill towards east along with the road towards Naveen tredders via house no. 6/6 along house no. 879 towards road of north direction to road of east direction to kaalimath temple to near the outer signal.

#### Ward No.15 Madan Mahal

**North** - From Groveryard situated at N.H. 7 junction in front of Soopatal upto Sharda crossing then from junction of Sharda Devi road in North upto junction of Ganga Sagar old Toll Tax road (chung Chowki). Then Ganga Sagar road and Amanpur road junction along Ganga Sagar road on east which is in front of Mallu Mali.

**East** - From Gangasagar Tiraha to Harsh Builder south. Direction towards infront of LJC Collony along with the Medh of Talab along with Barsana Mohalla to crss the culvert towards Bhasin Complex. Across NH 7 towards western road of premnagar post office via Christian mohalla south. Across hatal road from western border of Hirdya Nagar gram towards gupteshwar temple in south upto road going towards junction of rattan nagar colony.

**South** - From junction of Hridaya Nagar road situated on Gupteshwar Ratan Nagar colony road towards west on the same road including Ratan Nagar colony upto Badanpur and Maharajpur border.

**West** - From Shri Kamal Singh Plot N.H.-7 road infront of Soopatal lake towards Pole No. NN/01/52/2846 on Dargah road on South via house No. 1977/B Plot 83 opposite to Madan Mahal Dargah upto Sangram Sagar Kachcha road border on Maharajpur and Badanpur.

**Ward No.16 Maharanा Pratap**

**North** = Starting from the Western boundary of Municipal Corporation near the Timeda of Purva Garha Kachhpura Road on Central Railway line towards the east along the Central Railway line upto Bhulan Chowki near scheme No.6 JDA scheme No.3 upto 60 feet Road junction.

**East** – Prior to Bhulan chowki towards south along the open land from house no. 2837 to 2847 Sai pan center to house no. 2912 Charan Chakrawarti house no. 2957 road center to junction to Nav Nivesh colony's center road on the east of Ganga colony and along the road towards house of Dr. Dinesh Jain and towards west on old Garha road before hospital of Dr. Dinesh Jain upto the road junction and along old Garha road towards west via Purana Chungi chowki and before servant colony towards south to Doctor's quarters and to Payasi market and along the road upto the meeting point on N.H. -7

**South** = From Payasi market at N.H. - 7 towards Pisanhari Marhia to Ren Basera to N.H. - 12 and along N.H. - 12 towards west on Bhedaghat road via Dhanwantri Nagar chowk to Balsagar Chungi chowki and upto the boundry of Purwa village.

**West** – From the boundary of NH-12 and the boundary of Purva village to the north along the boundary of Purva village up to the junction of Central Railway line.

**Ward No.17 Rani Durgawati**

**North** – From old garha thania towards east to garha main road junction to Anand kunj trijunction to B.T. trijunction to Hitkarni Girls School upto the junction of Pachmatha road.

**East** – From the back of Pachmatha temple to Gangasagar Sharda chowk main road junction towards south upto Sharda Chowk.

**South** – From Sharda Chowk along with NH-7 towards west upto in front of Hitkarni School.

**West** – From in front of Garha Hitkarni School from the house of Pyarelal Patel, No.2735 along with Chikni Kua Road up to house No.1 of Satish Kumar Kashiyap near old Police Thana.

**Ward No.18 Saheed Gulab Singh**

**North** = Beginning from Ratan Nagar to Prem Nagar Kripal Chowk Road along with Shahji Residence East of Prem Nagar Road boundary House No. 148 Anita Majeda Residence towards south of Nala along with corner of Gupta Shri Hotel & Tiwariji Cement Shop to Bajna Math Hills Road situated Danav Baba towards corner of Sakar hills Sainik colony to sarda Mandir situated water tank area road behind takshila Cnng. College along with post office & right side of Gupta Hotel to main road of Gupteshwar Temple including PWD Quarter to Rampur Railway Gate.

**East** – From Rampur Railway Gate to south on right hand of Azad chowk Parshad Niwas.

**South** = From Azad Chowk towards south of Jalpari Naya Gaon Housing Society through South Boundary of Power house MPSEB to Power house.

**West** = From the border of Power house MPSEB (Bargi Hills) to south of North phase situated area border and Bazna Math hills situated right hand Side area of Danav Baba.

## Ward No. 19 Kamla Nehru Nagar

**North** - Along with omni nala situated near timea of basha laxmipur and kachpura villages along nala to Road Crossing infront of house of the P.K. Jain towards east direction to warthman traders to B.S. Diwan to Kuswaha Health Center to Mateswari mandir to Pankaj Telecom, Infront of Pukhraj bhawan to wards north raj kirana to gulab buteek to East fo house of A.k. Dixit to sachin kirana to Sai parisar to ranital talab boundari to bacchu mangoda wale to wards ranital road crassing to telegraph gate no 1 alongwith garha road , east side of ranital chowk.

**East** - From Ranital crossing along Madan Mahal station road upto Gate No. 2 towards west. The upto boundary wall of Telegraph along Junction on Telegraph gate No. 4 towards south. Then along Gate no. 4 towards west upto nala along boundary of Telegraph. **South** - Central railway line stone No. K 986/3 towards west along central railway line across Garha railway municipal corporation which is near tricross of Kachhpura Basaha and Garha village.

**West** - From central railway line near Timea of Kachhpura Basaha and Garha village along eastern border towards north upto Omni nala Junction near Basaha Laxmipur and Kachhpura village crossing.

## Ward No.20 Kasturbha Gandhi

**North** - Started from culvert on ukhri road (in front of the guizar building) along with right portion of Ukhri road to Baldeobagh chowk.

**East** - started from Agrwal petrol pump baldeobagh chowk to southern part of maida mill via aaga chowk . from maida mill southern portion to garha phatak main road junction via garha phatak road.from near sankar ghee bhendar tri junction to junction of nala in front of kesarwani college via jagdeesh mandir garha phatak road, then along with nala southern boundary of id gah to NH 7 Main road.

**South** - in front of Iddgah on NH7 to ranital chowk to bacchu magoda on garha road. Then from bacchu magoda to via chidamai khaleefa akhada karbala marg to western boundary of Ranital Pond.

**West** -from side of pond on karbala road along with slum area on pond boundary to sanjay ghandhi college and north side infront of sanjay gandhi collage to wards sarvodaya nagar along with in front ofcharch and upto culvert near Gulzar building .

## Ward No.21 Swami Vivekanand

**North** - From omni nala tri crossing of village kachpura, basha and lakshmpur vilages towards east diroition hous of bhooori bai house no. 342 to wards east direction to boundry of village lamti to 28 Quarter towards south boundry of vijay nagar alongwith mithiapuri along with vinay dairy, south boundry of JDA scheme no 5, North boundry of Ekti nagar to agrwal mandapam to infront of dheengra house to wards ahinsa square to jankinagar turning toward south upto culvert near Guizar building on baldeo bagh road.

**East** - From sahib parishar along with madh of ranital talab towards khastryia bhawan, kabristan to sarvodya nagar to ranital samsan road to words sanjay gandhi college to wards north side of sarvodya nagar church upto culvert near Guizar building baldevbagh road. **South** - From ranital talab madh to shaib parishar to sachin kirana to house of A.K. dixit towards south direction to vaidhnath chaturvadi house to raj kirana to shards gupta house no 1305 towards south direction infront of kalashdham to skushwha helth center to alza classes to alza parlar, prabhat colony to P.K.Jain house to corres the M.R 4 road to along with omni nala .

**West** - From Omni nala in front of P.K. Jain house towards west direction omni nala to near the tri crossing of laxmipur,basha and kachpura villages

<p><b>Ward No.22 Jawahar Ganj</b></p> <p><u>North</u> : - from the side of kotwali thane to darhai chowk to the right side of phootatal chowk road</p> <p><u>West</u> : - from trijunction of kesarwani colleague to sankar hee bhandar to charhai to ghamandi chowk to bada phuhara to kamaniya gate the right part upto kotwali via sarafa chowk.</p> <p><u>South</u> : - from bridge on nala of iddgah ranital towards east narghaiya nala to garha phatak joint along narghaiya nala on gadha phatak road starting from lohiya bridge and along narghaiya nala on kacchiyana and along nala from lordganj chowk bridge</p> <p><u>East</u> : - Tularam chowk to Anjuman complex, to Prince streety Manora hotel to Shanker hotel, Mumtaj building to phootatal chowk.</p>	<p><b>Ward No.23 Lokmanya Bal Gangadhar Tilak</b></p> <p><u>North</u> : - Tularam chowk to Anjuman complex, to Prince street Manora hotel to Shanker hotel, Mumtaj building to phootatal chowk.</p> <p><u>East</u> : - Started from Lakadgunj Darshan chowk, Gurandi road infront of Deviji Temple, Galgala chowk Mukadangunj road, Digamber hotel line of tularam chowk.</p> <p><u>South</u> : - Started from R.H. Side portion of tularam chowk to Andherdeo road upto turning of bandar wala naik dukan, to tilkbhoomi talaiya old post office sunee houjri Tripathi market Narghaiya road to Photatal Masjid. <u>West</u> : - Started From Photatal Masjid to ressidence of Ghanghoriya ji Khatteek Mohalla, Panchayati Jain Mandir Sarafa to sunarhai chowk, Kamaniya Gate Vijay Cupicee Bhaldarpura &amp; upto Narghaiya.</p>	<p><b>Ward No.24 Hanumantal</b></p> <p><u>North</u> - From bridge on Dhalgar Mohalla old road near house of Gareeb Ulla on Khaiya road towards Nala on east along front of Shaakar Malgujar near Municipal Corporation Sulabh Complex, In front of Mirza Jamal Beg 367 towards road going to Police Chowki near P.M. Tiwari along Rawaya road, and from Telegraph Shiva Temple Milloniganj road to Ghoda Nakkas road via Milloniganj Chhota Fuvara road upto Ghoda Nakkas.</p> <p><u>East</u> - From P.M. Tiwari Khaiya road to Khaiya junction towards south west police post near Hanumantal eastern road through house of Hanuman Prasad Verma on south part upto Shakrawari Bajaria Junction, From there towards road going to east along Kunjariai Mosque road, bridge (small) on Phootatal road towards Badhai Mohalla on south, junction at Badhai Mohalla east and bridge (small) on koshta mohalla road near Badhai Mohalla Viskarma temple through eastern road of Phootatal on south road junction and through Hanumantal west road and Pandit Devi Shukla road via Ghoda Nakkas towards Raja Sagar road Gokaldas Palace on south upto junction of Darhai crossing via Fakeerchand Akhada beside Bohara Maxque.</p>
--	---	--

**South** - From junction of south Phootatal road and Sathia Kuan road near Phootatal Urdu School towards same road on south along crossing near Mosque, then from north west Sathia Kuan along Malviya Temple upto Devi Prasad Shukla road junction nd Kotwali Police Station on west of Darhai crossing upto main road junction, From South main road through Sunarhai crossing Nunhai, Cherital road via Hitkarini Middle School upto front of Uprenjanj road.

**West** - From junction of Devi Prasad Sharma road Malviya Temple and sathiya Kuan to west roadside of Devi Prasad Shukla road on north along lane in front of Dr. K.L. Jain dispensary to Bohara Mosque via Fakeerchand Akhada and crossing Ghoda Nakkas along Hanumantal west road to bridge near house of Gareebulla Dhalgar Mohalla and from Raja Sagar on Uprenjanj road and Khtkarini Middle School on Tamrhai road towards North of Uprenjanj road junction. Then beside Simria Rani Kotli in front of Mammul trust road going towards Gopalbagh, from house of Dr. Bajpai in front of Gopal Sadan across Gopalbagh road upto Milloniganj road junction near Shiva Temple.

#### Ward No.25 Pt. Mahatma Gandhi

**North** :- Starting from Hardol Mandir to sarafa chouk via Hirkarini school. right side portion on Dixitpura Road

**East** :- Starting from Sarafa chouk to ghamandi chouk via kamaniya gate an Bada Fuhara.

**South** :-Starting from Ghamandi chouk to badi mahakali mandir via Shankar Ghee bhendar from Maha kali mandir to NH-07 In Front of R.K- Biskit via Jagdish mandir.

**West** :- From R.K. biskit to hardoul mandir via Aga chowk and baldev bag chouk .

#### Ward No.26 Govind Vallabh Pant

**North** :- Starting From Corner of regional bus stand to Amar Jyoti hotel on Adhartal road Motinala pul & upto corner of Eidgah.

**East** :- Starting from Gohalpur Tiraha Eidgah to Left side of Motinala pul Buniyad shah Baba to old post office gali to infront Bhoore Pahalwan to Ghoda Nakkash Tiraha, Naresh Saraf house, Right side portion upto corner of Batuk Bhairav Mandir.

**South** :- Starting from gali beside Batuk Bhairav from H/o Narayan Namdeo to Dhanushdhari Temple on Miloniganj kotwali road, Gudhai chowk to ressidence of Dr. Pahadiya to H/o Mourya.

**West** :- Starting from house of Mourya Chota fuhara Soozipura School to Jamuniya kunwa to infront of Koshti Mandir to H/o Atari Lal Tiwari to Regional bus stand.

Ward No.27 Cherital	Ward No.28 Jai Prakash Narayan	Ward No. 29 Dr. Ram Manohar Lohiya
<u>North</u> - In front of kothari medical from house of sahu damoh naka square upto sahu flour mill. <u>East</u> - Damoh naka square-Parijaat building-Heer ji- Baldeobagh tricrossing upto SBI ATM. <u>South</u> - From Baldeobagh SBI (ATM) - Sheetalpuri colony-Young blood main road to infront of Gulzar building upto Uttramchand Jain Merchant shop. <u>West</u> - From Uttamchand Jain Merchant shop tricrossing before Sangam colony Jain Tample via infront of Rajesh Agrawal Transformer via Mayour Merchant shop infront of Stemfield school via Kshatriya flour mill narrow road onwards Tulsi nagar Cristal paouch factory onwards inside of culvert via side road near old councillor Shri Ghanghoriya home via Purushottam Kuti via saraswati garden and right side infront of Verma home SB Vohra After Ravindra Gupta road crossing beside of Deepak sahu via inside infront of kothari medical upto home of Sahu.	<u>North</u> - Anil sahu to Kothari Medical corner <u>East</u> - Starting from Kothari medical via after crossing of Punjab bank colony road upto Naveen Nema home via Agrawal Engineer via side road of Saraswati Garden towards road crossing infront of Purushottam Kuti via inside right turn onward cristal pauch onward right side Shree Chhaya via Durga Temple Mayur merchant infront of BK Dhagad via infront of Transformer via PC Sharma via Dada-Dadi Garden via Jaiswal home onwards turning upto Gulzar building. <u>South</u> - From Ukhri tricrossing welding shop to Narmda Nursery school to Manish kirana to Praveen dave to Namdev brothers to Outer <u>West</u> - Ukhri tricrossing welding shop to Narmda Nursery school to Manish kirana to Praveen dave to Namdev brothers to Outer boundary in the ward to infront of Prasann raddi to Mandi boundary upto its south corner turning infront of Airtel upto Anil sahu home.	<u>North</u> - From Rani Durgawati square via trimurti nagar upto Kathonda Municipal boundary of Kathonda. <u>East</u> - From Soni market Rani Durgawati chouk Trimurti nagar via infront of home of concellor Renu kori East side Vajpayee welding double road throw home of Jai datt panday via turning Kesharwani farm via Sulabh complex via Community Hall via Chandal Bhata gali no. 1 upto Bhootda home. <u>South</u> - From Roopchand Matani home situated at Deendayal chouk to Pachori petrol pump onwards Sai mandir transport nagar via Shanti nagar upto Bhootda home. <u>West</u> - From Municipal boundary via Green city via Madholta Kol basti tricrossing via infront of Yadav Deri via Sanchar nagar after crossing Sai colony ITI main road via Deendayal square upto Roopchand Matani home.

<p><b>Ward No.30 Pt. Deendayal Upadhyay</b></p> <p><b>North</b> - From North side of Municipal boundary of Kathonda plant through outer side of Municipal boundary via corner of Madar Teresa colony upto Katangi main road.</p> <p>From home of Roopchand Matani other side of road via alongwith Interstate Bus stand boundary from corner of Tank via Kol basti tricrossing Green city main road via Kathonda plant upto Municipal boundary.</p> <p><b>South</b> - From Madhotal Toll crossing Deendayal crossing main road upto home of Roopchand Matani.</p> <p>From Mother Teresa via Royal estate upto ITI toll crossing.</p> <p><b>West</b> -</p>	<p><b>Ward No.31 Rajiv Gandhi</b></p> <p><b>North</b> - From sides of Motinala Bridge towards Shanti Nagar beside RajaTiwari ahead of Ryan School via Nandan Vihar ahead of Krishna Colony upto corner of Bhulan Devi Temple land.</p> <p><b>East</b> - From Damohnaka crossing Katni road along house of Mehrunisha ahead of J.D.A. Market upto Motinala bridge.</p> <p><b>South</b> - From Trimurti Nagar Tricrossing East side home of Vajpayee welding Jai datt panday via Transport nagar via Sulabh complex along lane no. 1 choudhary mohalla ahead of house of Bhudha on Damoh main road towards house of Madona Shri Anil Pachauri ahead Kuchaini market upto Damoh naka square.</p> <p><b>West</b> - From Corner of Bhulan Devi Temple land towards sides of Annol Garden Duplex via Krishna Colony along house of Shri Ram Kumar Patel along double road of Lala Pan Bhandar upto Trimurti Nagar Tricrossing ahead of Ishwar Prem Ashraya.</p> <p><b>Ward No.32 Subhadra Kumari Chauhan</b></p> <p><b>North</b> - From Teenpatti Chowk via Infront of traffic police station and BSNL Office upto Gate No.2 form Gate No.2 to Gate No.3 via Chirayu Hospital.</p> <p><b>East</b> - Starting from Nagar nigam chouk to shashtri bridg Central Railway line.</p> <p><b>South</b> - Starting from Shastrri Bridge on Central Railway line towards west along with Central Railway line via Madan Mahal Station under bridge up to Pole No. 986/3 located on Central Railway line.</p> <p><b>West</b> - Starting from Pole No. 986/3 on Central Railway line towards north to across Omni Nala along with Telegraph Nala up to Telegraph Compound wall which is situated on Sai Baba Road via in front of Telegraph Gate No. 4 to across Telegraph Gate No.3 along PNT Compound wall.</p> <p><b>Ward No.33 Swami Dayanand Saraswati</b></p> <p><b>North</b> - from omni nala at Navbharat press to jyoti talkies along omni nala to naudra bridge to deshbandhu press to zone office no 12 to muslim musafirkhana all along the omni nala till Ghantaghara bridge.</p>
---	---

**East** = Ghantagar chouk omni thana from Dr. Rajendra Prasad Chouraha (High Court Chouraha) towards south via Dutt Residency along with State Bank Road near Central Railway line Bridge No.2 up to Pole No. 121 in front of Cantonment boundary.

**South** – Starting near Bridge No.2 of Central Railway line from Pole No. 121 of Cantonment boundary towards south via Bridge No.3 up to Pole No. 118 of Cantonment boundary then towards south along Cantonment boundary Pole No. 117-B, 117-A, 1/116, 115, and via 115-A, then towards north along with Katanga Road, Howbagh Station Road, along with the nala flowing towards the west of Khandelwal Bungalow to across South-East Railway line up to Central Railway then along with Central Railway line towards west upto Shastri Bridge.

**West** – From Shastri Bridge on Central Railway line towards north along with the road upto the junction of the road before the petrol pump near Nav Bharat Press.

#### **Ward No.34 P.Bhawani Prasad Tiwari**

**North** – Starting from Tularam Chowk to Lardganj chouk via vaisnav stores to along with left portion of kachhiyana nala towards kesharwani collage and from Dr. Abhinandan jain house to Ranital Chouk left portion.

**East** – Starting from tularam chouk to in front of omni masjid to right portion of mohammdi gate via janta cycle then mohammdi gate to rajive gandhi statue on nodra bridge via Bangali Masjid, paras stone, house of vijay rani singhai.

**South** – From rajive gandhi satetue on nodra bridge to navbharat press along with omni nala. Navbharat to Teen patti to gate no.2 hanuman mandir via in front of yatayat thana and arya hindu lodge.

**West** – Startet from ranital chouk, towards chirayu hospital gate no 03 along with PNT boundry.

#### **Ward No.35 Maharaja Agrasen**

**North** – Starting from the Municipal Corporation boundary on the Patan Road which is situated along the eastern boundary of the Karmeta Village the towards east along Damoh – Jabalpur road across Deen Dayal Chouraha upto the western boundary of Krish Upaj Mandi which is situated upto the boundary of Deen Dayal Ward.

**East** – From the boundary of Deen Dayal Ward to the west of Vatsala Paradise, passing along the road in front of Mateshwari Garden upto Dinesh Kirana, further upto the house of Diwan, turning from there along the road in front of A.K. Triwari towards west upto R.K. Provisions near Janki Nagar Udyan.

**South** – Starting from R.K. Provisions passing along Janki Nagar, across Ahinsa Chowk, towards the west Yadav tradars via infront of Agrasen Mandpam via south side plot no. 1106 home of Sen via South side scheme no. 41 main road via West side North boundary of house no. 1145 C-1 Shri Dubey home via Deerghayu Physiotherapy via East side Bake Biliari home via infront of HB collage via back portion of Abhishek provision store corner of Mithila puri via JDA scheme no. 05 houses via 28 quaters via Survey of India Recedencial quarters via Junction of Lanti village South boundary.

**West** – From Rajeev Nagar Madhotal, via JDA Scheme 14, Saraswati Gyan Mandir, via Nabbe Quarter, Kanchan Vihar, Municipal Corporation Boundary upto Kachmar City Road and from the south of Nachiketa Chouraha to the Temple of Shankarji in front of Vinay Dairy.

<b>North</b> - Nalbandh mohalla road starting from the junction of Dhalgarpura road and chhote sonkar lane towards north-east in front of house no. 521 of Haji Abdul Jabber via a Barial road on the shyam singh ke Dhadé upto the new bridge of Motinala then along Motinala New Mirzapur Road upto the Motinala nala Bridge near Mohammedan Burial ground.	<b>East</b> - New Mirzapur Road starting from the Bridge of Motinala near Mohammedan Burial ground towards South upto the junction of Khhaiya Road near Water Works Boosting Pump House.	<b>South</b> - Khhaiya Road starting from the junction of Mirzapur road near Water Works Boosting Pump House towards West along the same road upto the house of Mirza Jamal Beg No. 376 towards south-west in front of Municipal Corporation Septic Latrine through Nala passing infront of the house of Shankar Malgujar upto the junction of the Nala Bridge of Dhalgarpura Road near the house of Garib -Ullah	<b>West</b> - Dhalgarpura Road starting from the bridge on the Nala on the road near the house of Garib -Ullah along the same road towards north upto the junction of Nalbandh Mohalla road near the house Chhote Sonkar.
			<b>Ward No.37 Dr. Rajendra Prasad</b>
			<b>North</b> : - From Damoh naka chowk to gohalpur road india mutton shop infront of Regional bus stand upto infront of house of Atari Lal Tiwari, to koshti Mandir to Jamuniya Kunwa & upto corner of soozipura school - Ride sight portion.
			<b>East</b> : - Starting From corner of Sujipura school, to right side portion of chhota fuvara upto tamrakhai chowk to Jhadoo Mohalla Raja tent Simariya Rani ki kothi & upto Babu Mammojan das hittkarini School.
			<b>South</b> : - from Babu Mammojan das Hirkarni, Guru Tiraha infront of Mishra Bandhu Karayalaya to ride sight portion upto cherital police Quarter.
			<b>West</b> : - from Police Quarter between baldeobagh & Damoh naka to Samdariya Complex Gopal Bihar, Damoh naka chowk upto
			<b>Ward No.38 P.Motilal Nehru</b>
			<b>North</b> - Anand Ngar, Portion of Jain Temple, Portion of Schedule Tribe Hostel.
			<b>East</b> - Portion of Bahorabagh Choupra Mosque.
			<b>South</b> - Front part of Gohalpur Police Station old water tank (Overhead) part of Gazi Miya Mosque.
			<b>West</b> - Om Nagar, Gazi Nagar, Portion of Ram Nagar in front of land development bank.
			<b>Ward No.39 Chitraranjan Das</b>
<b>North</b> - Portion of Durga Temple X-club No. 2, Portion of Rajneeti Nagar.	<b>East</b> - Through the house of Aashiq Ali in front of Bharat Nagar Aara Machine through lane beside of Shekhar Koshta upto house of Shri Lakhera, From Kirana Shop opposite to Lakhera Ji ahead of electrician through land development Bank house construction society upto house of Arabs, from house of Arabs upto Amkhera road north of house of Rasheed Neta (Leader).	<b>South</b> - From Gohalpur Police Station via sides of Motinala upto New overhead water tank, Portion of Police quarter AhmedNagar.	<b>West</b> - New Narmada Nagar, Narmada Nagar, portion of Subhash Nagar.

**Ward No. 40 Dr. Zakir Hussain**

North - From Bahorabagh crossing via Harafia Mosque through lane of Naimuddin Ice Makers which goes towards Pani Talaiya.  
East :- West - From the house of Dr. Khan through main road Gohalpur Raddi Chowki (crossing) upto Geeta Plywood.  
South : From front of Kaliwali Chai (Tea) through lane of Saleem Rashan wala (PDS) upto factory of Kata Beedi, then to Armenuddin Dairy and Doctor Choudhary lane and east part of Bahorabagh lane main road.

**Ward No.41 Sanjay Gandhi**

North:- From Khushi Janerel Store to west side towards durga mandir kadimunshi office upto Razachowk.  
East :- From Tantaniya Pahadi Salauddin Madarsa towards sammati Nagar main road left hand area towards north upto khushi Janaral Store.  
South :- From Dr. Aslam to tantaniya Pahadi Area and move East Direction upto salauddin madarsa.  
West:- From Razachowk Taha kirana store towards left hand area south side upto Dr. Aslam .

**Ward No.42 Netaji Subhash Chandra Bose**

North:- From MilkScheme Mahaprabandhak (G.M.) House. to Shobhapur Main Road towards right hand area upto Danik Bhaskar Press Office and Industrial Area last Railway Crossing to Shobhapur Road Kali Mandir.  
East :- From In front of Railway Crossing Shobhapur to kali Mandir to central area to south side belongs to further Sapna Nagar New Pani ki Tanki and nirbhay nagar pahadi towards Tantaniya pahadi before Salauddin Madarsa Santosh Pandey house.  
South :- From To Salauddin Madarsa Santosh Pandey House towards West Ambedkar Bhavan Area Crass the Lalit Nagle House to Ambedkar Bhavan.  
West :- From Near Ambedkar Bhavan Mukesh Kori House towards north move further Shukla kirana and upto Milk Scheem Mahaprabandhak (G.M) House.

**Ward No.43 Dr. Shyama Prasad Mukherjee**

North – From chungi chouki to house of guru prasad to chanchnghar chouk.  
East – From chungi chouki to GCF (Baoundary) to hanuman toriya to side of railway line to pul no 01.  
South – From Pole No. 1 Gokul das dharamshala to indra market up to central jail gate.  
West – From central jail quarter to housing board culvey to railway station to kanchghar chouk.

**Ward No.44 Acharya Vinoba Bhave**

North – East : Starting from the centre of southern boundary Pahadi of Gohalpur Village from the Jabalpur Panehara and Gohalpur village Pahadi Tiraha located at the north-western corner of the Hindu Shamshan Ghat towards eats up to the north east corner of Hindu Shamshan Ghat the from the center of the Pahadi towards south along the eastern boundary of the Shamshan Ghat crossing the new culvert near Marghatai towards south along the same road along house No. 1882 then along Swami Ramkrishna Paramhans Road upto the convert on Omri Nala then towards south along the nala up to the Bridge on Omri Nala on Kundam Road.

<b>South</b> = Starting from the Bridge on Omni Nala on Kundam road near Tadikhana then along the Kundam road towards north along the house No. 1864 of Verma and house No. 1890 of Hiratali passing along the Tiraha nala further back then towards south passing along Sheetalamai Mandir by the road in front of Sarkari Kua towards the wet up to Prem Sagar Police Station on Prem Sagar Road.	<b>West</b> = Starting from Prem Sagar Chowki on Prem Sagar Road towards north along Marghatai road crossing Ganeshganj Road junction of to the junction of Jabalpur, Gohalpur and Panehra Village.	<b>Ward No.45 Sheetalamai</b>
<b>North</b> = Starting from the nala near Harjan Quarter which is situated on New Mirzapur Road and Prem Sagar Road towards east along Sheetalamai Mandir Road passing through Sarkari Kua upto the bridge of Omni Nala on Kundam Road near Tadikhana main road through Kandelwal Building Kuchchhbandhiya Mohalla upto main road Maharana Pratap Chowk.		
<b>East</b> = Starting from the Bridge on Kundam Road near Tadikhana along the nala towards west further to west from the house of Ram Swarup Sharma along the main road nala passing along the back of Ravikant Rawat building towards west along Omni Nala along Janjira Nala on the New Mirzapur Road upto the Janjira Bridge and Housing board colony junction through Kanch Ghar main road Samadhdiya colony upto Kanch Ghar road Kandelwal Building.		
<b>South</b> = From Gopal temple through Bai ka Bagicha along Ram Krishna Aasharam through Kuchbandhiya Mohalla up to Junction of Bachau ka Bada housing board colony Tiraha.	<b>West</b> = Starting from Janjira Bridge on New Mirzapur Raod towards east to the junction of Prem Sagar Nala then towards north along Prem Sagar Nala across Kundam Road along the nala up to the Prem Sagar Road Junction near Harijan Quarter.	<b>Ward No.46 Pt. Dwarka Prasad Mishra</b>
		<b>North</b> – Starting from the junction of Gopal Hotel and Siddha Baba Road towards east along Acharya Kripalani Road passing through Six Khamba Chandmari Road through the Chouraha towards east along the road upto the western boundary of GCF which is between GCF boundary pillar No. 8D and 8C.
		<b>East</b> = Starting from the junction of Six Khamba Road Chandmari towards eastern road which meets the western boundary of GCF towards south along GCF pillar No. 8C along the boundary upto Kundam Road near old Chungi Naka.
<b>South</b> = Starting form GCF pillar No.3 which is near the Middle School on Kundam Roa along the Kundam Road towards west upto the junction of Kanchghar Chowk.		
	<b>West</b> = Starting form Kanchenjar Chowk towards north along Acharya Kripalani Road passing along Ghambapur police station and Bharat Sevak Samaj Jhamandas Chowk upto the junction of Acharya Kripalani Road then towards north along Acharya Kripalani Road upto Gopal Hotel Chouraha.	<b>Ward No.47 Seth Govind Das</b>
		<b>North</b> = Starting from the western boundary of Betala village (Kanchanpur Toria) from Siddha Baba Toria towards east from the middle of Pahadi of Chandmari Toria then from southern part of Sharda Mandir upto pillar No. 8D of GCF boundary which is on the western corner of Chandmari Toria.

**East** – Starting from pillar No. 8D of GCF boundary towards south along GCF boundary to the southern side of Chandmari Road which meets between GCF pillar No. 8D and 8C then along the same road towards north west upto the junction of the road form Six Khamba to Chandmari.

**South** – Starting from the junction of road between GDF pillar No. 8D and 8C Six Khamba Chandmari Road towards west along the road passing through Acharya Kriplani Road upto Gopal Hotel Chouraha wjich is the junction of Siddha Baba Road.

**West** – Starting form the junction of Gopal Hotel and Siddha Baba Road along Siddha Baba road towards west upto pole No. K.R. 511 old house No. 2351 of Narbada Sahu then along the southern portion of Tar Road house No. 2588 and 2488 Pole No. K.R. 151 Babulal Gupta's house near the Nala ad the house No. 2561 then along the road passing by the southern portion of Pole No. K.R. 151D then along Tar Road along Pole No. 151/SP house No. 2410 of Rami Bai W/o Mithailal across the milestone then passing by house No. 2008 (New) of Krishna pal Gautam then towards the western side road near house No. 1989 of Shanti Bai passing by house of Kalu along Timber Tall upto the Temple and form there towards Toria upto Kanchanpur where the house of Sundar Bai W/o Ramshankar Kachhi is situated.

#### Ward No.48 Siddha Baba

**North** – Starting form the southern boundary of Betala village means the southern boundary of Siddha baba Totria which is on the south of Siddha Baba Temple towards east and along the southern boundary of Betala village from the middle of the Pahadi (hilllock) to north of House No. 1039 of Dev Pandey near the house of Ram Gopal along the middle of the Pahadi passing through Thihari Mohalla, Patel Mohalla to the unction of Cheep Lane which is in front of the house of Sunder Bai W/o Ramshankar Kachhi.

**East** – Starting from the southern boundary of Betala village near Siddha Baba Totria towards north-east passing along the middle of the hillock through Cheep Lane towards south upto the junction of New Chandmari Road near the house of Dulari Bai Yadav Pole No. K.R. 145 along the pole No. K.RI 145 then towards south along the tar road crossing the nala passing the nala passing along the house of Halke Singh then beyond that Pole No. KR 145 ISP 2 then along the house of Ganesh Prasad further by the side of the Temple passing through the house No. 2548 of Panna Lal Kachhi along the WBM road then turning at Pole No. JR 151 CK crossing over the culvert over the Nala then House No. 2612 (Old) then upto House No. 2607 on Siddha Baba Road junction then crossing the road (right side if the road towards Achayrya Kriplani Road along Janta Hotel.

**South** – Starting from House No. 1882 near Pat Baba Toria on Ramkrishna Paramhans Road along the souther road of Pat Baba Toria towards west upto the eastern boundary of Nala Marghatai which is near the house of Ram Naresh Pasi and Electric Pole No. 1113 GSP 10.

**West** – Starting form the eastern boundary of Marghatai near the House of Ram Naresh Pasi and Electric Pole No. 1113 GSP 10 along the boundary towards north crossing the new culvert on Marghatai Road then along the southern boundary of Gohhalpur village towards north upto Siddha Baba Toria near the well of Siddha Baba Toria.

### Ward No. 49 Lal Bahadur Shastri

<u>North</u> :- From the house of Ibrahim cement Pole No. N.A. 6 via quarter No. EWS 152 from house No. EWS 71 hameed compunder ahead of house of Akbar Milkman along house of Sadik hotel via old overhead water tank rock area via Jeevanlal Pasi house and house of Mustak Mansoori along whole plotting Tedhi Neem wale Baba along Rahees Bhajan upto nala.
<u>East</u> - From the house of Late Ramkishor Choudhary towards back space of Dr. Pachouri house, whole area and front area along Jhanda crossing on right hand via Abdul Khalik house No. 500 via house of Jameel Haji right hand portion upto old slaughter house.
<u>South</u> :- From house of shakeel Ahmed at Panchkuiya tricrossing via portion of right hand side of 16 quarter along Talib milk dairy upto Raza Mosque (Masjid) fr40m. house of Dr. Jamirul.
<u>West</u> - from the house of Late Sheikh Rasheed taking the side houses of Khooni nala upto house of Raja tent at Panchkuiya Crossing.

### Ward No.50 Thakkar Gram

North :- From new slaughter house graveyard via saiyad hotel sindhi line via shamshad murad hotel along sindhi line house of Babu salaam upto house of vishwanath line towards front of Dr. Pachauri and Babu Salam.

East :- From Mazhar Hazi to Shabbbeer Kurashi to alone of Dr. Sen than Nagpur wale Baba to Sulabh Complex to old Slaton House to Anna Farukh to Haddi Godam Electric shop to Kilkari Garden to house of Hazi Mazhar.

South :- From Shankar crossing from Nabbu khaleefa bridge along boundary wall of graveyard upto naya kamela.

West :- From the house of advocate Rajaram choudhary upto thakur mill (chakki). Along kirana shop of Rambhan along Jai Mata Di Rashan shop along house of ex ward member Pappu sonkar before Hari Narayan sahu General store upto house of Ahirwar along chauth wale Baba lane. Near house of Lajji sahu and its front part upto Ayodhya kirana stores shankar crossing.

### Ward No.51 Ravindra Nath Tagore

North :- (1) From Raddi chouwki star hotel along khandelwal upto kasim sardar welding khooni nala (2) From kasim sardar welding upto godown of ex ward member Haji Ameen. (3) From Ahsaan aita mill along wajidul kadri via Anjuman school upto house of Bombay tailor sarfabad colony.

East :- From beside the house of Haneef along pole no. A/26 cement pole along king medical stores towards right hand, along Asra connection line upto Ajmal Mulla and yakoob saudagar house.

South :- From house of Malik Bhai, from Raja Manjil pole no. A.P./67 bridge along Agrawal panni Godown upto MEA SS steel traders in c line and along the same side towards Hamja mosque (masjid) to sultana Ghat naala khaleel kirana right line right hand side from house of Murli tent house upto Raddi chowki star hotel.

West :- From the house of Daud master along house of Haji majeed toward right hand side of sona steel, From Republic school upto advocate Aslam Haneef kirana nala. From S.K. Tent to Raja Crossing right hand side and from Raja crossing towards North along Raja mosque along house no. MIG - 94 S.A. Khan along house of Elias milk man towards right side in front of 16 quarter taking right hand side along Baba hotel in front of kilkar garden along house of Abbas Commet upto Noorani gate and taking right

## Ward No. 52 Pt. Madan Mohan Malviya

<p><b>North:-</b> Starting From Shekh Aziz Futatal Chowk towards east (Sabbir Bhai ) Mohammad Wahid to Shekh papa to Abdul Washir House, Laxman Ben (North to South) Rani Begam House Towards West to East Madanlal Kuwar, Arjun Chakrawarti, Musrath Jaha House to House of Shekh Shajade to Surendra Gupta to Laxminarayan Gupta (Bhagirath Ka Bada) to Anil Keshewani to Punabai Granya to Suresh Arikhal to Parasram Thakur to Sunder lal Kashiyap to ravindra Kumar chandel to Mul Chand Mehto to Dasharath Lal to Aanadi Lal to Mahesh Prasad to Shanti Bai to Bhola Prasad Kunde to Ram Krishan hate To Badri Gupta to Shukla ji Bada, Sarwati Kapoor to Rajendra Vishwakarma to Dudhmath Sonker to Bhag Chand hate up to house no 1100 (To Main Road From Belbag Police Station to Ghiamapur).</p>
<p>Banerjee Khalasi Line at juncton House No. 646, new 391 Dwarikamal Sindhi house to cement road leading to words Omni route at junction of house 586,new 360 dulari Bari garg house crossing the road near the house of Mr. Garg Ashok Gupta Chittu Halwai apartment No new Electric pole on the east side of 737,493. S.P. 2/147 No. Elctrick pole near the temple of Shankar. S.P. 2/147/1 up to Omni nala, up to bridge owner omni nala , along with the nala to the south of Bakhen Bihari Draftman house. Then from Belbag Police Station to Ghiamapur route up to House No. 1100 at main road Belbag. Main Road in front of Belbag police station to wards north,Bhagchand Belbag Hate L / 615 P 4 / C, between Sitaram Advocate House &amp; Vishwakarma Repairing car shop to Kuliya Dudnath Sonkar Poll NO B/176 /E up to the house.</p>
<p><b>East- From Ambika Charan</b></p>
<p><b>Ward No.53 Maharshi Arvind</b></p> <p><b>North-</b> Kataynni Temple crossed the street in front of the chamelii Bai house's to inside tek ,to street on the handpumps route from Saraswati school to DR R.c. gupta, Beside Pramod Gupta to Kataynni temple area and east side of the road bakra market. In front of the sloter vishwakarma route from the north side of the house &amp; mithai lal dolak vala infront of the police quarters ,to Shukrawari Bajariya road junction near the east side Bantlaya Tirahe NH Prem Sagar cross drain culvert on the way to the front of the Harijan quarters.</p>
<p><b>East- Starting From Prem Sagar route near Drain at Harijan quarters to Kundam route along with Nala across Kundam Route up to Omni Nala Junction and near the southeast corner of the Hanuman temple.</b></p>
<p><b>South:-</b> Starting From Arjun Chakrwarti House's, Towards east side of the house, from house to house Prince Sheikh Shahjade house to Bashant Thakur 's house to Surinder Kumar Gupta's house, from the house of Laxmi Narayan Gupta (Bhagirath Ka Bada)</p>
<p><b>Ward No.54 Pt. Jawahar Lal Nehru</b></p> <p><b>North -</b> Jangira Bridge via khadelwali compound to cms church compound via GRP Quarter to Ramharak ka bagicha, mazar tak.</p>
<p><b>East -</b>Mazhar to kuchbandhiya mohalla bridge to gali and house of fuljariya to railway station road and deepak dairy via railway station along with husing board via jail gate Indramarket bridge no 1 along with railway Track 2 rishi regency.</p>
<p><b>South -</b>Rishi regency to main road via High Cort to Ghantaghbar bridge.</p>
<p><b>West -</b>Ghantaghbar nala via from Ramprasad Choudhary house to janjeera pool.</p>

### Ward No. 55 Khermai

<p><b>North</b> = Starting from the lane Khaiya Marg Hanumantal near old Police Chowki (near the house P.N.Tiwari) towards east along Khaiya Marg upto the junction of New Mirzapur Road near pump house to Katayani Mandir area from Pole No.L/166-S.P. 3 B) Radha Bai to Laxminarayan Soudhiya to Narayan Kashyap to (P No. JBE 2 LT 03827) Gulab Bai Lodhi to Prem Bai Pathak to Chabbi Lal to (P No. L/166 SP 8/2) to Laxmi Soudhiya to Dholak Prasad Kori to Vijay Vishwakarma Aneeta Sen to Water Tank (Belbag Toriya) to Saraswati Shishu Mandir to Bakra Market (Front of Slator House).</p>	<p><b>East</b> = Starting from the junction of New Mirzapur Road and Khaiya marg towards south along the same road upto the junction of Shukrawari Bajariya.</p>	<p><b>South</b> – Starting from the junction of Shukrawari Bajariya Road Asiya Tent House form the west of south Bakra Slator House &amp; Left hand side House No. 600 Abdul Bakar to Right side along the House No.1785 of Gaffar Babu near Bakra Slaughter House then towards west through the corner of House No.1777 of Kishanlal Vishwakarma then towards north along the corner of western side along the Zahir Mohammad S/o Noor Mohammad then crossing of Chunnu Khan then through the western of Bhagwandas Sindhi then towards west-north cement road.</p>	<p><b>West</b> = Starting from the residence of Hanuman Prasad Verma at Hanumantal junction through Khuikawari Bajariya junction and Infront of Asia tent house near Azim Kirana residence through Jhadua Kua and residence of Shri Navi Ahmed towards right side along with Abhishek furniture to the aera of junction.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Ward No.56 Saheed Abdul Hameed</b></p>	<p><b>North</b> = From the junction of National Highway No.7 Mirzapur Main road and Adhartal trijunction towards Milk Scheme industrial area road via municipal corporation halker zone Sabji Mandi passing along the office of joint Director, Veterinary Services and Milk Scheme up to Government Higher Secondary School.</p>	<p><b>East</b> = Starting from Government Higher Secondary school located on the main road of Industrial area towards west passing along Neta colony millan flour mill house no. 4009 then passing by Raza clinic, house of Kadir Munshi up to house NO. 2668 of Munimuddin Mansoori at Raza Chowk.</p>	<p><b>South</b> – Starting from house No. 2668 Munimuddin Mansoori at Raza Chowk beyond the house of Qureshi Marble through rental quarter housing Board via new janta quarter water tank along Khuni nala to house no. 2041 of Kashim Sardar Welding.</p>	<p><b>West</b> = Starting from the house No. 2041 of Kashim Sardar Welding on NH-7 one at the office of met department, Anand Nagar bus stop Spring Day School, JVimal Nursery, Kamla Bhandar new corporation market up to the junction of or is made Mirzapur Adhartal Main Road Tiraha.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Ward No.57 Maharsi Mahesh Yogi</b></p>	<p><b>North</b> = Across the Amkhera Road along the boundary towards the north up to the junction of Jai Prakash nagar main road then towards east along Jai Prakash main road, passing along house No. 1281 and the middle of Subhadra Kunj and a long Electric Pole No. 18 via Adarsh Vidya Mandir up to the red bungalow of U.S. Rajpoot then along Pushpak Nagar towards south to the junction of Pushpak Nagar road and NH-7</p>	<p><b>South</b> = <b>East</b> = Starting form the junction Pushpak nagar road and NH-7 towards west along with NH-7 upto R.K. Kirana Store situated Infront of Anand Nagar Bus Stop main Road.</p>
--	--	--	--	--	---	---	--	---	--	---	--

**West** = Starting from R.K. Kirana Store situated on NH-7 towards north passing along Monalisa Beauty Parlour and post office along the house of Dr. Parekh towards west to Pole No. R/10, R/9 from towards north passing along Trimurti middle school via Pole No. R/8/3 via house of Chitra Soni towards west along pole No. ANB/15/4 along MZ Flour mill through Amkheda main road towards north up to boundary of Municipal corporation at Sonu Dubey's house.

#### **Ward No.58 Dr. Sarvapalli Radhakrishnan**

**North** – Starting from the culvert on new Mirzapur road along Pahadi nala towards East behind Chouthwala Baba Temple along the house of Bhagwan Das Kori upto the junction of Rajendra nagar road and house no. 1402 then crossing the road towards Rajendra Nagar Road along Kachha Road towards North along new culvert house no. 1440 then crossing the new culvert upto the junction of the nalla near the Charma Godown Old Tanki Teen Kua then along the nalla near the garden of Sukhlal Khatik which meets pahar Toria with the Eastern side of the Nalla upto the junction of Siddha Baba Road near the southern side of Siddha Baba Mandir Well.

**East** = Starting from the junction Siddha Baba Mandir along the Southern boundary Gohalpur Village means the South Western towards Marghatai then crossing the new culvert along the northern boundary of Shamshan Ghat upto Gohalpur Panhera and Jabalpur Junction along the junction of Marghatai road and Ganesh Gunj road towards South along the Marghatai Road upto Prem Sagar Police Chowki which is situated on Prem Sagar Road.

**South** = Starting from Prem Sagar Police Chowki Road towards west along Prem Sagar Road through the junction of Mirzapur Road and NH7 upto the junction of Shukar Bari Bazariya which is near Police chowki.

**West** = Starting from junction of new Mirzapur Road near Bhangtaiya Police Chowki and the road from Bhan Taliya and Shukrawari Bajaria towards north upto the Bridge on Motinala on New Mirzapur road which is near Burial Dround

#### **Ward No.59 Saheed Asfaque Ulla Khan**

**North** = Starting from the junction of Gohalpur Road near Gullaha Bridge towards East via cement road lane in front of house no. 614 of Old Gohalpur Ward belonging to Shri Haji Raza then in front of house of Shri Hamid Ullah Khan and Shri Haji Ibrahim upto the junction of Beni Singh ki Taliya Road which is near the well of Gohalpur Imambada then towards east via Beni Singh ki Taliya Road along with the same road crossing Nalband Mohalla road near the Char Khamba via a Tilwania road upto the junction of new Mirza pur road which is near the mohammedan Burial Ground.

**East** = Starting from new Mirzapur route to the junction of Tiliyana Road near Mohammedan Burial Ground towards south along the road upto the Bridge of Motinala near the south west corner of Mohammedan Burial Ground.

**South** = Motinala starting from the bridge of Motinala on new mirzapur road near Mohammedan Burial Ground along with the same nala towards west upto the new bridge on Shyam Singh Dhada then towards South west along the burial road passing through the house no. 432 of Motinala belonging to Shri Shamsuddin upto the Nalband Mohalla road near old house no. 521 of Abdul Jabbar along nalbandh Mohalla road towards South upto the junction of Dhalgarpur road and the cul what near the house of Chhote Sonkar.

**West** = Starting from the junction of Nalbandh Mohalla Road along the culvert near Chote Sonkar up to the junction of Moti Nala near Gulalha Bridge via across junction of lane of Old South Millionganj Urdu School near the house of Sheikh Mohammed.

## Ward No. 60 Nirmal Chandra Jain

**North** - From the junction of Urdana Nala and Krishni Nagar colony towards eastern side along Urdana Nala upto Bridge on Central railway line over Urdana Nala.

**East** - From the bridge on Central railway line over Urdana Nala towards south along railway line upto Shobhapur railway crossing

**South** - From Shobhapur railway crossing along with main road towards industrial area on west upto Krishni Engineering Office.

**West** - From Shobhapur mainroad towards east beside road of Upadhaya restaurant along Govt. H.S. School Kanchanur via Radheshyam towards north of W.S. Rai towards west of Verma Atta Mill via M.P. State seed Depot organisation upto main road Shobhapur road.

## Ward No.61 Diwan Adhar Singh

**North** - From Timeda of house of Madho Prasad Kachhi along the border of Municipal corporation towards north then towards east along Urdana Nala across new Mirzapur road NH-7 including Krishni Nagar colony upto junction of Urdana Nala and Krishni Nagar colony via Bangladesh colony.

**East** - From the bridge of Krishni Nagar and Urdana Nala nad junction road towards Krishni College towards south upto Engineering Centre main road.

**South** - From Agricultural Engineering center main towards the west along the main road across the Adhartal Timeda upto the junction of Pushpak Nagar road and NH 7 then from there along the western road to the bunglow of U.S. Rajput there after along Adharsh Vidhya Mandir upto Electric poll no. J-18 then towards west upto House No. 1281 along the road in front of Subhadra Kunj house upto boundary of Municipal Corporation.

**West** - From the road between Sobhapur and Upadhayay restaurant to East of Dulhaudev Mandir along with North of Awasti reliance 4D tower towards west of Rakesh Jaiswal road to Subhapur road along with Krishni Nagar road and Urdna Nala junction.

## Ward No.62 Dr. Bhim Rao Ambedkar

**North** : - From vehicle pole no. 99 along vehicle border towards north east of tribal hostel sharda nagar towards border of nature park in south upto border of Raksha colony, From border of Raksha colony towards rock area upto Aman nagar vehicle road again via shri Umesh Pandey via vehicle road towards north east upto Pushpa Pan Bhandar in front of Kishan hotel in north east.

**East** : - From front of kishan hotel via Dr. Lalwani at Mastana crossing upto Ranjhi kundam road Junction upto Darshan Tricrossing.

**South** : - From junction of Ranjhi road towards west by kundam road via junction of C.O.D. road in west up to pole no. 31/41 on cantonment border. Then along cantonment border upto junction of water filter plant towards west which goes towards south west corner of laxmi narayan yadav school opposite to cantonment border no. 31/36 and 31/33 upto junction of west nala of water filter plant and kundam road.

**West** :- From nala on west of municipal corporation water filter plant and kundam road junction upto wall on north-east of water filter plant. Then to Ram nagar towards east, from back of sharda nagar basti towards border of vehicle factory sides upto vehicle factory pole no. 99.

## Ward No. 63 Shaheed Bhagat Singh

<u>North</u> :- From southern border of Bilpura village and house of Devi Singh house no. 445 at municipal Corporation border upto junction of road going towards east of Mohania village which goes towards back of Ranjhi shamshan ghat along northern border of Municipal Corporation upto tricross of Mohania and Ranjhi village.
<u>East</u> :- From the Timeda of Mohania, Manegaon, Ranjhi village along east border of Municipal Corporation towards south, from Manegaon Champa Municipal Corporation khasra no. MT/44 towards nala built in west upto bridge at khasra no. MT/45.
<u>South</u> :- From Manegaon Champa nagar bridge upto mohit kirana, from transformer pole no. 44/434 via house of Subhadra Rajak along back of saint Gabriel boundary along pole no. 44/423, From beside Tiu Sharma shop along Sarvapalli crossing upto road junction built in front of society building ahead of badda pathar.
<u>West</u> :- From Bada Pathar J.D.A. market crossing along Bela welding shop via house of Tarachand sahu via shiva temple via house of Shri Vishwakarma upto front of house of Govind Singh towards east, Again from house of Govind Singh towards north along back and beside of J.D.A. office towards east of L.I.G. quarter via bridge on bilpura road upto west border of Bilpura village.

## Ward No.64 Maharsi Sudharsan

<u>North</u> :- From the back of Tribal hostel Sharda nagar along border of vehicle estate upto kali temple, from kali temple along boundary of saint Marry school along Dakshin Mukhi Hanuman temple, From house of Sharda Raikwar along Gram Panchayat along rock area at back of Apsa convent upto back of house of Sh. U.S.Bihare.
<u>East</u> :- From the house of Sh. U.S. Bihare along back of kali temple J.D.A. office via J.D.A. quarters upto house of Sh. Govind singh , From house of Sh. Govind Singh along front part of house of Vishwakarma towards west along front part of house of Ramdeen kewat along house of shri Goswami towards east along sahu kirana stores along house of Sh. Madan Mohan sahu along Tiwari telecom situated at Bada pathar crossing along Major Kirana Ganesh ganj upto front of Peetm Kirana stores kishan hotel.
<u>South</u> :- From Peetam Kirana stores kishan hotel upto house of Shri Mahendra Singh Bagnel towards south west, along house of Rathore along rock area upto border of Raksha colony.
<u>West</u> :- From border of Raksha colony along S.A.F. boundary along back of nature park upto Sharda nagar Tribal hostel Vehicle.

## Ward No.65 Subhash Chandra Banerjee

<u>North</u> :- Central railway plet form no 01 to railway bridge no 01 to GCF pole no 29 via loco talaiya loco quater upper line.
<u>East</u> :- From pole no 29 (GCF) chungi chouki naka to jactic Shishir chand pandey house to MLA house to Univercity Tringle via Mahakoushal scince collage.
<u>South</u> :- From Cantonment pole no. 17 towards western side along with Cantonment Boundary via ridge road lohiya bridge tankha memorial school to front of home gard office to Dainik Bhaskar press forway to senthoumas school to forway of mata mariyam to front of emayar talkies to bridge no 2 via carse.
<u>West</u> :- From bridge no 2 to railway station plate form no 1(East side area).

North :- From the junction of Cantonment tax border crossing in between pole no. 78 and 77 along the border of Cantonment towards east via pole no. 77, 76c, 76d, 76A and 75 along Mandla road upto Cantonment border pole no. 74, 75, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59.

East :- From the Municipal Corporation via the western border of Mehgawan village and north western border of sukhralpur village along the eastern border of Municipal Corporation upto northern border of village Umariya towards south.

South :- From the northern border of village Umariya along the western border then the north eastern border of Gauraiya Ghat Gaur river and border of gauraiya ghat village border Junction.

West :- Change Pole no 76,75 C and from swami ayappa school house of suresh yadav, alog with muchandani duplex on narmada nagar road return on main road alog with APR colony, model town krishna home, border of narmada nagar till border of kajarwara across the pink city ware house near khandari bridge.

#### Ward No. 67 Virangna Rani Avanti Bai

North :- Starting from cantonment boundary Main road Mandla between E.P. No. 76 & 75 from both side the road upto Khandari Nala & from south side on Mandla Road upto Gour river.

East :- Via junction of Bilahri Khandari nala Tilahri village from Chauthameel from Municipal Corporation border upto Jamtara turning of Gaur tricrossing.

South :- From Kudaria village along Gram Panachayat junction place Jamtara Paraswara Basti area.

West :- From Chauthameel via society building of tilahri village on Xerox collage road upto chhiwla village basti and Bhatoli river of border.

#### Ward No.68 Gokalpur

North East - Starting From Vehicle Factory Pole No. 99 to East of V.F.J. Eastern Area Boundary of Ambedkar Ward West Area Junction towards South of Ram Nagar Sharda Nagar Basti upto North Area of Water Treatment Plant along with Nala Towards West at Kundam Route Pole No. 31 to 33.

South - Starting From Cantonment Area Pole no. 31/33 Near Junction of water Treatment Plant road towards West South along with Cantonment Area Pole No.31/24 near Bridge at Nala to G.C.F. Near Pole No. 18 to north Then East Side of G.C.F. Pole No. 17,16,15,14,13 to Pole No. 12 at upto Central Railway Line.

West - Starting From G.C.F. Area Pole No. 12 Towards North of G.C.F. Pole no. 11 B, 11 A upto V.F.J Pole No. 29 Then Along with then East of Along with V.F.J. Area upto Pole No. 128.Then Towards North of V.F.J. Area Pole No. 148 to 99.

## Ward No. 69 Chandra Shekhar Azad

North: Starting From Bada Pather Community Building to Saraipeel Chowk, Via Shree Tiu Sharma Shop upto 44/423. Then From House of Smt. Subhdra Rajak No. 3135/2 at Back Side of Boundary Wall of St. Grawial School upto Transformer Poll No. 44/434, Then In Front of Mohit Kirana to Champa Nagar Pulia.

East: Starting From M.T. 45 Managao Pulia to South of JMC boundary Along With Eastern Boundary Nala with East of Chandan Nagar towards East of Khamaria Estate Near irrigation Crossing Kenarg and Kundam route upto Pole No 31/50 (South Side of the Railway Line) at Cantonment Area.

South: - Starting From Cantonment Area Pole No. 31/50 Towards Pole No. 31/4/1 at C.O.D. Route.

West: - Starting Form Cantonment Area Pole No. 31/4/1 to North of C.O.D Kundam Route to Junction at Kundam route to East of Kundam route Via Ranjhi route Junction to north of Ranjhi Route in front of the Ranjhi school towards North upto Bada pathar community hall.

## Ward No.70 Lala Lajpat Rai

North: - From the tricross of northern border of village Mohania and Bilpura along the northern border of village Mohania across the tricross of village Moahania Manegaon along the eastern border of village Manegaon across the tricross situated on the border of village Manegaon chandeli along the border of village chandeli across the tricross of village chandeli Mehagawan along the border of village Mehagawan across the tricross situated on the border of village Mehagawan Chakdehi along the border of village chakdehi upto the tricross of village chakdehi Dumna situated on the border towards east.

East: - From the tricross on the border of village chakdehi Dumna along the eastern border of village chakdehi across the border of village chakdehi, Dumna, Gadheri along the border of village chakdehi upto the tricross of village chakdehi Gadheri and village kota.

South: - From the tricross of village chakdehi, Gadheri and village kota along the border of village chakdehi across the tricross of village chakdehi Mahgawan situated on the border along the border of village Mahgawan along the tricross situated on the border of village Mahgawan, kota and along the border of ward and Mahgawan upto the border of cantt. board.

West: - From the border of village Mahgawan and border of cantt. area along the border of village Mahgawan across the tricrossing of village Mahgawan and village chandeli along the border of village chandeli and cantt. area border across the tricross of village chandeli, Manegaon along the border of ward and village Manegaon across the tricross of village Manegaon and Mohania along the border of Mohania upto the tricross on the northern border of village Bilpura.

## New Ward No. 71

North - Starting from the North-West boundary of Village Chheetapar with its northern boundary line to the northern boundary of village Tewar, and along it the northern boundary of village Pindari, and along western boundary of village Andhua & Bahadan, crossing the railway line and the the North -East boundary of village Mohaniya, till the Eastern boundary of village Paraswara.

East- Starting from the eastern boundary of village Paraswara and along the boundary of village Andhua and along the eastern boundaries of village Kungwa, Tewar, Choukeetal, Dalpatpur and Ramnagra up to river Narmada.

South - Along river Narmada forming the boundary of village Ramnagra till the western tri-junction and from the tri-junction of village Dalpatpur and along river Narmada till the western boundary at tri-junction of village Dalpatpur.

**West** - From the border of southern tri-junction of village Dalpatpur and along its western boundary towards north and the tri-junction of Chowkeetaal to western boundary of Choukeetaal, up to the junction of village Tewar and along its western boundary to the junction of village Chheetapar and along the boundary village Chheetapar up to the north west boundary of village Chheetapar.

New Ward No. 72

**North**- Starting from the tri-junction of village Auriya and Khamariya and along the boundary of village Auriya and along the northern boundary of village kathaunda till the west boundary of village Gurda.  
**East** - Starting from eastern boundary of village Kathaunda and along its boundary up to western boundary of village Amkhera.

**South** - From the western boundary of village Amkhera and East - South boundary of village Kathouna along the boundary of village Kathouna and along the boundary of village Riyha and southern boundary of village Auriya and along the western boundary of village nandani Rostra and Karmeta and from west to south along the boundary till eastern boundary of village Lamti and along its boundary till the South- West boundary of village Simariya along the boundary of village Raksha, Basaha & Kachanari.

**West**- Starting from the South - West boundary of village Simariya and along the western boundary till the western boundary of village Raigawan, Nandna, Nandni Rostra, Khamariya and Auriya.

New Ward No. 73

**North** - Starting from North- West boundary of village Karneta and along its northern boundary till the North-East boundary of village Auriya and Karneta.

**East** - Starting from North- East boundary of village Auriya and Karneta up to the eastern boundary of Karneta and along its boundary up to North- East boundary of village Lamti.

**South**- Starting from the North-East boundary of village Lamti and along the southern boundary of village Karneta and up to the boundary of village Raksha.

**West**- Starting from the South- West boundary of village Karneta and along it towards north up to the junction of boundary of village Karneta and Auriya.

New Ward No. 74

**North**- Starting from Timeda of village Kathonda and Gurda to Turn of Suhagi Village Portion. Along with, road Comes form Eastern boundry of Gurda to Maharajpur and Northern bopoundary of village kudwari.

**East** - Starting from the border of Suhage and along its turn towards east and south and behind dairy farm up to Urdana Nala.

**South**- Along Uradana Nala and along the southern boundary up to the South- West Border of village Amkhera.

**West**- Starting from South-Western boundary of village Amkhera and along its western boundary towards north via the boundary of village Kudwari up to the western boundary of village Gurda.

## Ward No. 75 New Ward

**North:** - From the Timeda situated on the west border of village Bagheli along the border of village Bagheli across the Timeda of village Urdua Khurd along the border of village Urdua Khurd upto Timeda of village Pipariya (1).  
**East:** -From the Timeda of village Urdua Khurd Pipariya (1) along the Timeda of village Urdua Khurd, village Pipariya, Imaliya and khairi along border of village Khairi and village Imaliya via tricrossing of village Imaliya and village Richhai along the eastern border of village khairi and western border of village Richhai upto the Timeda of village maharajpur, village Richhai and Suhagi border.

**South:** - From the Timeda of village Richhai maharajpur and Suhagi border along the border of village maharajpur and Suhagi Towards west upto eastern Timeda of village kudwari and village Gurda.

**West:** - From Timeda of village suhagi, kudwari and maharajpur along the border of village maharajpur across the Timeda of village kudwari upto village kudwari along the Timeda of gurda and border of village Maharajpur across the Timeda of village maharajpur and chati along the border of village chati across Timeda of village Bagheli upto Timeda situated on the west border of

### Ward No.76 New Ward

**North:** - From the Timeda of village Pipariya (1) and village Urdua Khurd situated on the border of both, along the border of village Pipariya (1) towards east via Timeda of village Imaliya along the border of Timeda of village Imaliya, Pipariya (2) along the border of village Pipariya (2) upto Timeda of village Bilpura border.

**East:** - From the border of Timeda of village Pipariya (2) and village Bilpura along the border of village Pipariya (2) and Bilpura along the Timeda of village Madhai on border upto the border of village Madhai and village Bilpura and word.

**South West:** - From the border of village Bilpura and ward along the border of village Madhai and Richhai towards west via Timeda of village Madhai Richhai Pipariya (2) along the border of village Richhai and Pipariya (2) and Timeda of village Imaliya along the southern border of village Imaliya and the northern border of village Khairi via Timeda of village Pipariya (1), Village Khairi via Timeda of village Pipariya (1), Khairi and village Urdua Khurd situated on the border along border of village Pipariya upto Timeda of village Pinariva (1) and Ikrha Khurd.

### Ward No.77 New Ward

**North:** - From the Timeda situated on the border of village Suhagi Maharajpur along the border of village suhagi Maharajpur via Timeda of village suhagi, village Richhai, village Maharajpur along the border of village Richhai Maharajpur across Timeda of village Khairi, Maharajpur via Timeda of village khairi, Imaliya along the border of village Richhai upto the border of village Pipariya (2)

**East:** -From the Timeda of village Richhai and village Pipariya (2) along the border of village Richhai and village Madhai upto the Timeda of village Richhai, Madhai on the border and upto the border of ward.

**South:-** From the border of Timeda of village Richhai and Madhai along the border of village Richhai and norther border of ward along the border of V.F.J. (defence factory) towards west, along the border of village Suhagi and border of ward upto the border on Richhai. of village

**West:** - From the border of village suhagi and ward via the turning of village suhagi through the interior road after the turning of village suhagi upto border of village Maharaipur.

## Ward No. 78 New Ward

North: - From the Timeda situated on the border of village Pipariya (2) and village Madhai and village Bilpura along the border of village Pipariya (2) upto the tricrossing of village Bilpura, village Mohania border.

East: - From the Timeda on the border of village Bilpura village Mohania along the border of village Bilpura and Mohania upto the border of ward of the south.

South: - From the Timeda on the border of village mohania, village Bilpura along the border of village Bilpura and ward upto the Timeda on the village Madhai Bilpura border.

West: - From the Timeda on the border of village Madhai and village Bilpura along the border of village Bilpura Madhai upto the Timeda of border of village Madhai and village Pipariya (2)

## Ward No.79 New Ward

North: - From the corner on the North west border of village Pipariya along the border of village Pipariya towards east via Timeda of village sonpur along the border of village sonpur upto corner on the North-east border of village sonpur.

East: - From the corner on the North-east border of village sonpur along the border of village sonpur via Timeda of village Pipariya along the border of village Pipariya via Timeda of village Umariya along the border of village Umariya via Timeda of village Umariya and Dumna towards west along the border of village Dumna across the Timeda of village Dumna Gadheri upto south eastern corner situated in the border of village Gadheri.

South: - From the South eastern corner of village Gadheri along the border of village Gadheri across Timeda of village Gadheri, Sukhalpur, kota towards south along the southern border of village kota upto Timeda of village Sukhalpur and village kota.

West: - From the Timeda of village Sukhalpur and village kota along the border of village chakdehi on north along the border of village kota and Chakdehi via the Timeda of village kota Gadheri along the border of village Gadheri via Timeda of village Dumna along the border of village Dumna via tricrossing of village Pipariya towards North along border of village Pipariya upto corner on the North west border of village pipariya village boundary of mehganava to along with both side of University road to pall no 17 ridge road university tiraha to scince and mahakoushal collage via MLA house tiraha via jastic ait singh Gov.residence.

R. K. MATHUR, Commissioner,  
Jabalpur Division Jabalpur Camp-Sagar.